



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 22, 1992 (फाल्गुन 3, 1913)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 22, 1992 (PHALGUNA 3, 1913)

इस भाग में बिम्ब पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रफ़रों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं

(Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence)

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 1992

सं० 37, दिनांक 21-1-92—राष्ट्रपति भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री दीपांतर बसु (गजरात-66) को सशस्त्र सेवा आयोग, नई दिल्ली से स्थापनापत्र होने पर, उन्हें 15 जनवरी, 1992 (पूर्वाह्न) से अगला आदेश होने तक, रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

सं० 38, दिनांक 16-1-92—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के रक्षा मंत्रालय संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को, प्रत्येक के नाम के सामने लिखी अवधि तक अथवा उस पद पर नियमित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इसी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं:—

नाम	से	तक
1	2	3
सर्वश्री		
सरूप सिंह	1-1-1992	31-3-1992
के. एस. कन्टरोलि	1-1-1992	31-3-1992
(18-2-92 को एक दिन के व्यवधान सहित)		

1	2	3
चरनजीत लाल	1-1-1992	31-3-1992
(31-3-92 को एक दिन के व्यवधान सहित)		
श्रीमती बी० ठाकुर	1-1-1992	31-3-1992
(4-3-92 को एक दिन के व्यवधान सहित)		
एम० सी० शोम	1-1-1992	31-3-1992
आर० सी० शर्मा	1-1-1992	31-3-1992
के० एच० लण्ठीराम	1-1-1992	31-3-1992
(7-1-92 को एक दिन के व्यवधान सहित)		
अजय सक्सेना	1-1-1992	31-3-1992
(19-3-92 को एक दिन के व्यवधान सहित)		
सुनील मवान	1-1-1992	31-3-1992
(6-3-92 को एक दिन के व्यवधान सहित)		
एस० के० शर्मा	1-1-1992	31-3-1992
(6-3-92 को एक दिन के व्यवधान सहित)		
एस० डी० शर्मा	1-1-1992	31-3-1992
(10-2-92 को एक दिन के व्यवधान सहित)		

1	2	3
एम० जी० अरोड़ा	1-1-1992	31-3-1992
(7-3-92 को एक दिन के व्यवधान सहित)		
एस०एम० गुप्ता	1-1-1992	31-3-1992
(9-3-1992 को एक दिन के व्यवधान सहित)		
एम० एम० थामस	1-1-1992	31-3-1992
(24-3-92 को एक दिन के व्यवधान सहित)		
सच्चे राम	1-1-1992	31-3-1992
(24-3-92 को एक दिन के व्यवधान सहित)		
विजय कुमार	1-1-1992	31-3-1992
(26-3-92 को एक दिन के व्यवधान सहित)		
बी० एस० रंगा	1-1-1992	31-3-1992
(12-2-92 को एक दिन के व्यवधान सहित)		
जे० एन० घोषाल	1-1-1992	31-3-1992
(24-1-92 को एक दिन के व्यवधान सहित)		
एस० एस० मोरिया	1-1-1992	31-3-1992
(4-2-92 को एक दिन के व्यवधान सहित)		
राम प्रसाद	1-1-1992	31-3-1992
(29-2-92 को एक दिन के व्यवधान सहित)		
ए० पी० शर्मा	6-1-1992	31-3-1992

संख्या 39, दिनांक 10-1-92—भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधिकारी श्री एच० सी० जैन, अवसर सचिव, रक्षा मंत्रालय की सेवाएं 10 जनवरी, 1992 के पूर्वाह्न से मुख्य आयुक्त आयकर, लखनऊ को सौंपी जाती हैं।

सं० 40, दिनांक 8-1-92—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के रक्षा मंत्रालय संवर्ग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 1-1-92 से 3 महीने की अवधि तक अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, मंत्रालय में डेस्क अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं:—

नाम
सर्वश्री
मुकेश सिंघल
अशोक कुमार
टी० पी० मंडल
राम कृष्ण
एस० टी० विजयराघवन
प्रेम कुमार हुंस
एस० एस० बेदी
डी० एन० कटारिया
डी० आर० मेहरा
जे० पी० गुप्ता
वी० के० कपूर
ओम प्रकाश
विलबाग सिंह
आर० एन० गुहा
आर० एस० दुदानी
बलराम वर्मा
दीवान चन्द

नाम

वी० के० मेहता
सुमन के० शर्मा
ए० के० मदान
श्रीमती ककुम्तला जैंग
एम० के० देव

संख्या 41, दिनांक 16-1-92—रक्षा मंत्रालय की दिनांक 19-12-91 की राजपत्र अधिसूचना के पैरा-1 में क्रम संख्या-4 पर "श्री गरीब दास" के स्थान पर "श्री गरीब दास नायक" पढ़ा जाए।

हरि कुमार
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं० 42, तारीख 9-12-91—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विश्वासासक्तनम् के श्री वी० भुजग राव, वैज्ञानिक "डी" को 29-6-1990 (अपरान्ह) से एक वर्ष की परखावधि पर पोट निर्माण केन्द्र (ए० टी० वी०) विश्वासासक्तनम् में अस्थाई वैज्ञानिक "ई" के रूप में।

नरसिंह श्वास
सहायक निदेशक (कार्मिक)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

डी० आर० डी० एस०

सं० 43, दिनांक 20-1-92—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

मिस कृष्ण बुदाकी को दिनांक 12-12-91 (पूर्वा०) से रक्षा मंत्री का विज्ञान एवं सख्खद विज्ञान संस्थान, दिल्ली में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थाई वैज्ञानिक "बी" के पद पर:—

सं० 44, दिनांक 20-1-92—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:—

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने लिखी तारीख से तथा स्थापना में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थाई वैज्ञानिक "बी" के पद पर:

नाम	स्थापना	तारीख
1	2	3
श्री डी० एल० सिद्धा- लिगाइया	डी० आर० डी० एस० हैदराबाद	04-03-1991 (पूर्वा०)
श्री एम० मानिकावासागम	—वही—	10-05-1991 (पूर्वा०)
श्री पी० के० सरकार	—वही—	18-03-1991 (पूर्वा०)

1	2	3
श्री जितेन्द्र चूग	डी० आर० एल० हैदराबाद	23-08-1990 (पूर्वाह्न)
श्री राकेश बोहरा	---वही---	23-08-1991 (पूर्वाह्न)
श्रीमती सी० एच० नाया लक्ष्मी	---वही---	29-10-1990 (पूर्वाह्न)
श्री शान्तनु भट्टाचार्य	आर० सी० आई० हैदराबाद	27-09-1991 (पूर्वाह्न)
श्री शिवपाल सिंह	---वही---	10-04-1991 (पूर्वाह्न)

बी० एन० मेहरा
सहायक निदेशक (कार्मिक)

सेना विभाग

(सैनिक अभियन्ता सेवाएं)

सं० 45, दिनांक 29-1-92--प्रमुख अभियन्ता निम्नलिखित सुपरिटेन्डेंट्स भवन/सड़क ग्रेड 1 को उनके नामों के सामने लिखी हुई तिथियों से अगले आवेश तक सहायक अभियन्ता के पद पर सर्वेक्षण नियुक्त करते हैं। अधिकारीगण दो वर्ष के लिए परखावधि पर रहेंगे :-

एम० ई० एम०-303731 कुलवन्त सिंह--24 जुलाई 1990 (पूर्वाह्न)।

एम० ई० एस०-232560 कौशला चन्द--10 दिसम्बर 1990 (पूर्वाह्न)।

एम० ई० एस०-450109 जे० सी० शर्मा--22 नवम्बर 1990 (पूर्वाह्न)।

एम० ई० एस०-430934 पी० एन० कुन्डू--04 सितम्बर 1990 (पूर्वाह्न)।

एम० ई० एस०-242140 टी० एम० अणुकुट्टन--31 दिसम्बर 1990 (पूर्वाह्न)।

एस० कपूर
कर्नल
निदेशक पर्स 'बी'

सं० 46 दिनांक 10-12-91--राष्ट्रपति, एम० ई० एस० 300325 श्री सुभाष चन्द को 21 अगस्त 91 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक सहायक अधिशासी अभियन्ता भवन/सड़क के पद पर सर्वेक्षण नियुक्त करते हैं। अधिकारी दो वर्ष के लिए परखावधि पर रहेंगे।

शक्ति सिंह नेगी
अवर सचिव

तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु)

रक्षा वैमानिक गुणता आश्वासन सेवा

सं० 47 दिनांक 7-1-92--राष्ट्रपति, तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु), रक्षा मंत्रालय में निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :-

श्री पी० सत्यनारायण, व० वे० अ०-II (अस्थाई), को मु० नि० नि० का०, त० वि० तथा उ० नि० (वायु), रक्षा मंत्रालय, हैदराबाद में दिनांक 10 सितम्बर 1991 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष के लिए परीक्षाधीन अस्थाई वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II के पद पर।

श्री के० निरंजन चारी को मु० नि० नि० का० (डी० डब्ल्यू०) त० वि० तथा उ० नि० (वायु), रक्षा मंत्रालय, हैदराबाद में दिनांक 10 अक्टूबर, 1991 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीक्षाधीन अवधि के लिए अस्थाई वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II के पद पर।

श्री के० एम० प्रियवर्षान्त को मु० नि० नि० का०, त० वि० तथा उ० नि० (वायु), रक्षा मंत्रालय, औरंगाबाद में दिनांक 18 नवम्बर, 1991 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीक्षाधीन अवधि के लिए अस्थाई वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II के पद पर।

श्री ए० के० भाट्टे को मु० नि० नि० का०, त० वि० तथा उ० नि० (वायु), रक्षा मंत्रालय, कोरवा में दिनांक 23 सितम्बर, 1991 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीक्षाधीन अवधि के लिए अस्थाई वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-III के पद पर।

श्री सुभाष चन्द शर्मा को मु० नि० नि० का०, त० वि० तथा उ० नि० (वायु), रक्षा मंत्रालय, औरंगाबाद में दिनांक 11 नवम्बर, 1991 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की परीक्षाधीन अवधि के लिए अस्थाई वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II के पद पर।

प्रयास सुन्दर
डैस्क अधिकारी

सं० 48, दिनांक 1-12-91--राष्ट्रपति, भारतीय आइर्नस फैक्टरी सेवा के अधिकारी श्री के० द्वारकाधराजी को 1 दिसम्बर से अगले आदेश होने तक आयुध निर्माणियों के महानिदेशक एवं आइर्नस फैक्टरी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।

सुरेन्द्र सिंह
निदेशक (पी)

सेना शाखा

सं० 49, दिनांक 16-1-92--सक्षम प्राधिकारी का सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा एवं मुख्यालय आशुलिपि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968, नियम 10(2) के अन्तर्गत सिविलियन स्टाफ के पद पर उनके नाम के आगे निम्नी हुई तारीख से

छ: महीने की अवधि तक के लिये या नियमित पदवारियों के मिलने तक जो भी पहले हो, नियुक्ति किया गया है:

(सेना शाखा)

श्री अवतार सिंह	21-10-91
श्री लुनकोपाओ वार्डपाई	21-10-91
श्री अजय कुमार	21-10-91
श्री एम० एस० अशि	21-10-91
श्री चरण सिंह	21-10-91
श्री राजन लाल	21-10-91
श्री जसवत सिंह	21-10-91
श्री राम धन	21-10-91
श्री पी० के० भसिन	21-10-91
श्री कै० शिवशंकर	21-10-91
श्री लक्ष्मी सिंह	07-11-91
श्री दर्शन सिंह	21-10-91

यह नियुक्तियां पूर्णतः काम चलाऊ व्यवस्था के तौर पर की जाती हैं तथा प्रशासनिक कारणों से बिना नियमित पदवारियों के उपलब्ध होने पर रद्द की जा सकती हैं।

सेना शाखा

सं० 50, दिनांक 16-1-92—श्री बिहारी लाल, सिविलियन स्टाफ अधिकारी को 13-12-91 से 31-12-91 तक की अवधि के लिये सशस्त्र सेवा मुख्यालय सेवा नियमावली, 1968 के नियम 10(2) के अन्तर्गत चयन ग्रेड अधिकारी (एस० सी० एस० ओ०) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. यह नियुक्ति विशेष रूप से आवधिक व्यवस्था है और प्रशासनिक कारणों वश या नियमित पदवारियों के उपलब्ध होने पर बिना सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(जी० एस० शाखा/एम० एस०)

सं० 51, दिनांक 16-1-92—निम्नलिखित ए० एफ० एच० क्यू०, सिविल सेवा के सहायकों को, अगला आदेश जारी होने तक, उनके नाम के आगे वर्गीकी तारीख से, स्थानापन आधार पर सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों के पदों पर नियुक्त किया जाता है:—

जी एस० शाखा

श्री भगवान सिंह—13-11-91 (पूर्वाह्न)।

श्री पी० एच० हस्तिर—13-11-91 (पूर्वाह्न)।

एम० एस० शाखा

श्री डी० डी० सिंह—29-11-91 (पूर्वाह्न)

ये दो वर्ष तक पर्यवेक्षण रहेंगे। यह अवधि सैन्य अधिकारियों द्वारा स्वेच्छा से बढ़ाई जा सकती है।

सं० 52, दिनांक 14-1-92—निम्नलिखित नियुक्ति की जाती है:—

अनुसंधान तथा विकास संगठन

श्री शम लाल, आणविक प्रौद्योगिकी "सी" की सशस्त्र सेवा मुख्यालय की आणविक प्रौद्योगिकी नियम 1978 के नियम 12(3) के अन्तर्गत आणविक प्रौद्योगिकी "बी" के रूप में अस्थाई आधार पर दिनांक 31-12-91 से आगे व 30-6-92 तक या चयनपूर्वी से अधिकारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, उस अवधि तक नियुक्ति की जाती है।

एस० लोगानाथन
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

(कार्यालय महा निदेशक सशस्त्र सेवा चिकित्सा सेवा)

सं० 53, दिनांक 8 जनवरी 92—राष्ट्रपति महोदय, डा० जय कुमार शिवशंकर बारापात्रे को 5 दिसम्बर, 91 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के आधार पर, महानिदेशक सशस्त्र सेवा चिकित्सा सेवा के प्रशासनिक नियंत्रण में सी० ओ० डी० देहू रोड, में सहायक सर्जन ग्रेड-1 के पद पर नियुक्त करते हैं। वे दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षणीय रहेंगे।

सं० 54, दिनांक 8 जनवरी 92—राष्ट्रपति महोदय, श्री विरेन्द्र कुमार छाबड़ा को 29 जलाई, 91 (पूर्वाह्न) से आगे आदेश जारी होने तक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के आधार पर, महानिदेशक सशस्त्र सेवा चिकित्सा सेवा के प्रशासनिक नियंत्रण में सशस्त्र सेवा चिकित्सा समान डिपो, लखनऊ में भंडारन अफसर (सिविलियन) के पद पर नियुक्त करते हैं। वे दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षणीय रहेंगे।

के० सी० रातवाल
सिविलियन स्टाफ अधिकारी
डी० डी० जी०/डी० जी०-2बी

सं० 55, दिनांक 23 नवम्बर 91—अनुदेश 14/79 द्वारा यथावशोचित वनसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेवा

अल्पकालीन आयोग

कप्तान के पद पर (परब पर)

शान्ति प्रिय आर०, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०—12008 वाई०) ए० एम० सी०—15-4-87।

नीता छाबड़ा, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०—12304 के०) ए० एम० सी०—26-10-89।

अंवीता गर्ग, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०—12327 एल०) ए० एम० सी०—09-3-90 वेतन और पदोन्नति के लिये

ज्येष्ठता 09.3-88 से दी जाएगी (इस में स्नातकोत्तर योग्यता के लिये 2 वर्ष की ज्येष्ठता शामिल है। जो उपदान के लिये नहीं गिनी जाएगी।

(कुमारी) अनुश्रवा, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०—12347 वाई०) ए० एम० सी०—22-4-91।

एस० नन्व कुमार राव, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०—12349 के) ए० एम० सी०—22-4-91।

मुकुल गर्ग, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०—12351 एफ०) ए० एम० सी०—22-4-91।

कविता मधु, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०—12353 एम०) ए० एम० सी०—22-4-91।

पी० टी० शीतलराज, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०—12354 पी०) ए० एम० सी०—22-4-91।

जैसमीत कौर, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०—12356 ए०) ए० एम० सी०—22-4-91।

नीतिन शर्मा, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०—12357 एच०) ए० एम० सी०—22-4-91।

एस० राधाकृष्णा, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०—12359 एन०) ए० एम० सी०—30-4-91 तथा नोशनल ज्येष्ठता 22-4-91 से दी गई जो कि उपदान के लिये नहीं गिनी जाएगी।

मीना सुब, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०—12365 एफ०) ए० एम० सी०—29-5-91 तथा नोशनल ज्येष्ठता 22-4-91 से दी गई है जो कि उपदान के लिये नहीं गिनी जाएगी।

बीना राय, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०—12366 के०) ए० एम० सी०—22-7-91।

विजय शंकर शाह, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०—12367 एम०) ए० एम० सी०—09-8-91।

अल्पकालीन आयोग

लैफ्टि० के पद पर (परख पर)

सुप्रणासेन गुप्ता, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०—12314 एम० ए० एम० सी०—26-12-89।

नीतुनबेजहैन, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०—12369 एक्स०) ए० एम० सी०—29-5-91।

एस० चक्रवर्ती
मेजर जनरल
उप महानिदेशक

दिसम्बर 1991 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं। वह दो वर्ष के कार्यकाल तक परख अवधि पर रहेगा।

एस० एस० नेगी
अवर सचिव

विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर कोर

सं० 57, दिनांक 22 जनवरी 92—राष्ट्रपति, श्री सुधीर श्याम कान्तगोत्रते, स्थाई फोरमेन को 26 जुलाई 91 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश तक स्थायीपत्र वर्कशॉप आफिसर ग्रुप 'बी' विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी कोर में नियुक्त करते हैं। वे दो वर्ष की परख-अवधि पर रहेंगे।

ले० कर्नल बी० के० प्रभाकरन
संयुक्त निदेशक, ई एम ई (सिव)

सं० 58, दिनांक, 6 जनवरी 92—राष्ट्रपति, निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित को सैनिक अनुदेश 4/ए/67 के नियमों के अन्तर्गत आलोचना मारतीय वैद्य अकादमी में आयोजित प्रशिक्षण तक के लिये 2 वर्ष के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से अल्पकालीन सेवा आयोग परखाधीन अनुदान किया जाता है :-

योधेव सिंह (एस० एस०—34490 एल०) इंजीनियर्स—11 जनवरी 90।

मुकुन सिरोदिया (एस० एस०—34492 डब्ल्यू०) ई० एम० ई०—11 जनवरी 90।

सजय प्रधान (एस० एस०—34493 वाई०) इंजीनियर्स—11 जनवरी 90।

दीन बाली (एस० एस०—34494 सी०) सिगस—11 जनवरी 90।

वेनोत सिंह जुम्बा (एस० एस०—34495 के०) ई० एम० ई०—11 जनवरी 90।

बी० सुभाकर (एस० एस०—34496 एम०) इंजीनियर्स—11 जनवरी 90।

जितेन्द्र पाल सिंह (एस० एस०—34497 पी०) सिगनल्स—11 जनवरी 90।

रिवू सुदन (एस० एस०—34499 ए०) इंजीनियर्स—11 जनवरी 90।

मलिकाअर्जुन (एस० एस०—34502 पी०) इंजीनियर्स—11 जनवरी 90।

बीजू शान्ता राम (एस० एस०—34503 एक्स०) सिगस—11 जनवरी 90।

राजगुरु प्रशान्त शामराओ (एस० एस०—34505 एच०) इंजीनियर्स—11 जनवरी 90।

टेरी थोमस (एस० एस०—34506 एल०) सिगनल्स—11 जनवरी 90।

सं० 56, दिनांक 18 दिसम्बर 91—राष्ट्रपति, श्री हरजीत सिंह गिल को अस्थाई वर्कशॉप अधिकारी ग्रुप 'ए' के पद पर विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी कोर में अगले आदेश तक दिनांक 04

वैलडुरथी वासुदेव राओ (एस० एस०-34507 एन०) ई० एम० ई०—11 जनवरी 90।

विवेक महता (एस० एस०-34508 डब्ल्यू०) इंजीनियर्स—11 जनवरी 90।

सतीश रामानन्द (एस० एस०-34509 बाई०), सिगनल्स—11 जनवरी 90।

डी० कुनहा मुमेर डेवान (एस० एस०-34510 एन०)—ई० एम० ई०—11 जनवरी 90।

साई अरुल (एस० एस०-34512 बाई०) सिगनल्स—12 जनवरी 90।

एस० गोपी कृष्णा (एस० एम०-34513 एफ०) ई० एम० ई०—12 जनवरी 90।

वी० एन० चेतन (एस० एस०-34515 एम०) सिगनल्स—12 फरवरी 90।

डी० सी० कटोच, ले० कर्नल
ए० एम० एस० (आईसी)

(सेना शाखा)

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं० 59, दिनांक 7-1-92—श्री प० अनन्तकृष्णन, एस० सी० एम० ओ०, को दिनांक 23 दिसम्बर 91 से 16-6-92 तक या नियमित पदधारियों के मिलने में जो भी पहले हो, तक के लिए, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 1968 के नियम 10(2) के अन्तर्गत सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के स्थानापन्न निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

(जी० एस० शाखा)

सं० 60, दिनांक 23-12-92—सक्षम अधिकारी निम्नलिखित अधिकारियों को ए० एफ० एच० क्यू०, सिविल सर्विस नियमावली 1968 के नियम 10(2) के अन्तर्गत, उनके नाम के आगे दर्शायी तारीख से 14-4-91 तक या नियमित पदधारी के मिलने तक या स्वयं के सेवा निवृत्त होने तक, जो भी पहले हो, सिविलियन स्टाफ अधिकारी नियुक्त करते हैं :—

श्री सज्जद खान	22-10-90
श्री के० सी० सरोज	15-10-90
श्री के० एस० लालोवारी	15-10-90
श्री मोहन लाल	15-10-90
श्री के० एस० कुमार	16-10-90
श्री सोहन पाल	15-10-90
श्री एस० एम० तफसीर आलम	15-10-90
श्री ए० चन्द्रशेखर	15-10-90

(जी० एस०/एम० एस० शाखा)

सं० 61, दिनांक 26-12-91—सक्षम अधिकारी, निम्नलिखित अधिकारियों को ए० एफ० एच० क्यू०, सिविल सर्विस

नियमावली 1968 के नियम 10(2) के अन्तर्गत उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से 15-10-91 तक या नियमित पदधारी के मिलने तक या स्वयं के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो सिविलियन स्टाफ अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं :—

श्री वी० के० केन	16-4-91	जी० एस० शाखा।
श्रीमति विष्णु मूद	16-4-91	„
श्री वृध सेन	16-4-91	„
श्री दुर्गा प्रसाद	16-4-91	„
श्री बाबू लाल	16-4-91	„
श्री के० एल० हंस	16-4-91	„
श्री ए० के० सैलानी	16-4-91	„
श्री ए० के० सलहोत्रा	22-4-91	„
श्री बाई० पी० सारंगले	22-4-91	„
श्री सज्जद खान	16-4-91	एम० एस० शाखा
श्री के० सी० सरोज	16-4-91	„
श्री के० एस० लालोवारी	16-4-91	„
श्री एस० एम० तफसीर आलम	20-5-91	„
श्री ए० चन्द्रशेखर	16-4-91	„
श्री मोहन लाल	16-4-91	„
श्री के० एस० कुमार	16-4-91	„
श्री सोहन पाल	16-4-91	„
श्री आर० के० गद्दी	16-4-91	„

सं० 62, दिनांक 26-12-91—सक्षम अधिकारी श्री पी० रघुनारायन को ए० एफ० एच० क्यू०, सिविल सर्विस नियमावली 1968 के नियम 10(2) के अन्तर्गत 21-5-91 से 15-10-91 तक या नियमित पदधारी के मिलने तक या स्वयं के सेवा से निवृत्त होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करने हैं।

स० लोगनाथन

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्र०)

नीसेना शाखा

सं० 63, तारीख 6-1-92—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय पत्र सं० ओ० एफ/1917/एन० एच० क्यू०/52-यू० एस/डी० एन-II तारीख 13 जनवरी 87 और ओ० एफ०/1907/एन० एच० क्यू०/888/यू० एस०/डी० (एन-II) तारीख 01 मई 89 के अन्तर्गत इंजीनियरी शाखा (नेवल कंस्ट्रक्शन कौर) में कार्यकारी सब-

लेफ्टिनेंट के पद पर, उनके नामों के सामने दी गई तारीख से निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:—

भारतीय नौसेना

(स्थायी कमीशन)

इंजीनियरी शाखा (नेवल कंस्ट्रक्टर कोर)

नाम	निजी नंबर	कमीशन प्राप्त होने की तारीख
शर्मा राजीव	41362-बी	16-8-88
शर्मा यतीन्द्र नाथ	41370-आई	21-8-88
मोहारिल सुनील	41371 जेड	31-8-88
आनन्दापद्मनाभन	41383-ए	07-8-89
पलाशीरमन		

बी० सतीश कुमार
सिविलियन स्टाफ अफसर
सहायक निदेशक जनशक्ति और भर्ती
(आर एंड आर)

(नौसेना शाखा)

सं० 64, दिनांक 24-1-92—राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके सामने दिए गए दिनांक से करिष्ठ अनुवाद अधिकारी (रूसी/अंग्रेजी) के पद पर नियुक्त करते हैं:—

श्री सुरिन्दर कुमार—07 नवम्बर 91 (पूर्वाह्न) ।

श्री डी० गुप्ता—13 नवम्बर 91 (पूर्वाह्न) ।

श्री पी० के० खलार—07 नवम्बर 91 (पूर्वाह्न) ।

श्री राम प्रसाद—09 दिसम्बर 91 (पूर्वाह्न) ।

सं० 65, दिनांक 28-1-92—राष्ट्रपति श्री ए० के० आनन्द को 10 जून 91 (पूर्वाह्न) से संपादक अनुवादक (रूसी/अंग्रेजी) के पद पर नियुक्त करते हैं ।

नौ सेना मुख्यालय

सं० 66, दिनांक 21-1-92—कार्मिक प्रमुख नौसेना मुख्यालय श्री एस० एस० नेगी, सीनियर प्रोसेस (पी० पी० एम० सी०) 26 जून 1991 (पूर्वाह्न) को प्रोसेस इंजीनियर के पद पर नियुक्त करते हैं ।

2. वह दो वर्ष के लिए परखाधीन रहेगा ।

सं० 67, दिनांक 21-1-92—कार्मिक प्रमुख, नौसेना मुख्यालय श्री आर० एस० रावत, सीनियर फोरमैन (विद्युत) 12 दिसम्बर 91 (पूर्वाह्न) को सिविलियन तकनीकी सहायक (विद्युत) के पद पर नियुक्त करते हैं ।

2. वह दो वर्ष तक परखाधीन रहेगा ।

(नौसेना शाखा)

सं० 68, दिनांक 20 जनवरी, 1992—कार्मिक प्रमुख, नौसेना मुख्यालय निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके सामने दिए गए दिनांक से भारतीय नौसेना में नियुक्त करते हैं ।

(क) श्री पी० राजन, सीनियर फोरमैन को सहायक आयुक्त पूर्ति अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं—30 दिसम्बर, 1991 (पूर्वाह्न) ।

(ख) श्री के० एस० आर० मेनन, सीनियर फोरमैन को सहायक आयुक्त पूर्ति अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं—31 जुलाई, 1991 (पूर्वाह्न) ।

(ग) श्री डी० तातारव, कार्यालय अधीक्षक को सहायक आयुक्त पूर्ति अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं—30 दिसम्बर, 1991 (पूर्वाह्न) ।

2. वे दो साल के लिए परखाधीन रहेंगे ।

रेनू के० राजू
उप निदेशक, सिविलियन कार्मिक

सं० 69, दिनांक 27 दिसम्बर, 1991—राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके सामने दिए गए दिनांक से सम्पादक/अनुवादक (रूसी/अंग्रेजी) के पद पर भारतीय नौसेना में नियुक्त करते हैं:—

श्री कस्तूरी लाल—24 जून, 1991 (पूर्वाह्न) ।

श्री एस० आर० दास—2 जुलाई, 1991 (पूर्वाह्न) ।

श्री वि० एस० आर्या—24 जून, 1991 (पूर्वाह्न) ।

सं० 70, दिनांक 13 जनवरी, 1991—कार्मिक अध्यक्ष नौसेना मुख्यालय श्री वी० ओदलपायी, सीनियर फोरमैन (विद्युत) को स्थानापन्न सिविलियन टेक्नीकल सहायक (विद्युत) के पद पर दिनांक 30 जनवरी, 1991 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं ।

2. वे दो वर्ष के लिए परखाधीन रहेंगे ।

सी० आर० मालावालीया,
उप-निदेशक, सिविलियन कार्मिक

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं० 71, दिनांक 31 दिसम्बर, 1991—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

रक्षा विज्ञान सूचना एवं प्रमुख केन्द्र, मेटकाफ हाउस, दिल्ली के श्री के० के० मिश्रा, वैज्ञानिक "सी" को 1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थानापन्न वैज्ञानिक "डी" के रूप में ।

रक्षा विज्ञान सूचना एवं प्रमुख केन्द्र, मेटकाफ हाउस, दिल्ली की श्रीमति अनुराधा रवि, वैज्ञानिक "सी" को 1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थानापन्न वैज्ञानिक "डी" के रूप में ।

रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद के निम्नलिखित (बी) वैज्ञानिकों को उनके नाम के आगे दी

नई तारीख से इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न वैज्ञानिक (सी) के रूप में :—

- श्री जी० विजय प्रसाद—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्री एम० शिवनन्द शर्मा—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्री वाई० रवि कुमार—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्री एन० सीतारमैया—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्री एम० प्रह्लाद राव—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्री जी० दुर्गा प्रसाद—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्री बी० अशोक कुमार—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्री बी० ए० जोसेफ—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्री एस० डी० मल्लेश्वर राव—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 कु० जे० मंजुला—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्री टी० सुनील कुमार—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्रीमती जयश्री जोसेफ—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्री बी० रामशंकरम्—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्री एम० बालाचारी—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्रीमती रेखा रानी सिन्हा—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्री सी० पी० मोला—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्री बी० एस० श्रीनिवास—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्री एम० बी० नरसिम्हा राव—5 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्री आर० भारत—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्री एन० सुधाकर—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्री पी० श्रीनिवास राव—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।

अन्तरिम टेस्ट रेंज, चांदी पुर के निम्नलिखित “बी” वैज्ञानिकों को 1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) से इसी कार्यालय में स्थानापन्न वैज्ञानिक “सी” के रूप में ।

श्री जी० आर० पांडा ।

श्री संजय राज ।

रक्षा वैज्ञानिक सूचना एवं प्रलेख केन्द्र, मेटकाफ हाउस, दिल्ली के निम्नलिखित “बी” वैज्ञानिकों को उनके नामों के आगे दी गई तिथियों से इसी स्थापना में स्थानापन्न वैज्ञानिक “सी” के रूप में :—

- श्री जे० पी० सिंह—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्री भगवान सिंह—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्री डी० एस० बेदी—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्रीमती सोनिया खान—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।
 श्री पी० एम० अजीत—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।

श्री ए० के० स्यागी—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।

श्री एम० सी० बन्धोपाध्याय—1 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।

श्री राजीव विज—5 जुलाई, 1990 (पूर्वाह्न) ।

नरसिंह दास, सहायक निदेशक (कार्मिक)

(थल सेना विभाग)

सं० 72, दिनांक 8 जनवरी, 1992—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क अवतार सिंह (जे० सी०—102531 एल)—1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क परबिन निरखत बालावृष्ण कुरूप (जे० सी०—137466 पी)—1 नवम्बर, 1991 ।

जी० डी० नांगल, अवर सचिव

सं० 73, दिनांक 8 जनवरी 1992—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

सेना सेवा कोर (पूति)

पक्के सूबेदार लिपिक (भण्डार) के रैंक में

प/ए सूबेदार अमरनाथ (जे० सी०—171325 एम)—1 अप्रैल, 1991 ।

प/ए सूबेदार चारियन ए० (जे० सी०—189808 एम)—1 मई, 1991 ।

प/ए सूबेदार हनुमान सिंह कटेबा (जे० सी०—189819 वाई)—1 मई, 1991 ।

प/ए सूबेदार उमशंकर उपाध्याय (जे० सी०—188840 एफ)—1 जून, 1991 ।

प/ए सूबेदार रामजी राय (जे० सी०—189841 के)—1 जून, 1991 ।

प/ए सूबेदार रामजनक प्रसाद (जे० सी०—189842 एम)—1 जून, 1991 ।

प/ए सूबेदार ब्रजराज सिंह (जे० सी०—189843 पी)—1 जून, 1991 ।

प/ए सूबेदार कौशल किशोर (जे० सी०—189844 एफ)—1 जून, 1991 ।

पी० ए० सूबेदार सुमेर सिंह (जे० सी०-189845 ए०)---
1 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार अंगद सिंह (जे० सी०-189846 एच०)
--1 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार अहलाय टिंकी (जे० सी०-189847
एल०)---1 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार प्रकाश सिंह (जे० सी०-189848 एन०)
--1 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार हरपाल सिंह अहलुवालिया (जे० सी०-
189849 डब्ल्यू०)---1 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार तीरथ सिंह सन्धू (जे० सी०-189851
एन०)---1 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार जय माकिल एम० ए० (जे० सी०-
189852 डब्ल्यू०)---1 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार प्रफुल्ला कुमार पन्डा (जे० सी०-189853
वाई०)---1 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार जार्ज पी० ए० (जे० सी०-189854 एफ०)
--1 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार बक्सीस सिंह (जे० सी०-189855 के०)
--1 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार मादबन बट्टाकुनिल राघवन पामिकर
(जे० सी०-189856 एम०)---1 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार भागसिंह (जे० सी०-189857 पी०)---
1 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार सुगद सिंह बलानिया (जे० सी०-189858
एक्स०)---1 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार पी० पी० अब्राहम (जे० सी०-189859
ए०)---1 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार रमेश प्रभाष शर्मा (जे० सी०-189860
पी०)---1 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार बाबू सिंह तिसौदिया (जे० सी०-189862
ए०)---1 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार अश्वतार सिंह (जे० सी०-189863 एच०)
--1 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार ठाकुर साहू (जे० सी०-189864 एल०)
--1 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद यादव (जे० सी०-
189866 डब्ल्यू०)---01 जून 1991।

पी० ए० सूबेदार मेथ्यू थोमस (जे० सी०-189867
वाई०)---01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार वी० ए० जोसेफ (जे० सी०-189868
एफ०)---01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार सैयद हुसैन (जे० सी०-189869 के०)
01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार सबरन सिंह (जे० सी०-189870
वाई०)---01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार पीलोस के० के० (जे० सी०-189871
एफ०)---01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे० सी०-189872
के०)---01 जून 1991।

पी० ए० सूबेदार शिव शंकरन नायर के० एन० (जे०
सी०-189873 एम०)---01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार शूरिवरपू वेंकटा जयारामा शास्त्री (जे०
सी०-189874 पी०)---01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार अमरीक सिंह (जे० सी०-189875
एक्स०)---01 जून 1991।

पी० ए० सूबेदार जसपाल सिंह (जे० सी०-189876
ए०)---01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार फटिक चन्द्र सैकिया (जे० सी०-
189878 एल०)---01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार पुम्मू लोहितश्यादू (जे० सी०-189879 एच०
01 जून 1991।

पी० ए० सूबेदार जगताराम चौधरी (जे० सी०-189880
एच०)---01 जून 1991।

पी० ए० सूबेदार बनबारी लाल बर्मा (जे० सी०-189881
एल०)---01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार पीतलाबाला ओविहा (जे० सी०-
189882 एच०)---01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार करम चन्द (जे० सी०-189883
डब्ल्यू०)---01 जून 1991।

पी० ए० सूबेदार सूरज कुमार घोष (जे० सी०-189884
वाई०)---01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार धरम चन्द (जे० सी०-189885 एफ०)---
01 जून 1991।

पी० ए० सूबेदार सुखराम (जे० सी०-189886 के०)---
01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार अतगा मोहन दास (जे० सी०-189887
एम०)---01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार बलराम सिंह यादव (जे० सी०-
189888 पी०)---01 जून 1991।

पी० ए० सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जे० सी०-189889
एक्स०)---01 जून 1991।

पी० ए० सूबेदार जोहन ए० जे० (जे० सी०-189890 एम०)—01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार बचान सिंह भाटी (जे० सी०-189891 पी०)—01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार दिवाकरन के० पी० (जे० सी०-189892 एक्स०)—01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार चन्द्र राम बिजरनी (जे० सी०-189893 ए०)—01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार नसीम अहमद अन्सारी (जे० सी०-189894 एच०)—01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार पेम् कृष्णन मूर्ति (जे० सी०-189895 एल०)—01 जून 1991।

पी० ए० सूबेदार हनुमान थापा (जे० सी०-189904 एफ०)—01 जून 1991।

पी० ए० सूबेदार चंचल सिंह (जे० सी०-189897 डब्ल्यू०)—01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार देशरज (जे० सी०-189906 एम०)—01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार ज्ञान चन्द (जे० सी०-189910 पी०)—01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार गोम्ब नाथ सिंह (जे० सी०-189911 एक्स०)—01 जून 1991।

पी० ए० सूबेदार राम कनवर (जे० सी०-189912 ए०)—01 जून 1991।

पी० ए० सूबेदार पैला दीनाबन्धू नाथडू (जे० सी०-189913 एच०)—01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार चोकान्तायल थोमस एन्टोनी (जे० सी०-189914 एल०)—01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार परमानन्द मिश्रा (जे० सी०-189915 एन०)—01 जून 1991।

पी० ए० सूबेदार श्रवण सिंह (जे० सी०-189916 डब्ल्यू०)—01 जून 1991।

पी० ए० सूबेदार बी० के० गोपाला कृष्णन पिल्लै (जे० सी०-189918 एफ०)—01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार जोहन बी० ए० (जे० सी०-189919 के०)—01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार प्रेमसिंह रोतेला (जे० सी०-189920 वार्ड०)—01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार धीरेश चन्द्र दास (जे० सी०-189926 ए०)—01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार सुरिन्दर पाल सिंह (जे० सी०-189929 एन०)—01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार मामीसिंह (जे० सी०-189930 एच०) 01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार गुरदेव सिंह हरी (जे० सी०-189931 एल०)—01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार हनुमप्पा (जे० सी०-189932 एन०)—01 जून, 1991।

पी० ए० सूबेदार उदयरज पाण्डेय (जे० सी०-189933 डब्ल्यू०)—01 जून, 1991।

पक्के सूबेदार मेजर लिपिक (भण्डार) के रैंक में

पी० ए० सूबेदार मेजर सी० बी० पुथलथ (जे० सी०-75791 के०)—01 अप्रैल, 1991।

पक्के सूबेदार लिपिक (भण्डार) के रैंक में

पी० ए० सूबेदार जगत पाल सिंह (जे० सी०-171320 एन०)—01 अप्रैल, 1991।

पी० ए० सूबेदार लखवीर सिंह रन्धावा (जे० सी०-175930 एक्स०)—01 अप्रैल, 1991।

पी० ए० सूबेदार नन्दकिशोर प्रसाद (जे० सी०-178168 एन०)—01 अप्रैल 1991।

पी० ए० सूबेदार चक्रिकासिंह यादव (जे० सी०-175944 एक्स०)—01 अप्रैल, 1991।

पी० ए० सूबेदार मधू राम (जे० सी०-182731 एम०)—01 अप्रैल, 1991।

पी० ए० सूबेदार राम सिंह (जे० सी०-182732 पी०)—01 अप्रैल, 1991।

पी० ए० सूबेदार बलवीर सिंह (जे० सी०-182738 डब्ल्यू०)—01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार रामतीर्थ गजा (जे० सी०-182739 वार्ड०)—01 मई 1991।

पी० ए० सूबेदार खेम चन्द्र (जे० सी०-182740 एन०)—01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार के० मुकुमारन (जे० सी०-182741 डब्ल्यू०)—01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार रवीन्द्रन पिल्लै बी० (जे० सी०-182742 वार्ड०)—01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार अब्राहम कुरियाकोण (जे० सी०-182743 एफ०)—01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार लालबहादुर ग्रुंग (जे० सी०-182744 के०)—01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार विशम्भर दास (जे० सी०-182746 पी०)—01 मई, 1991।

- पी० ए० सूबेदार राम अवतार तिवारी (जे० सी०-182747 एक्स०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार मोती राम (जे० सी०-182748 ए०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार करुप्पन करुप्पा स्वामी (जे० सी०-182749 एच०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार दीपचन्द तूर (जे० सी०-189801 एच०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार होती लाल (जे० सी०-189802 एल०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार चांद राम (जे० सी०-182750 एक्स०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार जुगल किशोर मान (जे० सी०-182751 ए०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार वेणुगोपाल नायर (जे० सी०-182752 एच०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार लालजी यादव (जे० सी०-182753 एल०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार महावीर प्रसाद भारद्वाज (जे० सी०-182754 एन०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार अवतार सिंह (जे० सी०-182755 डब्ल्यू०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार गंगाधरन सी० जी० (जे० सी०-182756 वाई०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार णिव रतन सिंह (जे० सी०-182757 एफ०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार महेन्द्र कुमार रावत (जे० सी०-182758 के०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० तरसेम राज (जे० सी०-182759 एम०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार सुखदेव सिंह (जे० सी०-182760 एफ०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार केशवा मूर्ति नरसिम्हा (जे० सी०-189803 एन०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार पुष्कर सिंह रावत (जे० सी०-182762 एम०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार शुभाष चन्द (जे० सी०-182763 पी०)—01 मई 1991।
- पी० ए० सूबेदार गुब्बलूजानकी राम (जे० सी०-182764 एक्स०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार कृष्ण कुमार (जे० सी०-182765 ए०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार विश्वनाथ नायक (जे० सी०-182767 एल०)—01 मई 1991।
- पी० ए० सूबेदार रामनारायन शुक्ला (जे० सी०-182768 एन०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार नानक सिंह (जे० सी०-189804 डब्ल्यू०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार सुन्दरा सम्बा सिबम (जे० सी०-182769 पी०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार किशन चन्द्र केंम (जे० सी०-189805 वाई०) 01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार सुन्ती टी०जी० (जे० सी०-189806 एफ०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार श्याम नारायण सिंह कुसवाहा (जे० सी०-189807 के०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार गन्दर्भ सिंह राना (जे० सी०-182771 एन०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार दिलाराम (जे० सी०-189809 पी०)—01 मई 1991।
- पी० ए० सूबेदार बुधी सिंह (जे० सी०-189610 के०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार हरमजन सिंह (जे० सी०-182772 डब्ल्यू०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार ब्रिजनाथ (जे० सी०-189811 एम०)—01 मई 1991।
- पी० ए० सूबेदार सबरन सिंह (जे० सी०-182773 वाई०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार राम बिलास (जे० सी०-189812 पी०)—01 मई 1991।
- पी० ए० सूबेदार राम सकल (जे० सी०-189813 एक्स०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार मलकियत सिंह जसवाल (जे० सी०-182790 वाई०)—01 मई 1991।
- पी० ए० सूबेदार नगरू सिंह सोढ़ी (जे० सी०-182774 एफ०)—01 मई, 1991।
- पी० ए० सूबेदार भूपाल सिंह गोरखा (जे० सी०-182775 के०)—01 मई 1991।
- पी० ए० सूबेदार दरियाब सिंह (जे० सी०-182776 एम०)—01 मई 1991।
- पी० सूबेदार राम कुमार डडवाल (जे० सी०-189814 ए०)—01 मई 1991।
- पी० ए० सूबेदार उदयराम पाण्डेय (जे० सी०-189815 एच०)—01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार राम कृष्ण द्विवेदी (जे० सी०-182777 पी०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार थोफिल टोपो (जे० सी०-182778 एक्स०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार सतीश कुमार (जे० सी०-182779 ए०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार वालसलन ए० सी० (जे० सी०-189816 एल०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार नर नारायण सरकार (जे० सी०-182781 एक्स०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार मायाधर महन्तो (जे० सी०-182782 ए०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार करू शंकरा पाल (जे० सी०-182783 एच०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार रड्डू राम राना (जे० सी०-182784 एल०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार मधन्तराव यादव (जे० सी०-182785 न०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार पुरुषोत्तमन नायर जी (जे० सी०-182786 डब्ल्यू०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार यशोधरन एस० (जे० सी०-182787 वाई०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार दमारी बेंकटाराव (जे० सी०-189817 एन०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार सैनी भारी चामी (जे० सी०-189818 डब्ल्यू०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार रणबीर सिंह (जे० सी०-182789 के) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार भूषण लाल (जे० सी०-189821 डब्ल्यू०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार भगप्पा कोलकर (जे० सी०-189823 एफ०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार बिनोय रंजन पोल (जे० सी०-189824 के) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार कन्है लाल पोल (जे० सी०-189899 एफ०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार रमस राय प्रसाद भगत (जे० सी०-189825 एम०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार जयनारायण सिंह (जे० सी०-189900 एल०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार राज करन सिंह (जे० सी०-195240 पी०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार उदयबीर सिंह कुसवाहा (जे० सी०-189826 पी०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार धरम नाथ प्रसाद (जे० सी०-189827 एक्स०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार प्रेम चन्द कौशल (जे० सी०-189828 ए०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार जीवन सिंह (जे० सी०-189830 एक्स०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार रमेश चन्दर (जे० सी०-189831 ए०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार मेधोराम (जे० सी०-189832 एच०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार रघुपाल सिंह (जे० सी०-189833 एल०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार मरूप चलयथी राव (जे० सी०-189835 डब्ल्यू०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार चतला अप्पला रेड्डी (जे० सी०-189836 वाई०) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार पद्मनाभा साहू (जे० सी०-189838 के) — 01 मई, 1991।

पी० ए० सूबेदार पी० के० देवनिया (जे० सी०-189839 एम०) — 01 मई, 1991।

प्रकाश चन्द,
अवर सचिव

सं० 74, दिनांक 10 जनवरी, 1992—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नतियाँ करते हैं—

नियमित सेना

सेना आयुद्ध कोर

नायब सूबेदार लिपिक ए० श्री० सी० के रैंक में

हवलदार लिपिक भण्डार प्रोविजन मरीयानूस बा (सं० 6902792 एल० अब जे० सी०-212332 ए०) — 12 मार्च, 1991।*

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1991 से दी जायेगी।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण एन० सी० फलीपोज (सं० 6902802 के० अब जे० सी०-212333 एच०) — 11 अप्रैल, 1991।*

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण गुरमीत सिंह (सं० 6902903 एक्स० अब जे० सी०-212334 एल०) — 01 फरवरी, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार प्रविजन नेम सिंह (सं० 6903231 एच० अब जे० सी०-212335 एन०)-01 फरवरी, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण धेव पाल कटार (सं० 6902990 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212336 डब्ल्यू०) 21 फरवरी 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण काशी नाथ द्वे (सं० 6903479 एम० अब जे० सी०-212337 वाई०)-01 फरवरी, 1991।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य राजेश्वर दयाल श्रीवास्तव (सं० 4052477 एच० अब जे० सी०-212338 एफ०)-01 मार्च, 1991।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य शशिधरन नायर बी० (सं० 6904269 वाई० अब जे० सी०-212339 के०)-01 मार्च, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण राम गोपाल जाट (सं० 6902700 एन० अब जे० सी०-212340 वाई०) 14 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य रोशन लाल शर्मा (सं० 6904336 वाई० अब जे० सी०-212341 एफ०) 01 मार्च, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण राम कंवर यादव (सं० 6904668 एच० अब जे० सी०-212342 के०)-01 मार्च, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण असीत कुमार घोष (सं० 6904535 एम० अब जे० सी०-212343 एम०)-10 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण गोपाल दत्त सनवाल (सं० 6905236 ए० अब जे० सी०-212344 पी०)-14 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण दामू के० बी० (सं० 6905246 के० अब जे० सी०-212345 एक्स०)-11 अप्रैल 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार प्रविजन चन्द्र प्रकाश (सं० 6905523 के० अब जे० सी०-212346 ए०)-01 अप्रैल 1991।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य राधे श्याम शर्मा (सं० 6905530 ए० अब जे० सी०-212347 एच०)-12 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य गौरांग चन्दा (सं० 6905555 एम० अब जे० सी०-212348 एल०)-01 अप्रैल, 1991।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य इसमायल टी० एम० (सं० 6905589 ए० अब जे० सी०-212349 एन०)-01 अप्रैल, 1991।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य राम नमेश प्रसाद (सं० 6905601 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212350 एच०) 24 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1991 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन के रैंक में

हवलदार अम्युनिशन तकनीशियन चरण दास (सं० 6904941 एम० अब जे० सी०-212351 एल०)-12 मार्च 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार अम्युनिशन तकनीशियन मृणाल कान्ती चक्रवर्ती (सं० 6905132 वाई० अब जे० सी०-212352 एन०)-01 मार्च 1991।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर तकनीशियन के रैंक में

हवलदार एम० के० टी० अम्युनिशन त्रिलोक चन्द (सं० 6902287 एच० अब जे० सी०-212353 डब्ल्यू०) 27 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० अम्युनिशन मताई चाको (सं० 6902802 एन० अब जे० सी०-212354 वाई०)-22 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० अम्युनिशन जी० रमनुजुलू (सं० 6902310 एल० अब जे० सी०-212355 एफ०)-01 जनवरी 1991।

हवलदार एस० के० टी० उदय प्रताप सिंह (सं० 6902671 अब जे० सी०-212356 के०)—08 मार्च, 1991।*

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 दी जायेगी।

हवलदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० पूर्ण चन्द्र रावा (सं० 6902714 एन० अब जे० सी०-212357 एम०)—21 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एन० के टी० बेपन करीमपत्ता गदाम बेनुगोपालन (सं० 6902894 एफ० अब जे० सी०-212358 पी०)—01 फरवरी, 1991।

हवलदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० विजय कुमार (सं० 6902970 एच० अब जे० सी०-212359 एक्स०)—30 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० डोगर राज (सं० 6903058 के० अब जे० सी०-212360 एम०)—01 फरवरी, 1991।

हवलदार एम० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० शिव शंकर सिंह (सं० 6803209 एक्स० अब जे० सी०-212361 पी०)—01 फरवरी, 1991।*

हवलदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० सुशील कुमार झा (सं० 6903645 पी० अब जे० सी०-212362 एक्स०)—14 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एम० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० सन्धू नाथ पाल (सं० 6903649 एल० अब जे० सी०-212363 ए०)—02 अप्रैल, 1991।*

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० जलदीप कुमार (सं० 6903617 एच० अब जे० सी०-212364 एच०)—01 मार्च, 1991।*

हवलदार एस० के० टी० जी० सं० एण्ड सी० शंकर सिंह नसीर (सं० 6904088 एन० अब जे० सी०-212365 एल०)—27 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 91 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० अभ्युनिशन सुरिन्दर कुमार (सं० 6904358 एक्स० अब जे० सी०-212366 एन०)—27 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० अवधेश प्रसद सिंह (सं० 6904441 पी० अब जे० सी०-212367 डब्ल्यू०)—29 मार्च, 1991।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 91 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० एन० टी० लक्ष्मण वीर यावव (सं० 6904773 वाई० अब जे० सी०-212368 वाई०)—28 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 1991 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य के रैंक में
हवलदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य मोहम्मद रफीक (सं० 6899901 वाई० अब जे० सी०-212369 एफ०)—02 फरवरी, 1991।

सेना आयुद्ध कोर

नायब सूबेदार लिपिक ए० ओ० जी० के रैंक में
हवलदार लिपिक भण्डार प्रोविजन पागादला फ्रांसिस शोरी (सं० 6902228 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212315 ए०)—18 फरवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण ब्रुज नाथ राय (सं० 6901697 एफ० अब जे० सी०-212316 एच०)—01 जनवरी, 1991।*

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण बिन्दा राय (सं० 6902257 एल० अब जे० सी०-212317 एल०)—20 फरवरी, 1991।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण खेरुपुतेन वीडु रामा चन्द्रन (सं० 6902247 एफ० अब जे० सी०-212318 एन०)—18 फरवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 91 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण राज पाल सिंह (सं० 6902283 एम० अब जे० सी०-212319 डब्ल्यू०)—01 जनवरी, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण सुरिन्दर सिंह कुमार सिंह दौद (सं० 6902404 एच० अब जे० सी०-212320 एल०)—09 फरवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण हरनेश सिंह (सं० 6902427 के० अब जे० सी०-212321 एन०)—01 जनवरी, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार प्रविजन गुरूसामी शंकर लिगम (सं० 6902874 एम० अब जे० सी०-212322 डब्ल्यू०)—01 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार प्रविजन काली प्रसाद (सं० 6903230 ए० अब जे० सी०-212323 एक्स०)—01 फरवरी 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण भोज राज सिंह (सं० 6903232 एल० अब जे० सी०-212325 एफ०)—07 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण अक्षय कुमार साहा (सं० 6903156 के० अब जे० सी०-212325 के०)—01 फरवरी, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार प्रविजन गोविन्दा (सं० 6902867 एक्स० अब जे० सी०-212326 एम०)—08 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण सहदेव सिंह रांधी (सं० 6903582 एक्स० अब जे० सी०-212327 पी०)—19 फरवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य होंसिला प्रसाद मिश्रा (सं० 4052579 वाई० अब जे० सी०-212328 एक्स०)—01 मार्च, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण रवीन्द्रन नायर टी० के० (सं० 6904151 एच० अब जे० सी०-212329 ए०)—01 मार्च, 1991।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य अनिल चन्द्र साहा (सं० 6904518 एम० अब जे० सी०-212330 पी०)—18 मार्च 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 91 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण गोपाल पिल्लै अरविन्दाक्षन पिल्लै (सं० 6904461 एच० अब जे० सी०-212331 एक्स०)—18 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1991 से दी जायेगी)।

सेना आयुद्ध कोर

नायब सूबेदार स्टोर कीपर तकनीशियन के रैंक में

हवलदार एस० के० टी० इंजीनियर करिन्गातिल माधवन बालाचन्द्रन पिल्लै (सं० 6902438 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212387 के०)—16 फरवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० एन० टी० चेरुवेल्लील कुन्नु नारायण पिल्लै बालन (सं० 6902308 एन० अब जे० सी०-212388 एम०)—20 फरवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एन० के० टी० एन० टी० गनेश लाल परीक (सं० 6902527 पी० अब जे० सी०-212389 पी०)—24 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० गजानन्द वर्मा (सं० 6902543 एम० अब जे० सी०-212390 के०)—01 जनवरी, 1991।

हवलदार एस० के० टी० सिगनल कृष्णा अवतार मिश्रा (सं० 6900781 ए० अब जे० सी०-212391 एम०)—23 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 91 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० हरीश चन्द्र जोशी (सं० 6902242 एच० अब जे० सी०-212392 पी०)—01 जनवरी, 1991।

हवलदार एस० के० टी० वैपन मल्लवान गिर (सं० 6902476 एन० अब जे० सी०-212343 एक्स०)—01 जनवरी, 1991।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० मोहम्मद नमस्ल होबा (सं० 6900983 एफ० अब जे० सी०-212394 एक्स०)—फरवरी 1991।*

हवलदार एम० के० टी० एम० टी० कृष्णा बिहारी लाल (सं० 6902825 एल० अब जे० सी०-212395 ए०)—16 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० जी० एम० एण्ड सी० सतबीर सिंह
(सं० 6903068 एन० अब जे० सी०—212396 एन०)—
01 फरवरी, 1991।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० कुंवर ध्यान सिंह
(सं० 6903207 एम० अब जे० सी०—212397 एन०)—
29 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० श्याम लाल भट्ट
(सं० 6903641 एस० अब जे० सी०—212398 डब्ल्यू०)—
01 फरवरी, 1991।

हवलदार एम० के० टी० एम० टी० वर्धन के० (सं०
6904050 के० अब जे० सी०—212399 वाई०)—01
फरवरी, 1991।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० राजेन्द्रन के०
(सं० 6904291 के० अब जे० सी०—212400 एच०)—
15 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एम० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० थकचन
जे० (सं० 6904093 वाई० अब जे० सी०—212401 एन०)—
09 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० चितरंजन प्रसाद
सिंह (सं० 6903671 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212402
एन०)—09 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एम० के० टी० अम्युनिशन दत्त प्रसाद (सं०
6904557 एन० अब जे० सी०—212403 डब्ल्यू०)—
17 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एम० के० टी० जी० एम० एण्ड बी० शिवानन्दा
हालीकेरी (सं० 6904623 एन० अब जे० सी०—212404
वाई०)—30 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1991 से दी जायेगी)।

सेना आयुद्ध कौर

नायब सूबेदार लिपिक ए० ओ० सी० के रैंक में
हवलदार लिपिक सामान्य कर्त्तव्य प्रेम नारायण त्रिपाठी
(सं० 6903060 एफ० अब जे० सी०—212370 डब्ल्यू०)—
06 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण दया नन्द आर्या (सं०
6903165 एन० अब जे० सी०—212371 वाई०)—
01 फरवरी, 1991।

हवलदार लिपिक आनन्द कर्त्तव्य रणबीर सिंह चौहान
(सं० 6904013 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212372 एफ०)—
01 फरवरी, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण विजयन बी० (सं०
6904083 पी० अब जे० सी०—212373 के०)—
01 मार्च, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण उत्तम काले (सं०
6904686 के० अब जे० सी०—212374 एम०)—
26 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण उमा शंकर सिंह
(सं० 6905306 एन० अब जे० सी०—212375 पी०)—
25 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण तरसेम सिंह (सं०
6905412 एम० अब जे० सी०—212376 एस०)—
29 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण भूपिन्दर सिंह नेगी
(सं० 6902235 एन० अब जे० सी०—212377 ए०)—
22 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण जगदीश प्रकाश कांजला
(सं० 6905450 एच० अब जे० सी०—212378 एच०)—
21 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्त्तव्य सिमन चाली प्रधान
(सं० 6905466 एन० अब जे० सी०—212379 एन०)—
26 अप्रैल, 1991।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण मोहनन के० सी० (सं० 6905481 एच० अब जे० सी०-212380 ए०)--- 27 अप्रैल, 1991।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार प्रोबिजन दर्शन सिंह (सं० 5905464 एच० अब जे० सी०-212381 एच०)--- 24 अप्रैल, 1991।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्त्तव्य सुभाष चन्वर शर्मा (सं० 6905490 के० अब जे० सी०-212382 एल०)--- 01 अप्रैल, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार प्रोबिजन कृपाल सिंह (सं० 6905507 एम० अब जे० सी०-212393 एन०)--- 01 अप्रैल, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार प्रोबिजन निर्मल सिंह (सं० 6905520 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212384 डब्ल्यू०)--- 26 अप्रैल, 1991।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण माली दत्ताले महादेव (सं० 6905621 के० अब जे० सी०-212385 वाई०)--- 28 अप्रैल, 1991।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1991 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर तकनीशियन के रैंक में।

हवलदार एस० के० टी० अम्युनिशन बालन बी० (सं० 6902978 पी० अब जे० सी०-212386 एफ०)--- 01 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन के रैंक में।

हवलदार अम्युनिशन तकनीशियन गोपालन के० (सं० 6904138 एन० अब जे० सी०-212420 डब्ल्यू०)--- 01 जनवरी, 1991।

हवलदार अम्युनिशन तकनीशियन राम भगत (सं० 6902929 एम० अब जे० सी०-212421 वाई०)--- 22 अप्रैल, 1991।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1991 से दी जायेगी)।

3-464 GI/91

हवलदार अम्युनिशन तकनीशियन कृष्णा कुट्टी के० (सं० 6904694 के० अब जे० सी०-212422 एफ०)--- 27 अप्रैल, 1991।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार अम्युनिशन तकनीशियन कृष्णया सांगी (सं० 6904803 एल० अब जे० सी०-212423 के०)--- 05 मार्च, 1991।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार अम्युनिशन तकनीशियन प्रवात कुमार बालाबन्त रे (सं० 6903098 एल० अब जे० सी०-214224 एम०)--- 20 अप्रैल, 1991।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1991 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार लिपिक ए० ओ० सी० के रैंक में

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण नाका सत्य नारायणा (सं० 6902475 के० अब जे० सी०-212425 पी०)--- 11 मार्च, 1991।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार प्रोबिजन कृष्णा नाथ (सं० 6902750 वाई० अब जे० सी०-212426 एक्स०)--- 18 मार्च, 1991।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण राम सकल पाण्डेय (सं० 6902895 के० अब जे० सी०-212427 ए०)--- 23 मार्च, 1991।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण भानु प्रताप तिवारी (सं० 6903135 एन० अब जे० सी०-212428 एच०)--- 13 मार्च, 1991।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण बुधुबा जगबेब केरकेटा (सं० 6903895 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212429 एल०)--- 01 मार्च, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार प्रोबिजन माटेसेरिल चौका (सं० 6904008 एल० अब जे० सी०-212430 ए०)--- 01 मार्च, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण रबीन्द्रन नायर (सं० 6905245 एफ० अब जे० सी०-212431 एच०)---01 अप्रैल, 1991।*

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण अपूर्ब चौधरी (सं० 6905373 वाई० अब जे० सी०-212432 एल०)---26 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1991 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर तकमीशियन के रैंक में

हवलदार एस० के० टी० अम्युनिशन प्रदीप कुमार दास (सं० 6903270 एफ० अब जे० सी०-212433 एन०)---22 फरवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार स्टोर हेण्ड सामान्य कर्तव्य के रैंक में

हवलदार स्टोर हेण्ड सामान्य कर्तव्य गुरमीत सिंह (सं० 6900110 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212434 डब्ल्यू०) 15 फरवरी, 1991।

हवलदार स्टोर हेण्ड सामान्य कर्तव्य एस० के० भट्टाचार्य (सं० 6900795 ए० अब जे० सी०-212435 वाई०)---04 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार स्टोर हेण्ड सामान्य कर्तव्य दीनानाथ सिंह कुशवाहा (सं० 6902339 एन० अब जे० सी०-212436 एफ०)---01 अप्रैल, 1991।

सेना आयुद्ध कोर

नायब सूबेदार लिपिक ए० ओ० सी० के रैंक में

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य राम सुभाग सिंह (सं० 6901954 वाई० अब जे० सी०-212405 एफ०)---25 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण पुलैया बोइवा (सं० 6902725 ए० अब जे० सी०-212406 के०)---01 जनवरी, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण सन्त कुमार सिंह (सं० 6902745 एन० अब जे० सी०-212407 एम०)---18 फरवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार प्रोबिजन राम निवास धादब (सं० 6903039 वाई० अब जे० सी०-212408 पी०)---05 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार प्रोबिजन वनन्दा ब्रिदप्पा गणेश (सं० 6902980 एम० अब जे० सी०-212409 एक्स०)---01 फरवरी, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण कोशी कून्जु एम० (सं० 6904091 एन० अब जे० सी०-212410 एम०)---01 फरवरी, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार प्रोबिजन मोहना नाथ कुन्जु कृष्णापिल्लै (सं० 6902819 एल० अब जे० सी०-212411 पी०)---27 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य शैलेन्द्र कुमार चौधरी (सं० 6904011 एल० अब जे० सी०-212412 एक्स०)---24 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य कोलन थारा कुट्टी श्रीनिवासन (सं० 6904253 एन० अब जे० सी०-212413 ए०)---01 मार्च, 1991।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य जाधव महादेव लक्ष्मण (सं० 6904255 वाई० अब जे० सी०-212414 एच०)---23 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार के नियंत्रण गोविन्दा कृष्णन पी० पी० (सं० 6904677 के० अब जे० सी०-212415 एल०) 01 मार्च, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण रामाज्ञा चौधरी (सं० 6905215 के० अब जे० सी०-212416 एन०)---01 मई, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण सतीश चन्द्र चौधरी (सं० 6905291 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212417 डब्ल्यू०) 30 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य मनोहर सिंह (सं० 6905487 के० अब जे० सी०-212418 वाई०)---01 अप्रैल, 1991।*

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य बलबन्त सिंह बाजू
(सं० 6905566 वाई० अब जे० सी०-212419 एफ०)
26 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण उमा शंकर शुक्ला
(सं० 6902212 एल० अब जे० सी०-212282 ए०)---
19 फरवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण बाबू आर (सं०-
6902234 के अब जे० सी०-212283 ए०)---02
जनवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण रामशेर सिंह अहलूवालिया
(सं० 6902799 पी० अब जे० सी०-212284 एल०)---
01 फरवरी, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण हरि नारायण राय
(सं० 6903044 के अब जे० सी०-212285 एन०)---
01 फरवरी, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण राम उपाध्या सिंह
(सं० 6902906 एल० अब जे० सी० 212286 डब्ल्यू०)---
01 फरवरी, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण किशन सिंह (सं०
6902962 के० अब जे० सी०-212287 वाई०)---09
फरवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार प्रविजन कमल किशोर श्रीवास्तव
(सं० 6902975 एफ० अब जे० सी०-212288 एफ०)---
27 फरवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण प्रशांत कुमार पण्डा
(सं० 6903267 पी० अब जे० सी०-21228 के०)---
18 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 91 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण सम्पूर्ण सिंह (सं०
6903163 ए० अब जे० सी०-212290 वाई०)---
01 फरवरी, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण पीतराम सिंह माझरिया
(सं० 6903211 पी० अब जे० सी०-212291 एफ०)---
01 फरवरी, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण मनवर सिंह चौहान
(सं० 6903636 वाई० अब जे० सी०-212292 के०)---
01 फरवरी, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण अतर सिंह ध्याल (सं०
5903401 एफ० अब जे० सी०-212293 एम०)---
01 फरवरी, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण जोसेफ वी० जी०
(सं० 6903607 वाई० अब जे० सी०-212294 पी०)---
11 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण बेनू गोपालन पी०
(सं० 6904090 एल० अब जे० सी०-212295 एक्स०)---
07 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य गोकुल सिंह गौर
(सं० 4052476 ए० अब जे० सी०-212296 ए०)---
01 मार्च, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण जीवन सिंह रावत
(सं० 6904313 एक्स० अब जे० सी०-212297 एच०)---
01 मार्च, 1991।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण करनैल सिंह (सं०
6905002 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212298 एल०)---
07 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 1991 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर तकनीशियन के रैंक में

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० बाल किशन (सं०
6901812 एफ० अब जे० सी०-212265 ए०)---19
फरवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० अम्पुनिशन भगवान दास (सं०
6902262 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212266 ए०)---
28 फरवरी, 1992।*

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी।

हवलदार एस० के० टी० अम्युनिशन जय सिंह (सं० 6902265 के० अब जे० सी०—212267 एल०)—01 जनवरी, 1991।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० मधु सुबन तिवारी (सं० 6902501 ए० अब जे० सी०—212268 एन०)—16 जनवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० धरम चन्द (सं० 6902443 एफ० अब जे० सी०—212269 डब्ल्यू०) 19 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० रामाचन्द्रन नायर पेरुमपारावीतिल (सं० 6902458 के० अब जे० सी० 212270 एल०)—01 जनवरी, 1991।

हवलदार एस० के० टी० इंजीनियर राधा कृष्णा पिल्लै वेळुतरा नारायणी आम्मा (सं० 6902618 वाई० अब जे० सी०—212271 एन०)—22 फरवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० इंजीनियर जोगिन्दर सिंह (सं० 6902673 पी० अब जे० सी०—212272 डब्ल्यू०) 14 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० रुबेन देव राज कुमार (सं० 6902740 पी० अब जे० सी०—212273 वाई०)—01 जनवरी, 1991।

हवलदार एस० के० टी० वेपन धन राज (सं० 6902793 एल० अब जे० सी० 212274 एफ०)—14 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० वेपन वीर प्रकाश सिंह शेखावत (सं० 6902847 के० अब जे० सी०—212275 के०)—01 फरवरी, 1991।

हवलदार एस० के० टी० वेपन होशियार सिंह प्रेमी (सं० 6902849 पी० अब जे० सी०—212276 एम०)—08 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० हरसिंहा राम (सं० 6902857 एन० अब जे० सी०—212277 पी०)—19 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० प्रकाश राम (सं० 6903224 एम० अब जे० सी०—212278 एक्स०)—18 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० लिख्मा राम (सं० 6902904 ए० अब जे० सी०—212279 ए०)—01 फरवरी, 1991।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० रामासामी गुरुसामी गुरुसामी (सं० 6903300 एन० अब जे० सी०—212280 पी०)—01 फरवरी, 1991।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० कोशी के० जी० (सं० 6903407 एन० अब जे० सी०—212281 एक्स०) 01 फरवरी, 1991।

एस० के० रे
अवर सचिव

सं० 75, दिनांक 3 जनवरी, 1992—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कैप्टन से मेजर

जे० एस० गिल (आई० सी०—38264) ए० सी०, सुरिन्द्र सिंह (आई० सी०—38266), आर० एस० यादव (आई० सी०—38268) इन्फैंट्री, के० एस० राठीर (आई० सी०—38269) ए० सी०, बी० पांडे (आई० सी०—38271) मैक इन्फैंट्री, डी० एस० अहलावत (आई० सी०—38273) इन्फैंट्री, एस० भट्टाचार्य (आई० सी०—38275) ई० एम० ई०, आर० पी० एस० बरार (आई० सी०—38276) ए० सी०, एच० एस० गिल (आई० सी०—38277) ए० सी०, अजय गुक्ता (आई० सी०—38278) ए० सी०, आई० नारायण (आई० सी०—38280), सुजान सिंह (आई० सी०—38283) ए० सी०, डी० के बदीला (आई० सी०—38286), बी० के० यादव (आई० सी०—38287) इन्फैंट्री, एस० जे० एस० सहवाल (आई० सी०—38288) आर्टी०, एस० एस० जाखर (आई० सी०—38289) इन्फैंट्री, आर० बी० सुहाग (आई० सी०—38290) ए० सी०, एस० के० सिंह (आई० सी०—38291), एल० सी० पटनायक (आई० सी०—38292), ओ० एस० यादव (आई०

सी०-38293), बी० बी० राणा (आई० सी०-38295),
बी० के० शर्मा (आई० सी०-38296) इनफैंट्री,--22
दिसम्बर, 1990।

दीपक डांडा (आई० सी०-38282) आर्टी०, जे० एस०
साही (आई० सी०-38283) ए०सी०--22 दिसम्बर,
1990।

अर्जन सिंह (आई० सी०-38395) आर्टी०, एन०
के० मेहता (आई० सी०-38397) इ०ओ० सी०, एम०
एस० मंगत (आई० सी०-38398) मैक० इनफैंट्री, मुख्तियार
सिंह (आई० सी०-38401) आर्टी०, एस० चौहान (आई०
सी०-38403) इनफैंट्री, जी० एन० सिंह (आई० सी०-
38405), के० के० सील (आई० सी०-38406) आर्टी०,
जयदीप सिंह (आई० सी०-38407) ए०सी०, विवेक सहगल
(आई० सी०-38408), एस० एस० शर्मा (आई० सी०-
38409) इनफैंट्री, राकेश भल्ला (आई० सी०-38410)
ए०सी०, आर० एन० डेका (आई० सी०-38411) आर्टी०,
पी० पी० सिंह (आई० सी०-38412) इनफैंट्री, जी० एन०
खाडसे (आई० सी०-38413), एच० एस० धिरक (आई०
सी०-38414) आर्टी०, बी० के० शर्मा (आई० सी०-
38415), सी० के० बाबू (आई० सी०-38417) इनफैंट्री,
ओ० पी० मेहतो (आई० सी०-38418) इंजीनियर्स,
अनिल जोशी (आई० सी०-38420) ए०सी०, के० एस०
नेहलावत (आई० सी०-38421), एस० आर० भारानाबसेरी
(आई० सी०-38422) आर्टी०, कुलवीर सिंह (आई० सी०-
(38423), ओम प्रकाश (आई० सी०-38424) इन्ट०,
धर्म पाल (आई० सी०-38399) इनफैंट्री--22 दिसम्बर,
1990।

पी० के० गुप्ता (आई० सी०-27738) इनफैंट्री--
31 जुलाई, 1984।

टी० के० जगनाथन (आई० सी०-17501) आर्टी०--
4 फरवरी, 1985।

हरी सिंह ठाकुर (आई० सी०-32223) इनफैंट्री--
3 मई, 1984।

रघुबीर सिंह,
सी० एस० ओ०, डी० ए० एम० एस० 8सी

सं० 76 दिनांक 22 जनवरी, 1992 को राष्ट्रपति
निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेवा

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के मूल रैंक में (चयन द्वारा)

एल० के० गोयल (आई० सी०-26445) सिगनल--
1 मार्च, 1990।

ए० जी० दातार (आई० सी०-26450) इनफैंट्री--
1 मार्च, 1990।

एस० के० सिल्ला रे (आई० सी०-26451) इंजीनियर--
1 मार्च, 1990।

मोहन रोये (आई० सी०-26456) आर्टिलरी--
1 मार्च, 1990।

के० एम० मोहम्मद बशीर (आई० सी०-24163)
ई०एम०ई०--1 मार्च, 1990।

रतवीर सिंह (आई० सी०-28302) ए० सी०--
01 मार्च, 1990।

वी० के० जोशी (आई० सी०-28342) इन्टकोर--
1 मार्च, 1990।

जे० बी० श्रीवास्तवा (आई० सी०-28491) इनफैंट्री--
1 मार्च, 1990।

डी० कपूर (आई० सी०-28590) ए० सी०--
01 मार्च, 1990।

एस० सी०-मोहन (आई० सी०-28636) ए०एस०सी०--
1 मार्च, 1990।

पी० बी० थापा (आई० सी०-26471) इनफैंट्री--
1 मार्च, 1990।

चरनजीत सिंह (आई० सी०-26474) ए० सी०--
1 मार्च, 1990।

ए० के० कोपर (आई० सी०-26480) इनफैंट्री--
1 मार्च, 1990।

बी० बी०एस० बाली (आई० सी०-26481) इनफैंट्री--
1 मार्च, 1990।

जी० सी० शर्मा (आई० सी०-26487) सिगनल--
1 मार्च, 1990।

एम० एस० बहल (आई० सी०-26488) इनफैंट्री--
1 मार्च, 1990।

ओंकार सिंह (आई० सी०-26490) इनफैंट्री--
1 मार्च, 1990।

बी० बी० रामाचन्द्रा (आई० सी०-26491) इंजी-
नियर--1 मार्च, 1990।

मोहिन्दर सिंह (आई० सी०-26496) ए०एस०सी०--
1 मार्च, 1990।

ए० के० भारगवा (आई० सी०-26504) सिगनल--
1 मार्च, 1990।

गुरदियाल सिंह (आई० सी०-26505) आर्टिलरी--
1 मार्च, 1990।

एम० ए० रशीद (आई० सी०-26510) सिगनल--
1 मार्च, 1990।

एस० के० मेहता (आई० सी०-26513) ई०एम०ई०--
1 मार्च, 1990।

जे. के. हसीजा (आई. सी.-26520) ए. सी.—
1 मार्च, 1990।

जनक राज (आई. सी.-26523), ए. ओ. सी.—
1 मार्च, 1990।

एस. एन. लिल्ले (आई. सी.-26525), ए. एस.
सी.—1 मार्च, 1990।

बी. जी. मुठाप्पा (आई. सी.-26527), इंजीनियर
—1 मार्च, 1990।

एम. एस. कपूर (आई. सी.-26529), इंजीनियर
—1 मार्च, 1990।

एस. पी. एस. नारंग (आई. सी.-26531) इंजी-
नियर—1 मार्च, 1990।

एस. सी. कांजीलाल (आई. सी.-26532)
सिगनल—1 मार्च, 1990।

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के मूल रैंक में (चयन द्वारा)

ओंकार सिंह (आई. सी.-17682) ए. सी.—
इनफैंट्री 1 जुलाई, 1988।

वी. के. एन. बेनुगोपालन (आई. सी.-26352 पी)
इंजीनियर—1 फरवरी, 1990।

के. आर. कंवल (आई. सी.-26354 ए)-आर्टिलरी
—1 फरवरी, 1990।

आर. बी. अकोकर (आई. सी.-26358 डब्ल्यू)
—1 फरवरी, 1990।

जी. एस. कोहली (आई. सी.-26359 वाई)
आर्टिलरी—1 फरवरी, 1990।

जी. पी. मरचेंट (आई. सी.-26360 एन) इनफैंट्री
—1 फरवरी, 1990।

ए. कोच्छड़ (आई. सी.-26361 डब्ल्यू) ए. सी.
—1 फरवरी, 1990।

राजेन्द्र सिंह (आई. सी.-26363 एफ) ए. एस. सी.
—1 फरवरी, 1990।

सी. एस. खेतारपाल (आई. सी.-36366 पी)
इनफैंट्री—1 फरवरी, 1990।

पी. ए. देसाई (आई. सी.-26367 एस) आर्टिलरी
—1 फरवरी, 1990।

पी. टी. मोनाप्पा (आई. सी.-26368 ए) इन्टकोर
—1 फरवरी, 1990।

बी. एस. सिन्धु (आई. सी.-26373 एल) ए. ओ.
सी.—1 फरवरी, 1990।

बी. के. सिंह (आई. सी.-26374 एन) इनफैंट्री
—1 मार्च, 1990।

बी. के. सराफ (आई. सी.-26379 एन) ई. एम.
ई.—1 मार्च, 1990।

ए. बी. दिवापे (आई. सी.-26380 एफ) इनफैंट्री
—1 मार्च, 1990।

आर. के. मनन (आई. सी.-26386 एच) आर्टी-
लरी—1 मार्च, 1990।

ए. के. भाटीया (आई. सी.-26388 एन) ए. सी.
—1 मार्च, 1990।

आर. एस. छिकारा (आई. सी.-26396 एम)
आर्टिलरी—1 मार्च, 1990।

भरत प्रकाश (आई. सी.-26399 ए) सिगनल—
1 मार्च, 1990।

ओ. पी. कोहली (आई. सी.-26400 के) इनफैंट्री
—1 मार्च, 1990।

एच. डब्ल्यू. मार्टिन (आई. सी.-26402 पी)
इनफैंट्री—1 मार्च, 1990।

पी. के. सिंह (आई. सी.-26405 एच) ए. सी.
—1 मार्च, 1990।

ए. के. सूरी (आई. सी.-26419 एच) इनफैंट्री
—1 मार्च, 1990।

जी. पी. सोमन (आई. सी.-26420 एक्स)
सिगनल—1 मार्च, 1990।

आर. एस. मलिक (आई. सी.-26427 आर)
इंजीनियर—1 मार्च, 1990।

रामबीर सिंह (आई. सी.-26428 के) ई. एम. ई.
—1 मार्च, 1990।

एस. के. भट्ट (आई. सी.-26433 पी) ए. सी.
—1 मार्च, 1990।

पी. एस. दत्ता (आई. सी.-26434 एक्स) ए. सी.
—1 मार्च, 1990।

जी. एस. गर्चा (आई. सी.-26440 एल) इंजीनियर
—1 मार्च, 1990।

जी. आर. अडवानी (आई. सी.-26441 एन)
ए. ओ. सी.—1 मार्च, 1990।

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के मूल रैंक में (चयन द्वारा)

बी. के. कोछर (आई. सी.-14928) ई. एम. ई.
—9 मई, 1989 परन्तु वरिष्ठता 1 जून 1988 से
वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

एन. एम. स्वामी (आई. सी.-17949) ई. एम. ई.
—3 जून, 1988 परन्तु वरिष्ठता 1 जून, 1988 से
वेतन और पेंशन पर लागू नहीं।

के० एस० पीर (आई० सी०-22478) ई० एम० ई०
—1 जुलाई, 1988 ।

आर० कृष्णामुषी (आई० सी०-23561) ई० एम० ई०
—1 जुलाई, 1988 ।

एच० डी० मिश्रा (आई० सी०-23640) ई० एम० ई०
—1 जुलाई, 1988 ।

नरेन्द्रा कुमार (आई० सी०-26059) ए० सी०—
1 जुलाई, 1988 ।

एच० एस० बाली (आई० सी०-26147) ई० एम० ई०
—1 जुलाई, 1988 ।

ए० आई० नोमानी (आई० सी०-21470) ई० एम० ई०
—1 अगस्त, 1988 ।

आर० पी कानर (आई० सी०-23628) ई० एम० ई०
—1 अगस्त, 1988 ।

ई० रविन्द्ररानाथन (आई० सी०-23657) ई० एम० ई०
—1 अगस्त, 1988 ।

पी० के० रोये (आई० सी०-24063) ई० एम० ई०
—1 अगस्त, 1988 ।

आर० एन० सहगल (आई० सी०-26709) ई० एम०
ई०—1 अगस्त, 1988 ।

गगनजीत सिंह (आई० सी०-26878) ई० एम० ई०
—1 अगस्त, 1988 ।

के० डी० एस० शेखावत (आई० सी०-19393) ए०
सी०—1 अगस्त, 1988 ।

पी० बासु (आई० सी०-19412) ए० सी०—1
अगस्त, 1988 ।

आर० एम० सन्धू (आई० सी०-19416) ई० एम० ई०
—1 अगस्त, 1988 ।

वी० एस० गिल (आई० सी०-19484) ई० एम० ई०
—1 अक्टूबर, 1988 ।

पी० एस० गुजराल (आई० सी०-19500) ई० एम०
ई०—1 नवम्बर, 1988 ।

ए० के० माहने (आई० सी०-19501) ई० एम० ई०
—1 नवम्बर, 1988 ।

ए० एस० पूरी (आई० सी०-19585) ई० एम० ई०
—1 मार्च, 1989 ।

वी० के० रनोसला (आई० सी०-19602) ई० एम० ई०
—1 मार्च, 1989 ।

आर० वेन्कटरामन (आई० सी०-19654) ए० सी०
—1 मई, 1989 ।

एस० के० कालिया (आई० सी०-24451) ई० एम० ई०
—1 मई, 1989 ।

ए० के० अभिलाषी (आई० सी०-24452) ई० एम०
ई०—1 जून, 1989 ।

बी० के० अतरी (आई० सी०-24458) ई० एम० ई०
—1 जून, 1989 ।

ए० के० बासु (आई० सी०-24473) ई० एम० ई०—
1 जुलाई, 1989 ।

ए० एस० हंसपाल (आई० सी०-24498) ई० एम०
ई०—1 अगस्त, 1989 ।

सतीश चन्दरा (आई० सी०-24500) ई० एम० ई०—
1 अगस्त, 1989 ।

एस० भारद्वाज (आई० सी०-24509) ई० एम० ई०
—1 सितम्बर, 1989 ।

पी० पी० गांधी (आई० सी०-24527) ई० एम० ई०
—1 सितम्बर, 1989 ।

एन० के० राओ (आई० सी०-24535) ई० एम० ई०
—1 अक्टूबर, 1989 ।

ए० के० पी० डावे (आई० सी०-24543) ई० एम० ई०
—1 अक्टूबर, 1989 ।

के० एल० एस० मूर्थी (आई० सी०-24547) ई० एम०
ई०—1 अक्टूबर, 1989 ।

मेजर सेलेफ्टिनेट कर्नल के मूलरैंक में (समय मान द्वारा)

आर० के० शर्मा (आई० सी०-23999 एक्स) आर्टिलरी
—21 दिसम्बर, 1990 ।

एन० के० मण्डल (आई० सी०-24008 एल) ए० एस०
सी०—21 दिसम्बर, 1990 ।

रामपाल (आई० सी०-24009 एन) आर्टिलरी—
21 दिसम्बर, 1990 ।

राओतेला हीरा सिंह (आई० सी०-24015 एफ)
इन्फैंट्री—21 दिसम्बर, 1990 ।

सिसोदिया जे० पी० एस०, एम० एस० (आई० सी०-
24017 एम) इन्फैंट्री—21 दिसम्बर, 1990 ।

जामलुकी लक्ष्मी वल (आई० सी०-24022 एक्स)
ए० ओ० सी०—21 दिसम्बर, 1990 ।

पठानिया सुनील सिंह (आई० सी०-24023 ए)
इन्फैंट्री—21 दिसम्बर, 1990 ।

आर० एस० अहलावत (आई० सी०-24024 एल)
ए० एस० सी०—21 दिसम्बर, 1990 ।

वरधीज पी० जोहन (आई० सी०-24025 एल)
इन्फैंट्री—21 दिसम्बर, 1990 ।

सुब्बा सिंह (आई० सी०-24028 वाई) इन्फैंट्री—
21 दिसम्बर, 1990 ।

ए० एस० आर० कुमार (आई० सी०-24029 एफ),
इन्फैंटरी—21 दिसम्बर, 1990।

भिडे विश्वनाथ (आई० सी०-24031 बाई), ए० एस०
सी०—21 दिसम्बर, 1990।

बी० के० बोरा (आई० सी०-24034 एम), आर्टिलरी—
21 दिसम्बर, 1990।

हूरी राम दास सिरी (आई० सी०-24035 पी), इन्फैंटरी—
21 दिसम्बर, 1990।

ए० एस० बलागन (आई० सी०-24037 ए), ए० एस०
सी०—21 दिसम्बर, 1990।

भगवान सिंह (आई० सी०-24040 ए), ए० एस० सी०—
21 दिसम्बर, 1990।

राभ्रो इवातुरी सूरया (आई० सी०-24044 डब्ल्यू), ए०
ओ० सी०—21 दिसम्बर, 1990।

शिवानाथ सिंह (आई० सी०-24050 के), आर्टिलरी—
21 दिसम्बर, 1990।

जी० एस० जोली (आई० सी०-24051 एम), इन्फैंटरी—
21 दिसम्बर 1990।

हुडेजा एस० एस० (आई० सी०-24074 एन), ए० ई०
सी०—21 दिसम्बर, 1990।

दौलत राम (आई० सी०-24078 के), ए० ई० सी०—21
दिसम्बर, 1990।

एस० एस० कटारिया (आई० सी०-24115 एम)—21
दिसम्बर, 1990।

डी० एल० सखदेवा (आई० सी०-24133 पी), ए० ई०
सी०—21 दिसम्बर, 1990।

सिकन्दर सिंह (आई० सी०-23900 डब्ल्यू), सिगनल—
21 दिसम्बर 1990।

एम० एस० सयाना (आई० सी०-23901 बाई), आर्टिलरी
—21 दिसम्बर, 1990।

गुरमीत सिंह (आई० सी०-23905 पी), इन्फैंटरी—21
दिसम्बर 1990।

एन० के० एस० एम० व्यास (आई० सी०-23925 एच)—
इन्फैंटरी—21 दिसम्बर, 1990।

ए० के० दत्ता (आई० सी०-23931 डब्ल्यू), इन्फैंटरी—
21 दिसम्बर, 1990।

मनोरंजन सिंह (आई० सी०-23932 बाई), इन्फैंटरी—
21 दिसम्बर, 1990।

आमनत राभ्रो (आई० सी०-23937 एक्स), आर्टिलरी—
21 दिसम्बर, 1990।

एस० बी० रोय (आई० सी०-23938 ए), आर्टिलरी—
21 दिसम्बर, 1990।

रायेना मदन लाल (आई० सी०-23945 डब्ल्यू), इन्फैंटरी—
21 दिसम्बर, 1990।

आर० सरवजीत सिंह (आई० सी०-23948 के), इन्फैंटरी—
21 दिसम्बर, 1990।

ए० के० दत्ता (आई० सी०-23950 एफ), आर्टिलरी—
21 दिसम्बर, 1990।

गुरतेज सिंह (आई० सी०-23951 के), ए० एस० सी०—
21 दिसम्बर, 1990।

एच० एस० धालीवाल (आई० सी०-23953 पी), ए०
एस० सी०—21 दिसम्बर, 1990।

एच० एस० भाईसोरा (आई० सी०-23952 एम), ए० ओ०
सी०—21 दिसम्बर, 1990।

प्रेम सागर (आई० सी०-23954 एक्स), आर्टिलरी—21
दिसम्बर, 1990।

धापा दियोभेन सिंह (आई० सी०-23956 एच), इन्फैंटरी—
21 दिसम्बर, 1990।

मुखिया हिमांगणु (आई० सी०-23957 एल), इन्फैंटरी—
21 दिसम्बर, 1990।

पी० एम० मिश्रा (आई० सी०-23958 एन), आर्टिलरी—
21 दिसम्बर, 1990।

आर० के० कोछर (आई० सी०-23963 बाई), इन्फैंटरी—
21 दिसम्बर, 1990।

भारत सिंह (आई० सी०-23964 एफ), इन्फैंटरी—
21 दिसम्बर, 1990।

जोसफ अरुलराज (आई० सी०-23965 के), आर्टिलरी—
21 दिसम्बर, 1990।

बी० एस० रायेखी (आई० सी०-23969 ए), आर्टिलरी—
21 दिसम्बर, 1990।

के० आर० वरयाम सिंह (आई० सी०-23973 एच),
इन्फैंटरी—21 दिसम्बर, 1990।

वी० के० छिम्बर (आई० सी०-23974 एल), आर्टिलरी—
21 दिसम्बर, 1990।

सन्त प्रकाश सिंह (आई० सी०-23975 एन), आर्टिलरी—
21 दिसम्बर, 1990।

रतन चन्द (आई० सी०-23976 डब्ल्यू), इन्फैंटरी—21
दिसम्बर, 1990।

सन्धु जुगराज सिंह (आई० सी०-23975 एन), इन्फैंटरी—
21 दिसम्बर, 1990।

सक्सेना स्वाधीन (आई० सी०-23980 बाई), इन्फैंटरी—
21 दिसम्बर, 1990।

पी० के० जैन (आई० सी०-23982 के), आर्टिलरी—
21 दिसम्बर, 1990।

जनक राज (आई० सी०-23990 एम), ए० एम० सी०-21 दिसम्बर, 1990।

सुब्बा प्रेम बहादुर (आई० सी०-23992 एन), 21 दिसम्बर 1990।

गुरुंग धान बहादुर (आई० सी०-23997 एम), इन्फैंटरी 21 दिसम्बर, 1990।

ले० कर्नल डी० सी० कटोच, स्थानापन्न कर्नल एम एस 8

सं० 77, दिनांक 21 जनवरी, 1992—निम्नलिखित नियुक्तियों की जाती हैं :—

रक्षा अमुसंधान तथा विकास संगठन

श्री रीनक राज, सहायक और श्री हरी चन्द, सहायक डी० आर० डी० प्रो० को सशस्त्र सेना मुख्यालय की सिविल सेवा में दिनांक 11-10-91 (पूर्वाह्न) से रु० 2000-60-2300-द० रो०-75-3200-100-3500 के वेतनमान में स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी (ग्रुप बी राजपत्रित) के रूप में नियुक्त किया गया है तथा उसी तारीख से रक्षा अमुसंधान तथा विकास संगठन की नफरी पर लिया गया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः अन्तरिम और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर वर्ष 1990 की रिट याचिका सं० 439-खीसला तथा अन्य बनाम भारत सरकार में निर्णय के अनुसार वरिष्ठता सूची में संशोधन तथा सर्वोच्च न्यायालय केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा संबंधित मामलों में दिये निर्देशों पर आधारित है।

एस० लोगानाथन,
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशासन)

सं० 78, दिनांक 8 जनवरी 1992—राष्ट्रपति महर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

2/लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट

बशीर अहमद (आई० सी०-47311) इन्फैंटरी, वरिन्द्र सिंह (आई० सी०-47312) ई० एम० ई०, पो०, रघुरामन (आई० सी०-47313) मेक/इन्फैंटरी, सुनिल कुमार शर्मा (आई० सी०-47314) आर्टिलरी, कंवलजीत सिंह रलही (आई० सी०-47315) आर्टिलरी, दीपक रंजन सिन्हा (आई० सी०-47316) इंजीनियर, रविन्द्र कुमार पाठक (आई० सी०-47317) सिगनल, संजय काशीयन (आई० सी०-47318) इन्फैंटरी, एम० भटनागर (आई० सी०-47320) ए० सी०, प्रमिष्ठर जीत सिंह (आई० सी०-47322) इन्फैंटरी, राजीव शर्मा (आई० सी०-47323) इन्फैंटरी, विमोद भादू (आई० सी०-47324) इन्फैंटरी, सुनील प्रमार (आई० सी०-47325)

4-464 GI/91

इन्फैंटरी, कुंगा तशरींग शेखा (आई० सी०-47327) आर्टिलरी, राज कुमार जमैवाल (आई० सी०-47328) इन्फैंटरी, आशुतोष अहलुवालिया (आई० सी०-47329) आर्टिलरी, उज्जवल प्रकाश (आई० सी०-47330) सिगनल, देवन्द्र कुमार यादव (आई० सी०-47332) इंजीनियर, संदीप चौधरी (आई० सी०-47333) सिगनल, हरीश कटोच (आई० सी०-47334) ए० सी०, अलंकार भारद्वाज (आई० सी०-47335) ए० एम० सी०, टी० थोमस (आई० सी०-47336) ए० एम० सी०, धर्मानिया संजय कुमार गोपालदाम (आई० सी०-47337) आर्टिलरी, गौतम नन्दी (आई० सी०-47338) इन्फैंटरी, अशीम कुमरोजा (आई० सी०-47339) ए० सी०, विक्रम द्वेवल (आई० सी०-47340) इन्फैंटरी—19 दिसम्बर, 1989।

विजय कुमारन नैयर बी० एम० (आई० सी०-43895) आर्टिलरी, राजेश कुमार शर्मा (आई० सी०-43906) आर्टिलरी, संजय कपूर (आई० सी०-43911) आर्टिलरी, रविन्द्रा कोठारी (आई० सी०-43925) इन्फैंटरी, संजीव भंडारी (आई० सी०-43928) आर्टिलरी, भूपाल कुमार (आई० सी०-43932) आर्टिलरी, अजित कपूर (आई० सी०-43934) आर्टिलरी, दीपक अग्रवाल (आई० सी०-43940) आर्टिलरी, विनोद कुमार बाहुरी (आई० सी०-43944) आर्टिलरी, राजीव चौहान (आई० सी०-43945) ए० ओ० सी०-अमरित पाल गुप्ता (आई० सी०-43957) आर्टिलरी, मकरन्द वसन्त प्रभू (आई० सी०-43960) आर्टिलरी, किशोर डी० अथले (आई० सी०-43967) आर्टिलरी, भूपेश कुमार (आई० सी०-43968) इन्फैंटरी, राजनायक सिंह (आई० सी०-43970) ए० सी०, संदीप मेहलोत्रा (आई० सी०-43975) आर्टिलरी, बी० श्रीनिवास शर्मा (आई० सी०-43983) आर्टिलरी, प्रताप सिंह (आई० सी०-43985), मेक/इन्फैंटरी—14 जून, 1988।

तरुन पराशर (आई० सी०-44209) इन्फैंटरी, प्रवीण कुमार वर्मा (आई० सी०-44212) सिगनल, नरेश कुमार सलोत्रा (आई० सी०-44222) इन्फैंटरी, अमित सिन्हा (आई० सी०-44229) इन्फैंटरी, कुलदीप सिंह भदवाल (आई० सी०-44234) मेक/इन्फैंटरी, राजीव भाटिया (आई० सी०-44268) ई० एम० ई०, शाहजी सी० बी० (आई० सी०-44291) आर्टिलरी, ए० आयप्पम शामी (आई० सी०-44307) इन्फैंटरी, सन्येन आनन्द (आई० सी०-44326) आर्टिलरी, देवबराता माहापात्रा (आई० सी०-44329) मेक/इन्फैंटरी, यशवीर चौधरी (आई० सी०-44390) इन्फैंटरी, शक्ति कुमार गौतम (आई० सी०-44405) मेक/इन्फैंटरी-20, दिसम्बर 1988।

कर्मिन्द्र मिश्र कंध (आई० सी०-44536) इन्फैंटरी-13 जून, 1989।

संदीप नागरथ (आई० सी०-47282) ए० सी०, जसमीत सिंह महेन्द्र (आई० सी०-47283) सिगनल, जसवीर

सिंह बौपाराय (आई० सी०-47284) आर्टिलरी, कोशिक
सिरकार (आई० सी०-47285) इन्फैंटरी, विनीत नहरा
(आई० सी०-47287) आर्टिलरी, सौरभ कला (आई० सी०-
47288) इंजीनियर, गोविन्द मिह वर्मा (आई० सी०-
47289), ए० एस० सी०, चौधरी राजेन्द्र कुमार सजवाल
(आई० सी०-47291) इन्फैंटरी, राजीव मेठी (आई० सी०-
47292) आर्टिलरी, बलजीत सिंह बाजवा (आई० सी०-
47293) आर्टिलरी, राजीव सिंह (आई० सी०-47294)
इन्फैंटरी, प्रेम सिंह खेरवाल (आई० सी०-47295) ए०
एस० सी०, दिनेश कुमार शर्मा (आई० सी०-47296) मेक/
इन्फैंटरी, अदित्य भगवन (आई० सी०-47297) सिगनल,
गुरीन्द्र जीत सिंह गिल (आई० सी०-47299) इन्फैंटरी
सुशोभित कमरा (आई० सी०-47300) ई० एम० ई०,
नगेन्द्र सिंह ठाकुर (आई० सी०-47302) इन्फैंटरी, नरेश
सिंह चौहान (आई० सी०-47303) इन्फैंटरी, राम धन सिंह
(आई० सी०-47304) ए० एस० सी०, संजय जेठी (आई०
सी०-47305) ए० ओ० सी०, शाभूज कुमार पाण्डा (आई०
सी०-47306) ए० सी०, सुन्दर गोपाल रवि चन्द्र (आई०
सी०-47307) ए० सी०, रणवीर सिंह यादव (आई० सी०-
47308) ए० एस० सी०, जगदीश सिंह (आई० सी०-
47309) ए० ओ० सी०, मनोज जैन (आई० सी०-47310)
ई० एम० ई०—19 दिसम्बर, 1989।

श्रीधर बी० कुलकर्णी (आई० सी०-47256) ई० एम०
ई०, कंवरजीत सिंह मयाल (आई० सी०-47257) आर्टिलरी-
अविनाश रावन (आई० सी०-47258) ए० ओ० सी०,
हर्ष वर्धन सिंह (आई० सी०-47259) इन्फैंटरी, अनुराग
अस्थाना (आई० सी०-47260) सिगनल, अमर दीप सिंह
श्रीजला (आई० सी०-47261) इन्फैंटरी, प्रशांता कुमार राय
(आई० सी०-47262) आर्टिलरी, राजीव ठाकुर (आई० सी०-
47263) इन्फैंटरी, करण दीप सिंह (आई० सी०-47264)
इन्फैंटरी, गनपत मारुति चौधरी (आई० सी०-47265)
इंजीनियर, विजय कुमार एम० जी० (आई० सी०-47266)
इंजीनियर, बीभीश चन्द्र सिंह (आई० सी०-47267) आर्टिलरी,
वृजराज तिबारी (आई० सी०-47268) ए० एस० सी०,
गुरजीवन सिंह भट्टी (आई० सी०-47269) इन्फैंटरी, शिवा
नन्दन शर्मा (आई० सी०-47270) आर्टिलरी, हरजिन्दर सिंह
(आई० सी०-47271), राजवीर सिंह विर्क (आई० सी०-
47272) आर्टिलरी, भूपेन्द्र सिंह हाण्डा (आई० सी०-
47274) ए० सी०, नवदीप सिंह संधा (आई० सी०-47276)
इन्फैंटरी, विवेक कौल (आई० सी०-47276) मेक/इन्फैंटरी,
संजीवन सिंह गुलेरिया (आई० सी०-47277) इन्फैंटरी,
सुर्या पाल सिंह रावत (आई० सी०-47278) इन्फैंटरी,
हेमन्त कुमार (आई० सी०-47279) ई० एम० ई०, हर-
मंजीत सिंह चोपड़ा (आई० सी०-47280) इन्फैंटरी, जसवंत
सिंह (आई० सी०-47281) सिगनल—19 दिसम्बर, 1989।

राजेश कमल शर्मा (आई० सी०-47087) आर्टिलरी,
पद्मया जी० सुबापुरमठ (आई० सी०-47088) आर्टिलरी,
सुरेन्द्रा सिंह (आई० सी०-47089) आर्टिलरी, दीपक थापा

(आई० सी०-47090) इन्फैंटरी, शोम प्रकाश राणा (आई०
सी०-47092) इन्फैंटरी, उपनीषा जेतली (आई० सी०-
47093) इन्फैंटरी, संदीप सुधेरा (आई० सी०-47094,
इंजीनियर, अतुल अजमेनी (आई० सी०-47095) सिगनल,
संजय कुमार विद्यार्थी (आई० सी०-47096) इंजीनियर,
जगरूप सिंह (आई० सी०-47097) आर्टिलरी, कवीन श्रंग-
स्टीन डिमुजा (आई० सी०-47098) ई० एम० ई०, राजेश
किशनराव गायकवाड़ (आई० सी०-47099) इन्फैंटरी, संजय
कुमार कौशल (आई० सी०-47100) ए० सी०, मनीष
गौसाई (आई० सी०-47101) ए० एस० सी०, सुचित्र शर्मा
(आई० सी०-47102) इन्फैंटरी, सरप्रीत सिंह बैनीपाल
(आई० सी०-47103) ए० एस० सी०, संजय कुमार कर-
वाल (आई० सी०-47104) ई० एम० ई०, उमेश चन्द्र
राय (आई० सी०-47106) ई० एम० ई०, रत्नदीप दत्ता
(आई० सी०-47107) इन्फैंटरी, दीपक कौहली (आई० सी०-
47108) आर्टिलरी, विनीत भाटिया (आई० सी०-47109)
सिगनल, विशाल मेहता (आई० सी०-47110) आर्टिलरी,
महेन्द्र के० जोशी (आई० सी०-47111) इन्फैंटरी, जितेन्द्र
सिंह शेखावट (आई० सी०-47112) इन्फैंटरी, नरेन्द्र सिंह
यादव (आई० सी०-47113) इन्फैंटरी—19 दिसम्बर 1989।

भगन प्रकाश कमल (आई० सी०-47029) इन्फैंटरी,
विक्रम एम० वाते (आई० सी०-47030) इन्फैंटरी, अरुण
प्रताप सिंह राजौरा (आई० सी०-47031) इन्फैंटरी, प्रतीक
शर्मा (आई० सी०-47032) इन्फैंटरी, संजय ठाकुर (आई०
सी०-47033) इन्फैंटरी, दीपेन्द्र सिंह रावत (आई० सी०-
47034) इंजीनियर, प्रवीण पी० शिडे (आई० सी०-
47035) इन्फैंटरी, दीपक गर्ग (आई० सी०-47036)
इन्फैंटरी, ब्रह्म प्रकाश यादव (आई० सी०-47037) ए० ओ०
सी०, सुरेन्द्र नाथ तिवारी (आई० सी०-47038) इन्फैंटरी,
श्रवण सिंह (आई० सी०-47039) ए० एस० सी०, गन्तु
बेंकेटा हरी प्रसाद (आई० सी०-47042) इन्फैंटरी, अशोक
कुमार भूयान (आई० सी०-47045) आर्टिलरी, सेलेन्द्र
मलिक (आई० सी०-47046), ई० एम० ई०, जय सिंह
यादव (आई० सी०-47047) इन्फैंटरी, राजेश खर्व (आई०
सी०-47048) इन्फैंटरी, जितेन्द्र शर्मा (आई० सी०-47049)
सिगनल, गुरवीर सिंह सरना (आई० सी०-47050) इन्फैंटरी
कृष्ण राज (आई० सी०-47051) आर्टिलरी, धर्मेन्द्र सिंह
यादव (आई० सी०-47052) इन्फैंटरी, मोहन सिंह (आई०
सी०-47053) इन्फैंटरी, हरदीप सिंह (आई० सी०-47054)
आर्टिलरी, अधिश शर्मा (आई० सी०-47055) आर्टिलरी,
मुकेश अग्रवाल (आई० सी०-47057) आर्टिलरी, सतवीर सिंह
(आई० सी०-47058) इन्फैंटरी—19 दिसम्बर, 1989।

दिनेश सिंह यादव (आई० सी०-47001) मेक/
इन्फैंटरी, जगजीत सिंह मंगत (आई० सी०-47002) ए०
सी०, देवेन्द्र शर्मा (आई० सी०-47003) ए० सी०, पद्म सिंह
शेखावट (आई० सी०-47004) मेक/इन्फैंटरी, चन्द्र विजय सिंह
(आई० सी०-47005) ए० सी०, आर० नथावन (आई०

सी०-47006) मेर/इन्फैंट्री, अश्विनी कुमार दावव (आई० सी०-47007) ए० सी०, राजेश कुमार यूनियाल (आई० सी०-47009) इंजीनियर, अनुराग कुमार (आई० सी०-47010) ई० एम० ई०, तेज वीर सिंह मुन्दी (आई० सी०-47012) ए० सी०, दीपक मेहरा (आई० सी०-47013) इन्फैंट्री, तपन कुमार दाम (आई० सी०-47014) ई० एम० ई०, राजिव अरोरा (आई० सी०-47015) इन्फैंट्री, दीपनकर चौधरी (आई० सी०-47017) इन्फैंट्री, राजिन्द्र सिंह (आई० सी०-47018) आर्टिलरी, संदीप षई (आई० सी०-47019) इन्फैंट्री, दीनेश सिंह राणा (आई० सी०-47020) इन्फैंट्री, राजध्याक्ष योगेश बालकृष्णा (आई० सी०-47021) इन्फैंट्री, नवनीत सिंह सरना (आई० सी०-47023) आर्टिलरी, राम गोपाल शुक्ला (आई० सी०-47024) आर्टिलरी, संदीप महगल (आई० सी०-47025) इन्फैंट्री, विकास घोबर (आई० सी०-47026) आर्टिलरी, अजय कालिया (आई० सी०-47027) आर्टिलरी, राज मोहन (आई० सी०-47028) सिगनल—19 दिसम्बर, 1989।

अनुज चतुर्वेदी (आई० सी०-47406) सिगनल, वीर-बल सिंह (आई० सी०-47407) इन्फैंट्री, विजय धवन (आई० सी०-47408) ए० ओ० सी०, विवेक कुमार शर्मा (आई० सी०-47409) मेक/इन्फैंट्री, संजय बंबजा (आई० सी०-47410) इन्फैंट्री, जगजीत सिंह संधु (आई० सी०-47111) इन्फैंट्री, प्रभाकर सिंह गौतम (आई० सी०-47412) आर्टिलरी, अतुल भण्डारी (आई० सी०-47413) ए० एस० सी०, केलास प्रकाश मलिक (आई० सी०-47414) इंजीनियर, योगेश चन्द्र लोहुरी (आई० सी०-47415) इन्फैंट्री, चरनजीत सिंह भन्वर (आई० सी०-47416) आर्टिलरी, उत्तम कुमार शाह (आई० सी०-47417) आर्टिलरी, जवल एन्थोनी (आई० सी०-47418) ए० ओ० सी०, विकास रंजन (आई० सी०-47419) आर्टिलरी, शिवराज सिंह राठौर (आई० सी०-47420) इन्फैंट्री, खेम प्रसाद (आई० सी०-47421) आर्टिलरी, अलेक सिंह (आई० सी०-47422) इन्फैंट्री, शिवादे नन्द कुमार जनाईन (आई० सी०-47423) इन्फैंट्री, दिनेश मोनी (आई० सी०-47425) ए० ओ० सी०, अनिल कुमार पठानिया (आई० सी०-47426) इन्फैंट्री, सुरेन्द्र कुमार माथुर (आई० सी०-47427) आर्टिलरी, सुशील एस० कुलकर्णी (आई० सी०-47429) ए० ओ० सी०, आशिष मौलिक (आई० सी०-47430) ए० सी०, हेमन्त सरोख (आई० सी०-47431) इन्फैंट्री, भगवान सिंह शेखावट (आई० सी०-47433) आर्टिलरी—19 दिसम्बर, 1989।

अजय भाटिया (आई० सी०-47059) ई० एम० ई०, नीकेश नन्वन (आई० सी०-47060) आर्टिलरी, विकास शर्मा (आई० सी०-47061) आर्टिलरी, अलेक्स जेकोब (आई० सी०-47062) इन्फैंट्री, संजय शर्मा (आई० सी०-47063) आर्टिलरी, मनोज नटराजन (आई० सी०-47064) इन्फैंट्री, अविन्दर सिंह भुल्लर (आई० सी०-47065) ए० एस० सी०, संजय शर्मा

(आई० सी०-47066) सिगनल, पवन सिंह समयाल (आई० सी०-47067) सिगनल, योगेन्द्र कुमार (आई० सी०-47068) ए० सी०, सुखविन्द्र सिंह खेडा (आई० सी०-47069) इंजीनियर, अभिजीत माधव वापत (आई० सी०-47070) इन्फैंट्री, कमल सिंह भदवाल (आई० सी०-47071) ए० एस० सी०, रविन्द्र प्रताप सिंह (आई० सी०-47072) इन्फैंट्री, कुलवन्त सिंह (आई० सी०-47074) आर्टिलरी, बन्तूर शिवा कोटा रेड्डी (आई० सी०-47075) आर्टिलरी, राकेश कपूर (आई० सी०-47076) ए० सी०, वरिन्द्र सिंह (आई० सी०-47077) इन्फैंट्री, मनीष चन्द्र (आई० सी०-47078) इंजीनियर, संजय मठी (आई० सी०-47079) इन्फैंट्री, ए० ओ० सी०, विक्रम जीत सिंह (आई० सी०-47080) इन्फैंट्री, दीपिन्द्र सिंह सैनी (आई० सी०-47082) इन्फैंट्री, शरद काकु (आई० सी०-47085) आर्टिलरी, अवधूत देशपांडे (आई० सी०-47086) सिगनल—19 दिसम्बर, 1989।

कुरा श्रीनिवास राव (आई० सी०-47466) इन्फैंट्री, आर० अरुण (आई० सी०-47468) आर्टिलरी, दिनकर हीतेशी (आई० सी०-47469) ई० एम० ई०, पवन राज सिंह सिरौही (आई० सी०-47470) ए० सी०, विवेक जॉजी (आई० सी०-47471) ए० एस० सी०, आतंत निरंजन (आई० सी०-47472) ई० एम० ई०, सुरेन्द्र सिंह (आई० सी०-47473) इन्फैंट्री, कुलवीर सिंह राठी (आई० सी०-47474) इन्फैंट्री, एस० विजयनन्द बालाजी (आई० सी०-47475) आर्टिलरी, रजनीश माथुर (आई० सी०-47476) इन्फैंट्री, एम० जुलियस जोरज (आई० सी०-47477) इंजीनियर, सुनील थोमस (आई० सी०-47478) इन्फैंट्री, अविनाश मुलिक (आई० सी०-47479) इन्फैंट्री, वेमरु रविन्द्र कुमार (आई० सी०-47493) ए० ई० सी०, श्रीनिवासुलु सोमन्वी (आई० सी०-47517) ए० ई० सी०—19 दिसम्बर, 1989।

जितेन्द्र अविनाश साहाशरावुडे (आई० सी०-47198) आर्टिलरी, अलोक जोशी (आई० सी०-47199) इन्फैंट्री, हरीश भर्खवार (आई० सी०-47201) ए० सी०, रमा कान्त बर्मण (आई० सी०-47202) आर्टिलरी, पी० एम० ब्रीन्दावन लाल (आई० सी०-47203) इन्फैंट्री, बंकेटेशन एम० नायक (आई० सी०-47204) ए० एस० सी०, गजेन्द्रा सिंह सरीन (आई० सी०-47205) इन्फैंट्री, अनिल नेगी (आई० सी०-47207) इंजीनियर, रंजान महाजन, (आई० सी०-47208) इन्फैंट्री, अजय जोशी (आई० सी०-47209) इन्फैंट्री, सुनीत मलिक (आई० सी०-47210) सिगनल, तेजिन्द्र कुमार थापन (आई० सी०-47211) ई० एम० ई०, रणजीत सिंह मलिक (आई० सी०-47212) आर्टिलरी, अशोक कुमार (आई० सी०-47213) इंजीनियर, आर० श्रीनिवास (आई० सी०-47214) आर्टिलरी, मंजय कुमार जैन (आई० सी०-47215) ए० ओ० सी०, हुमायूं मिर्जा (आई० सी०-47216) इन्फैंट्री, प्रमोद कुमार रावत (आई० सी०-47217) इन्फैंट्री, अजय सिंह बेरी

(आई० सी०; 47218) इन्फैंट्री, नरेन्द्र सिंह पंवार (आई० सी० 47219) आर्टिलरी, जी० मणीआलागन (आई० सी०-47221) आर्टिलरी, अंजन कुमार मुखोपाध्याय (आई० सी०-47222) सिगनल, संजीव चौहान (आई० सी०-47223) इन्फैंट्री, प्रमेश शर्मा (आई० सी०-47224) इन्फैंट्री, राहुल सिंह (आई० सी०-47226) मेक०/इन्फैंट्री—19 दिसम्बर, 1989।

प्रमोद कौशिक (आई० सी०-47227) इन्फैंट्री, प्रवीन कुमार जी सथवारा (आई० सी०-47228) इंजीनियर, दलविन्दर सिंह (आई० सी०-47229) इन्फैंट्री, भूपिन्दर सिंह किल्लन (आई० सी०-47230) इन्फैंट्री, मनजीत सिंह (आई० सी०-47231) सिगनल, मनमोहन सिंह बाजवा (आई० सी०-47234) आर्टिलरी, के० रमेश-कुमार (आई० सी०-47235) ई० एम० ई०, हरप्रीत सिंह (आई० सी०-47236) आर्टिलरी, वीरेन्द्र कुमार शर्मा (आई० सी०-47237) ए० एस० सी०, शैलेन्द्र पी० भालेकर (आई० सी०-47238) आर्टिलरी, विजय कुमार परशुराम अवसुले (आई० सी०-47240) इन्फैंट्री, लाल विवेक राज सिंह (आई० सी०-47241) इन्फैंट्री, जोगिन्दर सिंह लकरा (आई० सी०-47242) ए० सी०, प्रकाश कुमार खर्खर (आई० सी०-47244) आर्टिलरी, अजय गौतम (आई० सी०-47245) ए० ओ० सी०, कनवर वीर सिंह (आई० सी०-47246) आर्टिलरी, पीयूष पाण्डेय (आई० सी०-47247) इन्फैंट्री, संदेश शर्मा (आई० सी०-47248) सिगनल, मुन्ना चोपड़ा (आई० सी०-47249) ए० ओ० सी०, पी० केसवावसन (आई० सी०-47250) इन्फैंट्री, शशिकांत यशवन्त जाधव (आई० सी०-47251) इन्फैंट्री, रणदीप पाल सिंह वारैच (आई० सी०-47252) इन्फैंट्री, गजेन्द्र जोशी (आई० सी०-47253) इन्फैंट्री, कुलदीप सिंह विधान (आई० सी०-47254) आर्टिलरी—19 दिसम्बर 1989।

बेबी सी० एम० (आई० सी०-47243) ए० सी०—19 दिसम्बर 1989

राकेश कुमार (आई० सी०-47169) सिगनल, जय-दीप चटर्जी, (आई० सी०-47170) इन्फैंट्री, अजय पाल सिंह रणधावा (आई० सी०-47171) आर्टिलरी, बलवीन सिंह खीगरा (आई० सी०-47172) सिगनल, निकुंज गोयल (आई० सी०-47174) मेक०/इन्फैंट्री, राजेश शर्मा (आई० सी०-47175) ए० ओ० सी०, एम० आर० रविन्द्रन नैयर (आई० सी०-47176) इंजीनियर, आलोक बेरी (आई० सी०-47177) आर्टिलरी, सुरेश कुमार यादव (आई० सी०-47178) इन्फैंट्री, विजय पाल सिंह (आई० सी०-47179) ए० ओ० सी०-धीरज सिंह रघुवंशी (आई० सी०-47180), इन्ट, संजय प्रसाद गुप्ता (आई० सी०-

47181) इन्फैंट्री, अनिल कुमार गुलिया, (आई० सी०-47182) इन्फैंट्री, भूपाल सिंह लटवाल (आई० सी०-47183) इन्फैंट्री, फोसलकार देवदत्ता श्रीकांत (आई० सी०-47184) ए० सी०, मोहन सिंह (आई० सी०-47185) इन्फैंट्री, संतोनु राय (आई० सी०-47186) ई० एम० ई०, पीयूष विष्ट (आई० सी०-47187) ए० एस० सी०, सुरेन्द्र पाल सिंह (आई० सी०-47188) इन्फैंट्री, मृत्युन्जय एस० यरनाल (आई० सी०-47191) आर्टिलरी, राकेश कुमार सिंह (आई० सी०-47192) इन्फैंट्री, दिनेश कुमार मल्होत्रा (आई० सी०-47193) इन्फैंट्री, जोगिन्दर सिंह तंवर (आई० सी०-47194) इन्फैंट्री, संजीव व्याल माथुर (आई० सी०-47195) ई० एम० ई०, आर० पी० एस० गिल (आई० सी०-47196) आर्टिलरी—19 दिसम्बर 1989

जतिन्दर कुमार मेरा (आई० सी०-47143) इन्फैंट्री, सुमित तलवार (आई० सी०-47144) आर्टिलरी, तमल कुमार मुखर्जी (आई० सी०-47145) इन्फैंट्री, मन-दीप सिंह गिल, (आई० सी०-47146) आर्टिलरी, शीरीश भाटिया (आई० सी०-47147) ई० एम० ई०, सुगा मिश्र (आई० सी०-47149) ए० एस० सी०, पंकज सिंह (आई० सी०-47150) इन्फैंट्री, विक्रम यादव (आई० सी०-47151) आर्टिलरी, इकबाल सिंह (आई० सी०-47152) इन्फैंट्री, रनजीव संयाल (आई० सी०-47153) सिगनल, खाण्डेकर संजीव बी० (आई० सी०-47154) इन्फैंट्री, उमेश चन्द्र भट्ट (आई० सी०-47155) ए० ओ० सी०, देविन्दर पाल सिंह, (आई० सी०-47157) इन्फैंट्री, जी० श्री रामा राव (आई० सी०-47157), इन्फैंट्री, जय कुमार एस० (आई० सी०-47158) आर्टिलरी, जोगिन्दर कुमार (आई० सी०-47159) इन्फैंट्री, प्रवेश कुमार शर्मा (आई० सी०-47160) आर्टिलरी, कुनार कश्यप (आई० सी०-47161) आर्टिलरी, सुभांकर राय (आई० सी०-47162) आर्टिलरी, शाहजद सलीम दुरानी (आई० सी०-47163) आर्टिलरी, अजय कादियान (आई० सी०-47164) इन्फैंट्री, सकेतानन्द झा (आई० सी०-47165) ए० सी०, संजय शर्मा (आई० सी०-47166) इंजीनियर, विजय कुमार शर्मा (आई० सी०-47167) सिगनल, निरूप चन्द्रन (आई० सी०-47168) आर्टिलरी—19 दिसम्बर 1989

सुभाष कुमार शर्मा (आई० सी०-47342) सिगनल, विजय विक्रम सिंह बोरा (आई० सी०-47343) इन्फैंट्री, अमरजीत सिंह ओबराय (आई० सी०-47344) आर्टिलरी, ब्रिजेश कुमार धनकर (आई० सी०-47345) इन्फैंट्री, गुरप्रीत मोहन सिंह मिहिरा (आई० सी०-47346) आर्टिलरी, विक्रम उप्पल (आई० सी०-47347) आर्टिलरी, अनुराग गुप्ता (आई० सी०-47348) इन्फैंट्री, राजेश त्यागी (आई० सी०-47351) इन्फैंट्री, एस० एस०

अश्वारिया (सं० आई० सी०-47352) इन्फैंटरी, देवागिरि मुखोपाध्याय (सं० आई० सी०-47353) इंजीनियर, गुर-वश सिंह सन्धू (सं० आई० सी०-47354) ए० एम० सी०, हरमिन्दर प्रीत सिंह (सं० आई० सी०-47356) सिगनल, नविन राय मागो (सं० आई० सी०-47357) ई० एम० ई०, राहुल राय (सं० आई० सी०-47358) आर्टिलरी, मुनिल सेठ (सं० आई० सी०-47361) ए० सी०, इन्द्र मोहन सिंह (सं० आई० सी०-47362) इन्फैंटरी, मनीष कपूर (सं० आई० सी०-47364) इंजीनियर, संजय श्रीवास्तवा (सं० आई० सी०-47365) आर्टिलरी, समीर सिंह (सं० आई० सी०-47367) आर्टिलरी, श्री भगवान शर्मा (सं० आई० सी०-47368) सिगनल, रवि प्रकाश (सं० आई० सी०-47369) ए० एम० सी० कवल जीत सिंह तलवार (सं० आई० सी०-47370) इन्फैंटरी, बलबीर सिंह (सं० आई० सी०-47371) इन्फैंटरी, राज ऋषि शर्मा (सं० आई० सी०-47372) आर्टिलरी, पैनीकर थोमस पी० जी० (सं० सी०-47373) ए० सी०-19 दिसम्बर 89

राकेश आहूजा (सं० आई० सी०-39685) इन्फैंटरी, प्रदीप कुमार राय (सं० आई० सी०-39735) आर्टिलरी, विजय कुमार रामचन्द्र रात्रो पिप्पल (सं० आई० सी०-39776) आर्टिलरी-13 जन 1983

हरिन्द्र दल सिंह सन्धू (सं० आई० सी०-43475) इन्फैंटरी, अनिल गुलियानी (सं० आई० सी०-43498) आर्टिलरी, संजीव विज (सं० आई० सी०-43506) ए० सी०, मोहिन्दर सिंह (सं० आई० सी०-43510) आर्टिलरी, पंकज कौशिक (सं० आई० सी०-43529) आर्टिलरी, अविन्द्र सिंह (सं० आई० सी०-43532) ए० एम० सी०, संजय जोशी (सं० आई० सी०-43548) आर्टिलरी, यू० सी० मेहता (सं० आई० सी०-43561) आर्टिलरी, बी०एस० बाजवा (सं० आई० सी०-43567) आर्टिलरी-प्रगट सिंह (सं० आई० सी०-43570) आर्टिलरी, अमर-ज्योति राय (सं० आई० सी०-43587) आर्टिलरी, के० एन० श्रीकुमार (सं० आई० सी०-43595) ए० सी०, विक्रान्त सिंह (सं० आई० सी०-43596) आर्टिलरी, ए० के० प्राशर (सं० आई० सी०-43599) आर्टिलरी, एस०के० सक्सेना (सं० आई० सी०-43501) इन्फैंटरी, अजित कुमार झा (सं० आई० सी०-43603) ए० एस० सी०-14 दिसम्बर 1987

रणजीत सिंह नट (सं० आई० सी०-47114) ए० एस० सी०, प्रवीर बारिक (सं० आई० सी०-47115) इन्फैंटरी कशीराजन शंकरापाण्डीयन कुमारासन (सं० आई० सी०-47117) इन्फैंटरी, रवि शाह (सं० आई० सी०-47118) इन्फैंटरी, अनिल कुमार बी० के० (सं० आई० सी०-47119) ए० सी०, भूषण लाल (सं० आई० सी०-47120) इन्फैंटरी, अनमोल सूद (सं० आई० सी०-47221) इन्फैंटरी, संजोय मुखर्जी (सं० आई० सी०-47122) सिगनल, जय शंकर प्रसाद (सं० आई० सी०-47124) ई० एम० ई०, अरविन्द

पी० मूलीमेन्ती (सं० आई० सी०-47125) आर्टिलरी, प्रवीण माथुर (सं० आई० सी०-47126) इंजीनियर, अजय तोमर (सं० आई० सी०-47127) ए० एम० सी०, अरुण यादव (सं० आई० सी०-47128) इन्फैंटरी, अनुपम जैन (सं० आई० सी०-47129) आर्टिलरी, दिनेश भण्डारी (सं० आई० सी०-47130) ए० एम० सी०, दीपक कुम्रा (सं० आई० सी०-47131) आर्टिलरी, अमित सूद (सं० आई० सी०-47132) ई० एम० ई०, अविनाश सिंह वरार (सं० आई० सी०-47133) इन्फैंटरी, विक्रम सिंह (सं० आई० सी०-47134) ए० एस० सी०, संदीप कुमार धोष (सं० आई० सी०-47136) ए० ओ० सी०, अजय बक्षी (सं० आई० सी०-47138) इन्फैंटरी, पुष्पेन्द्र पाल सिंह (सं० आई० सी०-47139) इन्फैंटरी, सहज कुमार शाह (सं० आई० सी०-47140) इंजीनियर, राज कुमार अत्री (सं० आई० सी०-47141) ए० एम० सी०-रविन्द्र धनकर (सं० आई० सी०-47142) ई० एम० ई०-19 दिसम्बर 1989

प्रहलाद किसन जेतली (सं० आई० सी०-47374) इन्फैंटरी, शंकर सिंह (सं० आई० सी०-47375) इन्फैंटरी, राहुल चन्द्र (सं० आई० सी०-47377) आर्टिलरी, संजय भूषण (सं० आई० सी०-47378) इन्फैंटरी, उमेश कुमार पंथ (सं० आई० सी०-47379) ई० एम० ई०, पुष्कर प्रसाद (सं० आई० सी०-47380) इंजीनियर, राजिन्द्र कुमार जाराबी (सं० आई० सी०-47382) सिगनल, जगनार सिंह (सं० आई० सी०-47383) आर्टिलरी, अरुण मल्होत्रा (सं० आई० सी०-47384) ए० एस० सी०, राजिन्द्र सिंह शौरन (सं० आई० सी०-47385) ए० एस० सी०, संतोष के० एम० (सं० आई० सी०-47386) ए० ओ० सी०, सुरिन्द्र कुमार शर्मा (सं० आई० सी०-47387) इन्फैंटरी, मंदीप रणघावा (सं० आई० सी०-47388), इन्फैंटरी, अमितावा मुखर्जी (सं० आई० सी०-47389) आर्टिलरी, अरविन्द तोमर (सं० आई० सी०-47390) इन्फैंटरी, आनन्द महलोत्रा (सं० आई० सी०-47392) इन्फैंटरी, संजय लोहे, (सं० आई० सी०-47393) ए० एस० सी०, रणजीत सिंह (सं० आई० सी०-47394) ए० सी०, रोहित सिंगल (सं० आई० सी०-47395) इन्फैंटरी, दिलिप कुमार अल्वार्थी (सं० आई० सी०-47396) इन्फैंटरी, विनय कुमार गुप्ता (सं० आई० सी०-47397) इन्फैंटरी, कुलदीप यादव (सं० आई० सी०-47400) ई० एम० ई०, किरन दीप सिंह (सं० आई० सी०-47401) ई० एम० ई०, राकेश भूटानी (सं० आई० सी०-47403) आर्टिलरी, विक्रम आहलुवालिया (सं० आई० सी०-47404) ए० एस० सी०-19 दिसम्बर 1989।

अरुण नारायण माथुर (सं० आई० सी०-47434) आर्टिलरी, राजेश जगताप (सं० आई० सी०-47435) सिगनल, गोतम मजूमदार (सं० आई० सी०-47436) ए० सी०, राजीव कुमार चौधरी, (सं० आई० सी०-47437) ए० एस० सी०, कृष्णा कुमार सिंह (सं० आई० सी०-47438) इन्फैंटरी, रवि कान्त जोशी (सं० आई० सी०-47442)

ई० एम० ई०, दीपक चतुर्वेदी (सं० आई० सी०-47443) ए० एस० सी०, धरम पाल (सं० आई० सी०-47444) इन्फैंटरी, संजय घोलदीयाल (सं० आई० सी०-47446) ए० सी०, अजय भाह (सं० आई० सी०-47447) मेक/इन्फैंटरी, चांदी प्रसाद शर्मा (सं० आई० सी०-47450) सिगनल, ज्ञान सिंह सिधू (सं० आई० सी०-47451) इन्फैंटरी, अभिजीत मित्रा (सं० आई० सी०-47452) सिगनल, हरेन्द्र मिह (सं० आई० सी०-47454) इन्फैंटरी, यशपाल बनवत (सं० आई० सी०-47455) सिगनल, ओम प्रकाश चौबे (सं० आई० सी०-47456) ए० एस० सी०, विशाल राय (सं० आई० सी०-47457) ए० ओ० सी०, मंजीत सिंह बरार (सं० आई० सी०-47458) आर्टिलरी, अजय धवन (सं० आई० सी०-47459) आर्टिलरी, प्रवीण सिंह (सं० आई० सी०-47460) इन्फैंटरी, पुनीत पासरीचा (सं० आई० सी०-47461) आर्टिलरी, अरविंद एम० गिल (सं० आई० सी०-47462) इन्फैंटरी, रंजीत सिंह बब्बल (सं० आई० सी०-47463) आर्टिलरी, विमल कपूर (सं० आई० सी०-47464) मेक/इन्फैंटरी, संजीव सिंह (सं० आई० सी०-47465) इन्फैंटरी—19 दिसम्बर 1989

नरेन्द्र कुमार (एस० एस०-31339) इन्फैंटरी, अब्राहम अल्कम (एस० एस०-31428) ए० सी०-12 मार्च 1985।

राजेश कुमार श्रीवास्तव (आई० सी०-42656) आर्टिलरी, रविन्द्र पाल सूले (आई० सी०-42662) मेक/इन्फैंटरी—15 दिसम्बर, 1986।

मोहन सिंह (आई० सी०-43217) मेक/इन्फैंटरी, एस० के० कुरेले (आई० सी०-43246) सिगनल, सुमेर सोबती (आई० सी०-43279) ए० सी०, जगदीप सिंह (आई० सी०-43306) आर्टिलरी, दिलबाग सिंह (आई० सी०-43329) आर्टिलरी, यशपाल (आई० सी०-43335) आर्टिलरी, अमरजित सिंह प्रमार (आई० सी०-43336) इन्फैंटरी, काम्बले रामचन्द्र माकति (आई० सी०-43375) आर्टिलरी, श्री० पी० पाण्डे (आई० सी०-43385) आर्टिलरी, ए० के० एस० राठौर (आई० सी०-43386) आर्टिलरी, दिलीप अजवानी (आई० सी०-43405) आर्टिलरी, सुरेन्द्र पावामनी (आई० सी०-43407) आर्टिलरी, विरेन्द्र कुमार सिंह (आई० सी०-43408) इंजीनियर, विक्रम सिंह यादव (आई० सी०-43428) इन्फैंटरी, कवलजीत सिंह (आई० सी०-43436) आर्टिलरी—14 दिसम्बर, 1987।

कैप्टन से मेजर

के० राजन्धन (एस० एल०-2400)—25 जुलाई, 1990।

रघुवीर सिंह,
सी० एस० ओ० ए० प० एम० एस० 8 सी

सं० 79 दिनांक 19 दिसम्बर, 1991—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

(अल्पकालिक कमीशन)

शर्मा मेडीकल कोर

कैप्टन से मेजर (अर्द्धस्थायी)

(श्रीमती) गीथा जे० (एम० एस०-11938 एन)—
21 सितम्बर, 1991।

तनमय सरकार (एम० एस०-11943 बाई०)—21
सितम्बर, 1991।

पूरनेन्द्र शेखर सांरगी (एम० एस०-11945 के)—
21 सितम्बर, 1991।

(श्रीमती) पूनम भक्त (एम० एस०-11946 एम)—
21 सितम्बर, 1991।

सुधीर गर्ग (एम० एस०-11975 एफ)—21 सितम्बर,
1991।

प्रदीप कुमार चंदेला (एम० एस०-12101 ए)—
25 दिसम्बर, 1991।

ओमप्रकाश आस्माराम बड़ेकर (एम० एस०-11957
बाई०)—7 अक्टूबर, 1991।

भूपेन्द्र प्रसाद सिंह (एम० एस०-11963 एम)—
20 अक्टूबर, 1991।

सन्तोष कुमार जेना (एम० एस०-11983 ए)—
4 अक्टूबर, 1991।

काजबा चन्द्रशेखरीया अरविंद (एम० एस०-11990
डब्ल्यू)—23 अक्टूबर, 1991।

सुनिल कुमार (एम० एस०-12005 एल)—4 अक्टूबर,
1991।

मोहिष्वर रीगन (एम० एस०-12020 ए)—22
अक्टूबर, 1991।

विपुल कुमार (एम० एस०-12022 एल)—29 अक्टूबर,
1991।

बसुजीत गंगोउपाध्याय (एम० एस०-12028 एम)—
24 अक्टूबर, 1991।

ओम प्रकाश महेश्वरी (एम० एस०-12040 एन)—
1 अक्टूबर, 1991।

(श्रीमती) आनंदमई सिन्हा (एम० एस०-12189 पी)
—6 अक्टूबर, 1991।

लेफ्टिनेंट से कैप्टन (परखपर) के रैंक में

एस० सुवालई मुथु (एम० एस०-12345 एन) ए०
एम० सी०—1 सितम्बर, 1991।

फ्लाइट लेफ्टीनेंट से स्कवड्रन लीडर (अर्द्धस्थायी)
के रैंक में।

राजासेखरा अडिगा एच० आर० (एम० सं०—12209
एक्स) (18847) ए० एम० सी०—21 सितम्बर, 1991।
सर्जन लेफ्टीनेंट से सर्जन ले० कमांडर (अर्द्धस्थायी)
के रैंक में (परब पर)

परबिन्द्र सिंह अहलूवालिया (एम० एस०—12238 एम)
(75444 एन) ए० एम० सी०—10 नवम्बर, 1991।

एयर कमीडोर से एयर वाइस मार्शल

डी० पी० सरकार (5491) (एम० आर०—996)
सैनिक डाक्टर कोर/पी० सी०—16 मई, 1990 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना—14 दिसम्बर, 1989)।

वी० के० सिघल (5535) (एच० आर०—1422)
सैनिक डाक्टर कोर/पी० सी०—30 नवम्बर, 1990
(ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना—
1 अक्टूबर, 1990)।

ब्रिगे० से मेजर जनरल

डी० जे० मुखर्जी (एच० आर०—1002) सैनिक
डाक्टर कोर/पी० सी०—1 मई, 1990 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना—16 दिसम्बर, 1989)।

(इस अफसर से सम्बन्धित राज पत्र अधिसूचना सं०
582 दिनांक 27 मार्च, 1991, प्रकाशित तिथि
1 जून, 1991 को रद्द समझा जाए)।

एम० के० सेठ (एच० आर०—1001) सैनिक डाक्टर
कोर/पी० सी०—16 मई, 1990 (ज्येष्ठता उनके वेतन व
पेंशन पर प्रभाव डाले बिना—15 दिसम्बर, 1989)।

(इस अफसर से सम्बन्धित राज पत्र अधिसूचना सं०
1115 दिनांक 5 जुलाई, 1991 प्रकाशित तिथि
28 सितम्बर, 1991 को रद्द समझा जाए)।

एम० चक्रावर्ति (एच० आर०—1317) सैनिक डाक्टर
कोर/पी० सी०—28 जून, 1990 (ज्येष्ठता उनके वेतन
व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना—17 दिसम्बर, 1989)।

(इस अफसर से सम्बन्धित राज पत्र अधिसूचना सं०
88 दिनांक 7 जनवरी, 1991, प्रकाशित तिथि
2 मार्च, 1991 को रद्द समझा जाए)।

ग्रुप कैप्टन से एयर कमांडोर

एस० के० अदावल (6486) (एच० आर०—1784)
सैनिक डाक्टर कोर/पी० सी०—7 मार्च, 1990 (ज्येष्ठता
उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना—)

एस० पी० वर्मा (6466) (एच० आर०—1787)
सैनिक डाक्टर कोर/पी० सी०—1 अप्रैल, 1991 (ज्येष्ठता
उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना—4 अक्टूबर,
1990)।

के० एन० प्रभाकर (6159) (एच० आर०—1642)
सैनिक डाक्टर कोर/पी० सी०—17 दिसम्बर, 1990
(ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना—
4 अक्टूबर, 1990)।

कनल से ब्रिगे०

पी० एल० घोष (एच० आर०—1439) सैनिक
डाक्टर कोर/पी० सी०—29 नवम्बर, 1990 (ज्येष्ठता
उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना—4 अक्टूबर,
1990)।

(इस अफसर से सम्बन्धित राज पत्र अधिसूचना सं०
582 दिनांक 27 मार्च, 1991 प्रकाशित तिथि
1 जून, 1991 को रद्द समझा जाए)।

एस० पी० चट्टोपाध्याय (एच० आर०—1770)
सैनिक डाक्टर कोर/पी० सी०—28 फरवरी, 1990
(ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना—
17 जनवरी, 1990)।

(इस अधिकारी से सम्बन्धित राज पत्र अधिसूचना
सं० 582 दिनांक 27 मार्च, 1991 प्रकाशित तिथि
11 जून 1991 को रद्द समझा जाए)।

पी० के० सरकार (एच० आर०—1622) सैनिक
डाक्टर कोर/पी० सी०—1 नवम्बर, 1990 (ज्येष्ठता
उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना—4 अक्टूबर,
1990)।

(राज पत्र अधिसूचना सं० 1115 दिनांक 5 जुलाई,
1991 प्रकाशित हुई दिनांक 28 सितम्बर, 1991
इस अधिकारी के सम्बन्ध में रद्द समझा जाए)।

एन० के० मुन्जा (एच० आर०—1374) सैनिक डाक्टर
कोर/पी० सी०—8 फरवरी, 1991 (ज्येष्ठता उनके
वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना—4 अक्टूबर, 1990)।

(इस अफसर से सम्बन्धित राज पत्र अधिसूचना सं०
1115 दिनांक 5 जुलाई, 1991, प्रकाशित तिथि
28 सितम्बर, 1991 को रद्द समझा जाए)।

बी० सिंह (एच० आर०—1828) सैनिक डाक्टर कोर/
पी० सी०—8 मार्च, 1991 (ज्येष्ठता उनके वेतन व
पेंशन पर प्रभाव डाले बिना—4 अक्टूबर, 1990)।

(इस अधिकारी से सम्बन्धित राज पत्र अधिसूचना
सं०—1115 दिनांक 5 जुलाई, 1991 प्रकाशित
तिथि 28 सितम्बर, 1991 को रद्द समझा जाए)।

पी० के० दत्ता (एच० आर०—1449) सैनिक डाक्टर
कोर/पी० सी०—17 अक्टूबर, 1990 (ज्येष्ठता उनके
वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना—4 अक्टूबर, 1990)।

(इस अधिकारी से सम्बन्धित राज पत्र अधिसूचना
सं०—1115 दिनांक 5 जुलाई, 1991 प्रकाशित तिथि
28 सितम्बर, 1991 को रद्द समझा जाए)।

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन

एम० जी० गोस्वामी (7280) (एम० आर०-1584)
सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी०-19 दिसम्बर, 1988
(ज्येष्ठता) उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना—
2 दिसम्बर, 1988 ।

के० पी० दास (8933) (एम० आर०-2410)
सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी०-5 जनवरी, 1989 ।

ले० कर्नल से कर्नल

एम० जे० शमसी (एम० आर०-2289) सैनिक
डाक्टरी कोर पी० सी०-31 मार्च, 1989 (ज्येष्ठता)
उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना—15 फरवरी,
1989 ।

(इस अफसर से सम्बन्धित राजपत्र अधिसूचना सं०
87 दिनांक 27 जनवरी, 1991 प्रकाशित तिथि
2 मार्च, 1991 को रद्द समझा जाए) ।

के० वी० वी० ए० शर्मा (एम० आर०-2296)
सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी०-28 दिसम्बर, 1988
(ज्येष्ठता) उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना—
17 फरवरी, 1988 ।

(इस अफसर से सम्बन्धित राजपत्र अधिसूचना सं०
1417 दिनांक 26 सितम्बर, 1990, प्रकाशित तिथि
10 नवम्बर, 1990 को रद्द समझा जाए) ।

एम० महापात्रा (एम० आर०-01922 पी) सैनिक
डाक्टरी कोर/पी० सी०-6 अक्टूबर, 1988 (ज्येष्ठता)
उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना—14 दिसम्बर,
1987 ।

डी० सी० बोरुआ (एम० आर०-2035) सैनिक
डाक्टरी कोर/पी० सी०-23 मई, 1988 (ज्येष्ठता) उनके
वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना—5 दिसम्बर, 1986 ।

के० बी० नयर (एम० आर०-2714) सैनिक डाक्टरी
कोर/पी० सी०-1 जून, 1991 ।

डी० जे० मुखर्जी,
मेजर जनरल, स्था० उप म० नि० सं० मे० नि० से०

स्थायी सेना अस्थायी कमीशन

सं० 80, दिनांक 24 जनवरी, 1992—राष्ट्रपति
द्वारा सेना डाक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके
नाम के सम्मुख लिखित तिथि से कमीशन छोड़ने के बाद

अपना पद जैसा कि उनके नाम के सामने लिखा है, बनाये
रखने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

अफसरों का विवरण	कमीशन छोड़ने की तिथि	कमीशन छोड़ने के बाद का पद
टी० सी०-31221 एन, त्रिनेडियर केशवभाई प्रेमचन्द्र मेहवाल (ए० एन०)	31-8-91	त्रिनेडियर
टी० सी०-31220 एन कर्नल रामस्वरूप करीर (ए० एन०)	11-11-91	कर्नल
टी० सी०-31390 पी, कर्नल शोखर कुमार सेन (ए० एन०)	28-10-91	कर्नल
टी० सी०-31284 डब्ल्यू, मेजर अनाशी अप्पम रंगास्वामी (एफ० एन०)	1-11-91	मेजर
टी० सी०-31335 बाई, मेजर चिन्ता ओबुलेसु	30-9-91	मेजर

प्रकाश चन्द, अव्वर सचिव

(जी० एम० शाखा)

सं० 81, दिनांक 13 जनवरी, 1992—निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड सी (पी० ए०) सीमित विभागिय परीक्षा, 1990 के आधार पर, उनके नाम के आगे वर्गीय गृहीत तारीख से ए० एफ० एच० क्यू० आशुलिपिक सेवा में आशुलिपिक ग्रेड बी (पी० एस०) (राजपत्रित-ग्रुप बी) के पद पर नियुक्त किया जाता है :—

श्रीमती एस० ललिता देवी—17 दिसम्बर, 1991 (पूर्वाह्न) ।

श्री राज कुमार—24 दिसम्बर, 1991 (पूर्वाह्न) ।

एस० लोगनाथन,
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्र)

(थल सेना विभाग)

सं० 82, दिनांक 8 जनवरी 1992—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियों करते हैं :—

नियमित सेना

कोर आफ सिगनल्स

सूबेदार (बाई ऑफ एस) के रैंक में

नाथन सूबेदार लाल बहादुर त्रिपाठी (जे० सी०-133083 एल)—1 जुलाई, 1991 ।

नाथन सूबेदार गुरदयाल सिंह नामरा (जे० सी०-133100 ए)—1 अगस्त, 1991 ।

नायब सूबेदार अमर नाथ (जे० सी०-133103 एन)
--1 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार दीना नाथ (जे० सी०-133106 एफ)
--1 सितम्बर, 1991।

नायब सूबेदार वीरेन्द्र कुमार शर्मा (जे० सी०-133108 एम)--1 सितम्बर, 1991।

नायब सूबेदार राम रतन सिंह (जे० सी०-135208 डब्ल्यू)--1 दिसम्बर, 1991।

सूबेदार (एफ० ऑफ़ एस०) के रैंक में

नायब सूबेदार मल्लिकार्जुन राव बलोजू (जे० सी०-145936 के)--1 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार अवतार मिह (जे० सी०-145948 वाई)--1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार जकारिया बख्श (जे० सी०-145949 एफ)--1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार गोपाल मदन प्रसाद (जे० सी०-145950 डब्ल्यू)--1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार काली चरन त्रिपाठी (जे० सी०-145952 एफ)--1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार जग रोशन (जे० सी०-145953 के)--1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार तोशनवर कुमार शर्मा (जे० सी०-145955 पी)--1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार राम चन्द्र शिवरन (जे० सी०-149700 एम)--1 दिसम्बर, 1991।

सूबेदार (ओ०पी० साईफर) के रैंक में

नायब सूबेदार दामोदरन पिल्लई रविन्द्र पिल्लई (जे० सी०-153909 पी)--1 दिसम्बर 1990।

नायब सूबेदार पी० श्री कृष्णन (जे० सी०-162511 एफ)--1 मार्च 1991।

नायब सूबेदार नित्या नन्ध लेन्गा (जे० सी०-166550 एकम)--1 जून 1991।

नायब सूबेदार राम अवतार सिंह त्यागी (जे० सी०-168145 वाई)--1 नवम्बर 1991।

नायब सूबेदार भुरत सिंह (जे० सी०-172862 के)--1 नवम्बर 1991।

नायब सूबेदार नारायण राम (जे० सी०-168146 एफ)--1 नवम्बर 1991।

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी०-168148 एम)--1 दिसम्बर 1991।

नायब सूबेदार रघवीर सिंह (जे० सी०-168149 पी) 1 दिसम्बर 1991।

5-464GI/91

नायब सूबेदार केवल सिंह (जे० सी०-172863 एम)
--1 दिसम्बर 1991।

नायब सूबेदार अमीर सिंह (जे० सी०-168151 एम)
--1 दिसम्बर 1991।

नायब सूबेदार शुभ राम (जे० सी०-172864 पी)--1 दिसम्बर 1991।

नायब सूबेदार (ओ०पी० स्पेशल) के रैंक में

नायब सूबेदार मम चन्द कौणिक (जे० सी०-172251 पी)--1 जुलाई 1991।

नायब सूबेदार पूरन सिंह (जे० सी०-173649 डब्ल्यू)--1 नवम्बर 1991।

नायब सूबेदार के० पी० सिन्हा (जे० सी०-177635 एन)--1 नवम्बर 1991।

नायब सूबेदार हरी सिंह चौहान (जे० सी०-173650 एल)--1 नवम्बर 1991।

नायब सूबेदार हरी नारायण सिंह (जे० सी०-177636 डब्ल्यू)--1 नवम्बर 1991।

नायब सूबेदार शंकरन नायर ए (जे० सी०-172268 एच)--1 दिसम्बर 1991।

नायब सूबेदार सूर्य नारायण (जे० सी०-173653 वाई)--1 दिसम्बर 1991।

नायब सूबेदार श्रीनिवास शर्मा (जे० सी०-173654 एफ)--1 दिसम्बर 1991।

नायब सूबेदार जसबन्त सिंह राजपूत (जे० सी०-172269 एल)--1 दिसम्बर 1991।

नायब सूबेदार ताफ़ चन्द (जे० सी०-173655 के)--1 दिसम्बर 1991।

नायब सूबेदार तारा चन्द (जे० सी०-173656 एम)--1 दिसम्बर 1991।

सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार अजय सिंह (जे० सी०-161162 डब्ल्यू)--1 जुलाई 1991।

नायब सूबेदार खेम चन्द्र (जे० सी०-162516 ए)--1 जुलाई 1991।

नायब सूबेदार कान्त राम यादव (जे० सी०-163341 पी)--1 अगस्त 1991।

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी०-166563 पी)--1 नवम्बर 1991।

नायब सूबेदार पारस नाथ सिंह (जे० सी०-166564 एकम)--1 नवम्बर 1991।

नायब सूबेदार चनन सिंह ठाकुर (जे० सी०-168165 एम)--1 नवम्बर 1991।

नायब सूबेदार सन्तोष सिंह (जे० सी०-168166 पी)
--1 नवम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार सी० एम० सुभन (जे० सी०-168167
एक्स)--1 नवम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार के० सी० राना (जे० सी०-168168
ए)--1 नवम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार मंगल सिंह (जे० सी०-168169 एच)
--1 नवम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार जोगिन्दर राम जरिया (जे० सी०-
168170 एक्स)--1 नवम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार कृष्णन कुट्टी नायर जे० (जे० सी०-
172886 एन)--1 नवम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार नन्ध राम गेरावत (जे० सी०-172887
डब्ल्यू)--1 नवम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार अमृत लाल (जे० सी०-172888 एक्स)
--1 नवम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार के० मिश्ररामन (जे० सी०-172894
एम)--1 नवम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र हाजरा (जे० सी०-173659
ए)--1 नवम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार नन्द किशोर सैनी (जे० सी०-173660
पी)--1 नवम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार बसावनप्पा मदनभावी (जे० सी०-
173661 एक्स)--1 नवम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार करतार सिंह (जे० सी०-180970
एच)--1 नवम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार बीरम लाल (जे० सी०-173662 ए)
--1 नवम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार वामु सी० (जे० सी०-173664 एल)
--1 नवम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार मुख देव प्रसाद (जे० सी०-173665
एन)--1 नवम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार मुख्तियार सिंह (जे० सी०-172273
एन)--1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार किशोरी मोहन सिंह (जे० सी०-177608
के)--1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार हरि लाल सिंह यादव (जे० सी०-
177609 एम)--1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार सुख देव कोरे (जे० सी०-177610
एफ)--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार शम्भू राम (जे० सी०-177612 एम)
--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार नरोत्तम सिंह (जे० सी०-177613 पी)
--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार जगफूल सिंह (जे० सी०-177614
एक्स)--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार भारगवन सी० डी० (जे० सी०-177616
एच)--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार एम० सुब्बु रामन (जे० सी०-180971
एल)--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार वकील पाण्डेय (जे० सी०-177617
एल)--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार ओमेन के० टी० (जे० सी०-177618
एन)--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार एम० सीथापथी (जे० सी०-177619
डब्ल्यू)--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार कैल सिंह (जे० सी०-177620 एल)
--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार दुर्गा राम (जे० सी०-177621 एच)
--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार राम स्वार्थ महतो (जे० सी०-180973
डब्ल्यू)--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद (जे० सी०-177623
वाई)--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार सतीश कुमार (जे० सी०-177624
एच)--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार श्रवण कुमार (जे० सी०-180975
एफ)--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार मुखराम सिंह (जे० सी०-180972 एन)
--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जे० सी०-180976 के)
--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार धीरेन्द्र कुमार सिंह (जे० सी०-180978
पी)--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार एम० विश्वमभरम (जे० सी०-177628
एक्स)--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार धयनी भागीरथी पात्रो (जे० सी०-
180979 एक्स)--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार पी० के० रामानुजन नायर (जे० सी०-
180980 एम)--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार राम लाल (जे० सी०-180982 एक्स)
--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार बालन बलिया पश्मबाथ (जे० सी०-
180983 ए)--1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार कल्प नाथ शुक्ला (जे० सी०-180984 एच)---1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार थंकाप्पन एन० (जे० सी०-180986 एन)---1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार गजेन्द्र नाथ बोरा (जे० सी०-180989 एफ)---1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार राम फल रणमिया (जे० सी०-180991 बाई)---1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह रावत (जे० सी०-180992 एफ)---1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार राज कुमार शर्मा (जे० सी०-180993 के)---1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार हसन बाण्णा हुक्की (जे० सी०-180994 एम)---1 दिसम्बर, 1991।

सूबेदार (एस० के० टी०) के रैंक में

नायब सूबेदार चन्द्र मोहन झा (जे० सी०-166328 डब्ल्यू)---1 नवम्बर, 1991।

जी० डी० नांगल,
अवर सचिव

(थल सेना विभाग)

सं० 83, दिनांक 8 जनवरी, 1992---राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :---

नियमित सेना

कोर आफ सिग्नल्स

सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार राम गोपाल (जे० सी०-162392 एन)---1 मार्च, 1991।

नायब सूबेदार सुदेश कुमार (जे० सी०-162622 बाई)---1 मार्च, 1991।

नायब सूबेदार सरवन सिंह (जे० सी०-162623 एफ)---1 मार्च, 1991।

नायब सूबेदार असोक कुमार होर (जे० सी०-162828 डब्ल्यू)---1 मई, 1991।

नायब सूबेदार गुरवेव सिंह (जे० सी०-163514 एफ)---1 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार सुभा चन्द (जे० सी०-165136 एम)---1 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार बुधुसेरी बीट्टील रविन्द्रन (जे० सी०-165137 पी)---1 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार राजी उल्लाह (जे० सी०-165140 पी)---1 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार नन्द लाल (जे० सी०-165143 एच)---1 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार धरम सिंह (जे० सी०-165148 एफ)---1 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार रघुनाथन (जे० सी०-165149 के)---1 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०-165150 बाई)---1 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार रतन सिंह (जे० सी०-165151 एफ)---1 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार अवध नारायण सिंह (जे० सी०-165152 के)---1 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार शिवनप्पा अलगावडी (जे० सी०-165154 पी)---1 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार परमा नन्द राय (जे० सी०-165156 ए)---1 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार परशुराम तिवारी (जे० सी०-165158 एल)---1 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार अजमेर सिंह (जे० सी०-165159 एन)---1 सितम्बर, 1991।

नायब सूबेदार बृज मोहन चौधरी (जे० सी०-165160 एच)---1 सितम्बर, 1991।

नायब सूबेदार वैजू नाथ झा (जे० सी०-165161 एल)---1 सितम्बर, 1991।

नायब सूबेदार रोनकी राम (जे० सी०-165163 डब्ल्यू)---1 सितम्बर, 1991।

नायब सूबेदार धन सिंह, एम० एम० (जे० सी०-165167 एम)---1 सितम्बर, 1991।

नायब सूबेदार केसर सिंह (जे० सी०-165168 पी)---1 सितम्बर, 1991।

नायब सूबेदार तन्द कुमार (जे० सी०-165170 एम)---1 सितम्बर, 1991।

नायब सूबेदार पृथ्वी सिंह (जे० सी०-165172 एक्स)---1 सितम्बर, 1991।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०-165173 ए)---1 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार तरसेम सिंह (जे० सी०-165175 एल)---1 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जे० सी०-165178 बाई)---1 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार कैलमबेथ दिवाकरन (जे० सी०-165179 एफ)---1 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार रुद्र नाथ मिश्रा (जे० सी०-165181
वाई)--1 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार भाधू राम (जे० सी०-165182 एफ)
--1 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार रघवीर सिंह (जे० सी०-165183
के)--1 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार राम करन भारद्वाज (जे० सी०-165184
एम)--1 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार पान सिंह गौटेला (जे० सी०-165185
पी)--1 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार राम स्वरूप (जे० सी०-165186 एक्स)
--1 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार सुरमीत सिंह (जे० सी०-165187 ए)
--1 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार राम देव सिंह यादव (जे० सी०-
165189 एल)--1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार जम्बुलिगम नागालिगुम (जे० सी०-
165190 ए)--1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार सीता राम (जे० सी०-165191 एच)
--1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार आदर्श कुमार (जे० सी०-165192
एल)--1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार श्याम सुन्दर शर्मा (जे० सी०-165193
एन)--1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार बालिस्टर सिंह त्यागी (जे० सी०-165195
वाई)--1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार सूर्यमणि पाण्डेय (जे० सी०-165197
के)--1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह गांधी (जे० सी०-165198
एम)--1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार साहेब राव तुफाराम अबहले (जे० सी०-
165211 एल)--1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार नफे सिंह (जे० सी०-165212 एन)
--1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार ध्यान सिंह नेगी (जे० सी०-165214
वाई)--1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार हनुमान सिंह (जे० सी०-165217 एम)
--1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार कौशल कुमार सिंह (जे० सी०-166338
ए)--1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार देव राज शर्मा (जे० सी०-166339
एच)--1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-166340 एक्स)
--1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार हरी राम (जे० सी०-166341 ए)--
1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार गोविन्दन बिश्वनाथन (जे० सी०-166343
एल)--1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार विष्णु कुमार राय (जे० सी०-166344
एल)--1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार जमपाल सिंह (जे० सी०-166345
डब्ल्यू)--1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार कन्हैया सेठ (जे० सी०-166346 वाई)
--1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार मुन्शी लाल (जे० सी०-166347 एफ)
--1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार चैतन्य परमाणिक (जे० सी०-166348
के)--1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार रतन चन्द (जे० सी०-166349 एम)
--1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार देव दत्त शर्मा (जे० सी०-166351 के)
--1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार बृज लाल परमार (जे० सी०-166355
ए)--1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार नगर सिंह (जे० सी०-166363 वाई)
--1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार कृष्णा सामी गुरुसामी (जे० सी०-
166369 ए)--1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार मस्त राम (जे० सी०-166370 पी)
--1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार साहेब सिंह (जे० सी०-166371 एक्स)
--1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार नारायण चन्द शर्मा (जे० सी०-165766
एम)--1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार चन्द राम जम्वाणी (जे० सी०-166374
एल)--1 दिसम्बर, 1991।

जी० डी० नागल,
अधर सचिव

बल सेना विभाग

सं० 84 दिनांक 21 जनवरी, 1992—राष्ट्रपति,
निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

कोर आफ मिलिटरी पुलिस

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार दिवान सिंह (सं० 7765939 एक्स अब
जे० सी०-210110 एम)---20 मई, 1991 ।*

हवलदार जसबीर सिंह (सं० 7766066 के अब जे०
सी०-210111 पी)---10 मई, 1991 ।*

हवलदार दलबीर सिंह (सं० 7766116 के अब जे०
सी०-210112 एक्स)---27 मार्च, 1991 ।*

हवलदार रामा कृष्णा मुनीयान्डी (सं० 7766199 ए
अब जे० सी०-210113 ए)---2 मई, 1991 ।*

हवलदार राधे श्याम (सं० 7766852 एच अब जे०
सी०-210114 एच)---2 मई, 1991 ।*

हवलदार मिलाप चन्व (सं० 7766924 एफ अब
जे० सी०-210115 एल)---27 अप्रैल, 1991 ।*

हवलदार कैलाश धान (सं० 7766459 ए अब जे०
सी०-210116 एन)---3 मई, 1991 ।*

हवलदार जर्नेल सिंह (सं० 7767076 ए अब जे०
सी०-210117 डब्ल्यू)---17 मई, 1991 ।*

हवलदार राज मनी (सं० 2964498 पी अब जे०
सी०-210118 वाई)---3 मई, 1991 ।*

हवलदार इन्दर सिंह (सं० 3966488 ए अब जे०
सी०-210119 एफ)---27 मार्च, 1991 ।*

हवलदार राज कुमार (सं० 7766245 के अब जे०
सी०-210120 डब्ल्यू)---1 मई, 1991 ।*

हवलदार सूरज भान (सं० 7766135 पी अब जे०
सी०-210121 वाई)---2 मई, 1991 ।×

हवलदार बलदेव सिंह (सं० 7767491 एफ अब जे०
सी०-210122 एफ)---1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार प्रभु राम (सं० 7767499 एन अब जे०
सी०-210123 के)---1 मई, 1991 ।

हवलदार कृष्णन ग्रन्थनापुन्हा (सं० 7767513 पी अब
जे० सी०-210124 एम)---1 मई, 1991 ।

हवलदार रत्ती राम (सं० 1245555 वाई अब जे०
सी०-210125 पी)---1 मई, 1991 ।

हवलदार हरा नाथ सिंह (सं० 7767282 के अब जे०
सी०-210126 एक्स)---1 मई, 1991 ।

हवलदार सूर्यवंशी औडुम्बर (सं० 7766374 के अब
जे० सी०-210127 ए)---1 मई, 1991 ।

हवलदार बाथवान राम (सं० 7766461 एक्स अब
जे० सी०-210128 एच)---1 मई, 1991 ।

हवलदार इदायुम कन्दियाल मोहनन नारम्बयार (सं०
7766546 एन अब जे० सी०-210129 एल)---1 मई,
1991 ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1991 से
दी जाएगी) ।

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से
दी जाएगी) ।

हवलदार बालेश्वर ठाकुर (सं० 7766838 डब्ल्यू अब
जे० सी०-210130 ए)---1 मई, 1991 ।

हवलदार मुरकुटे श्री हरी (सं० 7767466 एच अब
जे० सी०-210131 एच)---1 मई, 1991 ।

हवलदार प्रेम सिंह रावत (सं० 7767416 एल अब
जे० सी०-210132 एल)---1 मई, 1991 ।

हवलदार राम सिंह नेगी (सं० 8019197 एन अब
जे० सी०-210133 एन)---1 मई, 1991 ।

हवलदार पृथ्वी सिंह (सं० 8020221 एल अब जे०
सी०-210134 डब्ल्यू)---1 मई, 1991 ।

हवलदार बाला राम मिश्रा (सं० 8020351 एन अब
जे० सी०-210135 वाई)---1 मई, 1991 ।

हवलदार विजय प्रताप सिंह (सं० 7765967 के अब
जे० सी०-210136 एफ)---1 मई, 1991 ।

हवलदार बामुदेव मिश्रा (सं० 7766945 एच अब
जे० सी०-210137 के)---1 मई, 1991 ।

हवलदार तेज पाल सिंह (सं० 7767470 एल अब
जे० सी०-210138 एम)---1 मई, 1991 ।

हवलदार गुरनाम सिंह (सं० 7767390 एन अब जे०
सी०-210139 पी)---1 मई, 1991 ।

हवलदार नन्द कुमार पाठक (सं० 7766644 एन अब
जे० सी०-210140 के)---1 मई, 1991 ।

हवलदार गामा प्रभाद यादव (सं० 7767481 एक्स
अब जे० सी०-210141 एम)---16 जून, 1991 ।%

हवलदार ललन प्रसाद (सं० 7766290 डब्ल्यू अब
जे० सी०-210142 पी)---31 मई, 1991 ।

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1991 से
दी जायेगी) ।

इन्फैन्ट्री

मेकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बलवन्त सिंह (जे० सी०-127228 पी)---
1 जून, 1991 ।

सूबेदार किरित कुमार पान्ड्या (जे० सी०-120426
एक्स)---1 जून, 1991 ।

नायब सूबेदार गबर सिंह (जे० सी०-168722 ए)---
1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह रावत (जे० सी०-
168723 एच)---1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार नरिन्दर सिंह (जे० सी०-151540
डब्ल्यू)---1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी०-151541
वाई)---1 अप्रैल, 1991 ।

नायब सूबेदार चिरंजी लाल (जे० सी०-140630
एक्स)---1 मई, 1991 ।

नायब सूबेदार खिलाप सिंह रावत (जे० सी०-168725
एन)---1 जून, 1991 ।

नायब सूबेदार गुरदीप सिंह (जे० सी०-151548 एच)
---1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार जन्त सिंह (जे० सी०-154916 एक्स)
---1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जे० सी०-154924
डब्ल्यू)---1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार संगारा सिंह (जे० सी०-168731 एफ)
---1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार गोवर्धन राम (जे० सी०-157210
एन)---1 मई, 1991 ।

नायब सूबेदार किशोरी लाल (जे० सी०-164918
डब्ल्यू)---29 जून, 1991 ।

नायब सूबेदार युधवीर सिंह (जे० सी०-167128 एम)
---1 जुलाई, 1991 ।

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक रणजित सिंह (जे० सी०-
141455 ए)---1 जून, 1991 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार पदम प्रसाद गुंथ (जे० सी०-157222
एच)---1 दिसम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार पूर्ण प्रसाद गुंथ (जे० सी०-157223
एल)---19 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार छाबी लाल राना (जे० सी०-160845
एक्स)---1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार शेर जंग राना (जे० सी०-160846
ए)---1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार राम सिंह गुंथ (जे० सी०-160847
एच)---1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार वसन्ता बहापुर थापा (जे० सी०-
160848 एल)---1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार शूर सिंह (जे० सी०-170327 एल)---
1 जुलाई, 1991 ।

नायब सूबेदार नर सिंह (जे० सी०-157214 के)---
01 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार अर्जुन सिंह (जे० सी०-157215 एम)---
01 जून, 1991 ।

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द (जे० सी०-157216 पी०)---
01 जून, 1991 ।

नायब सूबेदार हरदेव सिंह (जे० सी०-140632 एच०)---
01 जुलाई, 1991 ।

नायब सूबेदार राम मिलन पाण्डे (जे० सी०-164479
डब्ल्यू०)---01 जुलाई, 1991 ।

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) रामेश्वर दयाल (जे० सी०-105825
के)---01 अगस्त, 1991 ।

मेकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार संजय तामांग (जे० सी०-101256 के)---
01 जुलाई, 1991 ।

सूबेदार पदम सिंह (जे० सी०-101927 एच०)---
01 जुलाई, 1991 ।

सूबेदार शेर बहापुर थापा (जे० सी०-105908 पी०)---
01 जुलाई, 1991 ।

सूबेदार देश राज सिंह (जे० सी०-116439 एक्स०)---
01 जुलाई, 1991 ।

सूबेदार उमेश सिंह (जे० सी०-115937 एक्स०)---
01 अगस्त, 1991 ।

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक कैलाश चन्व रनवेव (जे० सी०-
141456 एच०)---01 अगस्त, 1991 ।

नायब सूबेदार लिपिक गुरचरन कुमार शर्मा (जे० सी०—143519 वाई०)—01 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार लिपिक बन्शीधर सीरवाटा (जे० सी०—143522 वाई०)—01 अगस्त, 1991।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भानूदाम सावन्त (जे० सी०—154905 एल०)—20 जुलाई, 1991।

नायब सूबेदार चवान मर्जेराय शंकर (जे० सी०—154906 एन०)—20 जुलाई, 1991।

नायब सूबेदार भोटे रंगाराव गणपति (जे० सी०—152364 डब्ल्यू०)—01 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार बालकृष्णा अकोबा भोसले (जे० सी०—158967 एच०)—18 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे० सी०—145304 वाई०)—01 मई, 1990।

नायब सूबेदार कुलवन्त सिंह (जे० सी०—142892 एम०)—01 सितम्बर, 1990।

नायब सूबेदार महान सिंह (जे० सी०—144824 एक्स०)—01 दिसम्बर, 1990।

नायब सूबेदार भारत सिंह (जे० सी०—151094 ए)—01 दिसम्बर, 1990।

नायब सूबेदार त्रिलोक सिंह (जे० सी०—157768 एच०)—01 जनवरी, 1991।

नायब सूबेदार मनवर सिंह (जे० सी०—174054 एल०)—20 अप्रैल, 1991।

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी०—157769 एल०)—23 अप्रैल, 1991।

नायब सूबेदार राम फल (जे० सी०—174055 एन०)—23 अप्रैल, 1991।

नायब सूबेदार हनुमान सिंह (जे० सी०—157221 ए)—01 जून, 1991।

नायब सूबेदार भीम बहादुर थापा (जे० सी०—174056 डब्ल्यू०)—15 जून, 1991।

नायब सूबेदार गबर सिंह (जे० सी०—147287 एच०)—01 जुलाई, 1991।

नायब सूबेदार चन्द्रा सिंह (जे० सी०—157771 एच०)—01 जुलाई, 1991।

सूबेदार नारायणन (जे० सी०—116442 एक्स०)—01 सितम्बर, 1991।

सूबेदार नारायण सिंह (जे० सी०—126510 एन०)—01 अक्टूबर, 1991।

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक घन्मडा राम (जे० सी०—144535 एच०)—01 सितम्बर, 1991।

नायब सूबेदार लिपिक गोपाल बत्त नौलिया (जे० सी०—144539 वाई०)—01 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार लिपिक मुशील कुमार (जे० सी०—144540 एन०)—01 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार लिपिक रोहतास सिंह चौहान (जे० सी०—154929 पी०)—01 अक्टूबर, 1991।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रूप सिंह (जे० सी०—144952 पी०)—01 जुलाई, 1991।

नायब सूबेदार प्रकाश चन्व (जे० सी०—174057 एक्स०)—19 जुलाई, 1991।

नायब सूबेदार चन्दन के (जे० सी०—174058 एफ०)—21 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार रघुबिर सिंह (जे० सी०—175859 पी०)—01 सितम्बर, 1991।

नायब सूबेदार ब्रुति राम (जे० सी०—177493 एफ०)—01 अक्टूबर, 1991।

पंजाब रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार त्रिलोक सिंह (सं० 2464539 एल० अब जे० सी०—212815 एक्स०)—01 अगस्त, 1990।

हवलदार जरनैल सिंह (सं० 2466415 पी० अब जे० सी०—212816 ए०)—14 जनवरी, 1991।

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 सितम्बर, 1990 से दी जायेगी।

हवलदार मुखदेव सिंह (सं० 2466160 ए० अब जे० सी०—212817 एच०)—17 अक्टूबर, 1990।

हवलदार मलीग राम (सं० 2464437 पी० अब जे० सी०—212818 एल०)—18 अक्टूबर, 1990।

हवलदार जनक चन्व (सं० 2465321 एल० अब जे० सी०—212819 एन०)—28 अक्टूबर, 1991।

हवलदार दर्शन सिंह (सं० 2465965 एल० अब जे० सी०—212820 एच०)—09 जनवरी, 1991।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार सुन्दर लाल (सं० 2463143 पी० अब जे० सी०—212821 एल०)—26 नवम्बर, 1990।

हवलदार दीवान चन्द (सं० 2465224 एन० अब जे० सी०-212822 एन०)—26 नवम्बर, 1990।

हवलदार पूर्णचन्द राना (सं० 2464567 एक्स० अब जे० सी०-212823 डब्ल्यू०)—01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार नोनिहाल सिंह बुल्लार (सं० 2464425 ए० अब जे० सी०-212824 वाई०)—06 जनवरी, 1991।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार इशान कुमार बरवाल (सं० 2464515 एफ० अब जे० सी०-212825 एफ०)—10 जनवरी, 1991।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार मान सिंह (सं० 2463376 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212826 के०)—01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार गुरचरन सिंह (सं० 2466196 बी० अब जे० सी०-212827 एम०)—01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार बिहारी लाल (सं० 2463985 ए० अब जे० सी०-212828 पी०)—01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार लाला सिंह (सं० 2465875 के० अब जे० सी०-212829 एक्स०)—03 दिसम्बर, 1990।

हवलदार जगदीश सिंह (सं० 2467220 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212830 एम०)—03 दिसम्बर, 1990।

हवलदार मंजीत सिंह (सं० 2467482 एम० अब जे० सी०-212831 पी०)—03 दिसम्बर, 1990।

हवलदार गोपी चन्द वर्मा (सं० 2464753 एन० अब जे० सी०-212832 एक्स०)—16 दिसम्बर, 1990।

हवलदार विदी सिंह (सं० 2460368 एम० अब जे० सी०-212833 ए०)—27 जनवरी, 1991।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार नसीब सिंह (सं० 2466889 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212834 एच०)—01 जनवरी, 1991।

हवलदार बीरबल (सं० 2458156 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212835 एल०)—01 जनवरी, 1991।

हवलदार झिलोवन सिंह (सं० 2464452 के० अब जे० सी०-212836 एन०)—11 जनवरी, 1991।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार हरबजन सिंह (सं० 2464995 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212837 डब्ल्यू०)—01 जनवरी, 1991।

हवलदार स्वर्ण सिंह (सं० 2464467 एम० अब जे० सी०-212838 वाई०)—01 जनवरी, 1991।

हवलदार प्रकाश सिंह (सं० 2465109 एन० अब जे० सी०-212839 एफ०)—01 जनवरी, 1991।

हलदार नौधा राम (सं० 245737 एन० अब जे० सी०-212840 डब्ल्यू०)—01 फरवरी, 1991।

हवलदार बलकार सिंह (सं० 13857398 ए० अब जे० सी०-212841 वाई०)—01 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हलदार किशन चन्द गोस्वामी (सं० 2459882 के० अब जे० सी०-212842 एफ०)—01 जनवरी, 1991।

हलदार मेवा सिंह (सं० 2459881 एफ० अब जे० सी०-212843 के०)—01 जनवरी, 1991।

हवलदार प्रकाश चन्द शर्मा (सं० 2459960 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212844 एम०)—01 जनवरी, 1991।

हवलदार रोशन सिंह (सं० 2460278 एल० अब जे० सी०-212845 पी०)—01 फरवरी, 1991।

हवलदार सुरेन्द्र नाथ शर्मा (सं० 2460409 एल० अब जे० सी०-212846 एक्स०)—01 फरवरी, 1991।

हलदार रामदयाल सिंह (सं० 2460627 के० अब जे० सी०-2128447 ए०)—01 फरवरी 1991।

हवलदार प्रमोद सिंह (सं० 2460644 के० अब जे० सी०-212848 एच०)—01 फरवरी 1991।

हवलदार प्रकाश चन्द (सं० 2460657 एफ० अब जे० सी०-212849 एन०)—01 फरवरी 1991।

हवलदार बलवीर सिंह (सं० 2460838 एम० अब जे० सी०-212850 ए०)—01 मार्च 1991।

हवलदार जगदेव सिंह (सं० 2460855 एम० अब जे० सी०-212851 एच०)—01 मार्च 1991।

हवलदार कुलवन्त सिंह (सं० 2460875 ए० अब जे० सी०-212852 एल०)—01 मार्च 1991।

नायब सूबेदार (बेन्डस मैन) के रैंक में

हवलदार बाबू सिंह (सं० 2465555 पी० अब जे० सी०-212853 एन०)—22 नवम्बर 1990।

मग़ाम रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार प्रभाकरा राव (सं० 2574655 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212854 डब्ल्यू०)—19 जनवरी, 1991।

हवलदार चन्द्रन के० (सं० 2576899 एच० अब जे० सी०-212855 वाई०)—1 मार्च, 1991।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) सूरज भान सं० 2867629 एल० अब जे० सी०-212856 एफ०)—1 फरवरी, 1991।

मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक सागर जनार्दन सदाशिव (सं० 2765683 एल० अब जे० सी०-212857 के०) — 01 फरवरी, 1991।

हवलदार लिपिक पोल अधिकाराव जगन्नाथ (सं० 2765714 ए० अब जे० सी०-212858 एम०) — 04 मार्च, 1991।*

*नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 1991 से दी जाती है।

हवलदार लिपिक पाटील हिन्दुराव भिवा (सं० 2766008 एल० अब जे० सी०-212859 पी०) — 01 मार्च, 1991।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भगवान (सं० 2766601 के० अब जे० सी०-212860 के०) — 01 जनवरी, 1991।

हवलदार रामदास लक्ष्मण आटोले (सं० 2771952 ए० अब जे० सी०-212861 एम०) — 01 जनवरी, 1991।

हवलदार पाटील प्रदीपकुमार सुबराव (सं० 2771195 वाई० अब जे० सी०-212862 पी०) — 01 जनवरी, 1991।

हवलदार कुमार आयरे मानाजी आत्माराम (सं० 2771660 ए० अब जे० सी०-212863 एक्स०) — 14 फरवरी, 1991।*

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से दी जाती है।

हवलदार विजय आप्पासो सूर्यवंशी (सं० 2772287 एक्स० अब जे० सी०-212864 ए०) — 01 जनवरी, 1991।

हवलदार दगडू मोरे (सं० 2763786 एल० अब जे० सी० 212865 ए०) — 16 जनवरी, 1991।

हवलदार पांडुरंग जानू मोरे (सं० 2772618 एन० अब जे० सी०-212866 एल०) — 16 जनवरी, 1991।

हवलदार रघुनाथ सुब्बाराव सावन्त (सं० 2772678 ए० अब जे० सी०-212867 एन०) — 16 जनवरी, 1991।

हवलदार सुरेश (सं० 2774111 एल० अब जे० सी०-212868 डब्ल्यू०) — 16 जनवरी, 1991।

हवलदार फकीराप्पा मणुसी (सं० 2772822 एम० अब जे० सी०-212869 वाई०) — 16 जनवरी, 1991।

हवलदार वामन सोनु घानेकर (सं० 2763815 पी० अब जे० सी०-212870 एन०) — 06 फरवरी, 1991।

हवलदार कारले संबाजी धोंडी (सं० 2767624 एक्स० अब जे० सी०-212871 डब्ल्यू०) — 06 फरवरी, 1991।

पैराशूट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार आनन्द सिंह (सं० 13608534 एक्स०) अब जे० सी०-212872 वाई०) — 01 अप्रैल, 1990।

टी० एच० एम० देवी सिंह (सं० 13608071 एन० अब जे० सी०-212873 एफ०) — 01 मई, 1990।

हवलदार राम उग्रह यादव (सं० 13606729 के० अब जे० सी०-212874 के०) — 01 जून, 1990।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) अमर सिंह (सं० 13606584 के० अब जे० सी०-212875 एम०) — 01 अगस्त, 1990।

राजपूताना राइफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मोखत अली (सं० 2869046 एफ० अब जे० सी०-212876 पी०) — 01 सितम्बर, 1990।

हवलदार ज्ञान सिंह (सं० 2867857 एन० अब जे० सी०-212877 एक्स०) — 9 नवम्बर, 1990।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार रघु नाथ प्रसाव महला (सं० 2865162 एम० अब जे० सी०-212878 ए०) — 13 जनवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार राम सिंह (सं० 2871055 एफ० अब जे० सी०-212879 ए०) — 1 फरवरी, 1991।

हवलदार बाजिव अली (सं० 2869006 ए० अब जे० सी०-212880 एक्स०) — 1 फरवरी, 1991।

हवलदार शमशाद अली (सं० 2869215 एक्स० अब जे० सी०-212881 ए०) — 1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क गुलबन्त राय (सं० 2863716 एफ० अब जे० सी०-212882 ए०) — 18 जनवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार क्लर्क महावीर सिंह (सं० 2863769 ए० अब जे० सी०-212883 एल०) — 01 जनवरी, 1991।

हवलदार क्लर्क अजीत कुमार शर्मा (सं० 2863895 एम० अब जे० सी०-212884 एन०) — 1 जनवरी, 1991।

हवलदार कलक विशम्भर सिंह फिसोदिया (सं० 2863876 एफ० अब जे० सी०-212885 डब्ल्यू०) —01 जनवरी, 1991

हवलदार कलक बाल चन्द शर्मा (सं० 2863929 पी० अब जे० सी०-212886 बाई०) —01 जनवरी, 1991।

हवलदार कलक भरत सिंह (सं० 2863372 एन० अब जे० सी०-212887 एफ०) —01 जनवरी, 1991।

हवलदार कलक विरेन्द्र सिंह जंयू (सं० 2864106 एफ० अब जे० सी०-212888 के०) —01 जनवरी, 1991।

हवलदार कलक तेजपाल सिंह (सं० 2864353 पी० अब जे० सी०-212889 एम०) —01 फरवरी, 1991।

हवलदार कलक भंवर सिंह (सं० 2864358 एन० अब जे० सी०-212890 एफ०) —01 फरवरी, 1991।

सिद्ध रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अमोलक सिंह (सं० 3375474 के० अब जे० सी०-212891 के०) —02 अक्टूबर, 1990।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1990 से दी जाती है।)

सी० एच० एम० राधिका सिंह (सं० 3375244 एक्स० अब जे० सी०-212892 एम०) —15 नवम्बर, 1990।

हवलदार गुरवर्ण सिंह (सं० 3370149 के० अब जे० सी०-212893 पी०) —24 नवम्बर, 1990।

हवलदार कविन्द्र सिंह (सं० 3372000 एक्स० अब जे० सी०-212894 एक्स०) —01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार सुरिन्दर सिंह (सं० 3370684 ए० अब जे० सी०-212895 ए०) —01 जनवरी, 1991।

हवलदार अशोक सिंह (सं० 3371700 बाई० अब जे० सी०-212896 एफ०) —01 जनवरी, 1991।

हवलदार कलकाव सिंह (सं० 3371810 एन० अब जे० सी०-212897 एन०) —01 जनवरी, 1991।

नायब सूबेदार कलक के रैंक में

हवलदार कलक सख्तोष सिंह (सं० 3369997 एम० अब जे० सी०-212898 एन०) —01 फरवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार कलक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से दी जाती है।)

हवलदार कलक किलवाण सिंह (सं० 3370521 एम० अब जे० सी०-212899 डब्ल्यू०) —01 मार्च, 1991।

हवलदार कलक मुख्तार सिंह (सं० 3370523 एक्स० अब जे० सी०-212900 ए०) —01 मार्च, 1991।

गढ़वाल राइफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अमल सिंह (सं० 4048553 एम० अब जे० सी०-212901 एच०) —07 दिसम्बर, 1990।

हवलदार शिव कुमार (सं० 4052130 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212902 एम०) —01 जनवरी, 1991।

हवलदार कैलाश मन्त्र (सं० 4051770 एम० अब जे० सी०-212903 एम०) —01 जनवरी, 1991।

हवलदार लाखी राम भट्ट (सं० 4051222 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212904 डब्ल्यू०) —01 जनवरी, 1991।

हवलदार विमल सिंह (सं० 4052313 एम० अब जे० सी०-212905 बाई०) —01 जनवरी, 1991।

हवलदार बादर सिंह (सं० 4052115 एफ० अब जे० सी०-212906 बाई०) —01 जनवरी, 1991।

हवलदार बैसाख सिंह (सं० 4052789 बाई० अब जे० सी०-212907 के०) —01 जनवरी, 1991।

हवलदार दामोदर प्रसाद जोशी (सं० 4055941 एम० अब जे० सी०-212908 एम०) —01 जनवरी, 1991।

हवलदार विजय सिंह (सं० 4054238 एम० अब जे० सी०-212909 पी०) —01 जनवरी, 1991।

हवलदार सतीश मन्त्र (सं० 4052369 बाई० अब जे० सी०-212910 के०) —10 जनवरी, 1991।×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से दी जाती है।)

हवलदार सन्तोष राज (सं० 13733330 एन० अब जे० सी०-212911 एम०) —15 जनवरी, 1991।×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से दी जाती है।)

हवलदार पान सिंह (सं० 4053108 एक्स० अब जे० सी०-212912 पी०) —25 फरवरी, 1991।×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जाती है।)

हवलदार सीता राम (सं० 13734644 बाई० अब जे० सी०-212913 एक्स०) —02 जनवरी, 1991।

हवलदार हुस्म सिंह (सं० 4052808 बाई० अब जे० सी०-212914 ए०) —18 फरवरी, 1991।×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जनवरी, 1991 से दी जाती है।)

हवलदार नेता जवाहर सिंह (सं० 4053976 के० अब जे० सी०-212915 एच०) —01 फरवरी, 1991।

हवलदार कुंवर सिंह रावत (सं० 4054463 एफ० अब जे० सी०-212916 एन०) —01 फरवरी, 1991।

हवलदार रणधीर सिंह चौधरी (सं० 4050931 बाई० अब जे० सी०-212917 एन०) —01 फरवरी, 1991।

हवलदार मोहन सिंह कन्दारी (सं० 4054549 ए० अब जे० सी०-212918 डब्ल्यू०) —01 फरवरी, 1991।

हवलदार जय प्रकाश मैथानी (सं० 4054097 ए० अव जे० सी०-212919 वाई०) — 01 फरवरी, 1991।

हवलदार जगदीश प्रसाद (सं० 4057244 ए० अव जे० सी०-212920 ए०) — 01 फरवरी, 1991।

वि कुमाऊं रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रमई यादव (सं० 4170055 पी० अव जे० सी०-212921 डब्ल्यू०) — 10 अक्टूबर, 1990।

सी० ए० एम० रघुबीर सिंह (सं० 4160688 पी० अव जे० सी०-212922 वाई०) — 23 नवम्बर, 1990। ×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 अक्टूबर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार भूवन सिंह (सं० 4163408 ए० अव जे० सी०-212923 ए०) — 01 जनवरी, 1991। ×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 नवम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार खीम सिंह रावत (सं० 4163216 के० अव जे० सी०-212924 के०) — 20 फरवरी, 1991। ×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार नाथू राम (सं० 4166496 ए० अव जे० सी०-212925 ए०) — 01 सितम्बर, 1990।

हवलदार उमेश सिंह (सं० 4164190 ए० अव जे० सी०-212926 पी०) — 30 नवम्बर, 1990।

हवलदार पूरन सिंह (सं० 4164771 के० अव जे० सी०-212927 ए०) — 30 नवम्बर, 1990।

हवलदार चन्दर सिंह (सं० 4169058 ए० अव जे० सी०-212928 ए०) — 01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार नन्दन सिंह (सं० 4165995 डब्ल्यू० अव जे० सी०-212929 ए०) — 01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार हिम्मत सिंह रावल (सं० 4168160 ए० अव जे० सी०-212930 ए०) — 01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार जमन सिंह (सं० 4164638 ए० अव जे० सी०-212931 ए०) — 01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार अनूप सिंह (सं० 4166128 वाई० अव जे० सी०-212932 ए०) — 01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार खुशाल सिंह (सं० 4165996 वाई० अव जे० सी०-212933 ए०) — 01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार बहादुर सिंह (सं० 4167412 ए० अव जे० सी०-212934 ए०) — 16 दिसम्बर, 1990। ×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार प्रमोद कुमार (सं० 4166453 वाई० अव जे० सी०-212935 डब्ल्यू०) — 01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार रघुबीर सिंह (सं० 4166194 ए० अव जे० सी०-212936 वाई०) — 02 जनवरी, 1991। ×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1990 से दी जायेगी)।

सी० ए० एम० बन्नी राम (सं० 4164588 ए० अव जे० सी०-212937 ए०) — 01 जनवरी, 1991।

हवलदार बलवंत सिंह (सं० 4167033 डब्ल्यू० अव जे० सी०-212938 के०) — 01 जनवरी, 1991।

हवलदार महा सिंह (सं० 4167230 ए० अव जे० सी०-212939 ए०) — 20 जनवरी, 1991। ×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार धनवीर सिंह (सं० 4168042 वाई० अव जे० सी०-212940 ए०) — 06 जनवरी, 1991। ×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से दी जायेगी)।

इन्फैंट्री

जाट रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार करतार सिंह (सं० 3167363 ए० अव जे० सी०-212941 के०) — 1 सितम्बर 1990।

हवलदार मांगे राम (सं० 3160562 वाई० अव जे० सी०-212942 ए०) — 1 सितम्बर 1990।

हवलदार श्री राम (सं० 3160678 पी० अव जे० सी०-212943 पी०) — 1 सितम्बर 1990।

हवलदार भरत सिंह (सं० 3162062 ए० अव जे० सी०-212944 ए०) — 1 सितम्बर 1990।

हवलदार महावीर सिंह (सं० 3162504 ए० अव जे० सी०-212945 ए०) — 1 नवम्बर 1990।

हवलदार सज्जन सिंह (सं० 3163325 ए० अव जे० सी०-212946 ए०) — 1 दिसम्बर 1990।

हवलदार सूरज मल (सं० 3162419 ए० अव जे० सी०-212947 ए०) — 11 दिसम्बर 1990*।

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार शुभ राम (सं० 3160710 वाई० अव जे० सी०-212948 ए०) — 1 जनवरी 1991।

बिहार रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लखन मुरमू (सं० 4254714 के० अब जे० सी०—212949 डब्ल्यू०)—25 नवम्बर 1990।

सी० एच० एम० सवानन्दा राउत (सं० 4256802 वाई० अब जे० सी०—212950 एल०)—25 नवम्बर 1990।

हवलदार सिलास टोपनो (सं० 4253743 एम० अब जे० सी०—212951 एन०)—10 मार्च 1991*

* (नायब सूबेदार के रैंक में भत्ता और वेतन पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 91 से दी जायेगी)

हवलदार उलबिनुस लकरा (सं० 4253508 एन० अब जे० सी०—212952 डब्ल्यू०)—15 फरवरी 1991**

** (नायब सूबेदार के रैंक में भत्ता और वेतन पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 91 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क) राम पूजन पाण्डेय (सं० 4250942 पी० अब जे० सी०—212953 वाई०)—01 दिसम्बर 1990।

हवलदार क्लर्क कमल नारायण ठाकुर (सं० 4251043 ए० अब जे० सी०—212954 एफ०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार (क्लर्क) श्री चन्ध (सं० 2968330 वाई० अब जे० सी०—212955 के०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार (क्लर्क) रंगाधर जैना (सं० 4251057 ए० अब जे० सी०—212956 एम०)—01 फरवरी 1991।

हवलदार (क्लर्क) स्वामा हासा (सं० 4250980 एल० अब जे० सी०—212957 पी०)—01 फरवरी 1991।

हवलदार (क्लर्क) नन्द लाल कुन्डू (सं० 4251067 के० अब जे० सी०—212958 एक्स०)—01 फरवरी 1991।

हवलदार (क्लर्क) उमा कान्त बेहूरा (सं० 4251068 एच० अब जे० सी०—212959 ए०)—01 फरवरी 1991।

हवलदार (क्लर्क) मिलियानूस तिग्गा (सं० 4249473 एल० अब जे० सी०—212960 पी०)—01 फरवरी 1991।

हवलदार (क्लर्क) गुलाब झा (सं० 4251062 एल० अब जे० सी०—212961 एक्स०)—07 फरवरी 1991@

@ (नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में भत्ता और वेतन पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 91 से दी जायेगी।)

सी० एच० एम० दमनुरधर महाली (सं० 4255689 एच० अब जे० सी०—212962 ए०)—17 जुलाई 1990।

हवलदार राम स्वाराय ठाकुर (सं० 4248082 एन० अब जे० सी०—212963 एच०)—24 अगस्त 1990।

हवलदार एलेसियस कुजूर (सं० 4255139 ए० अब जे० सी०—212964 एल०)—24 अक्टूबर 1990।

हवलदार धरम देव सिंह (सं० 4249588 वाई० अब जे० सी०—212965 एन०)—01 दिसम्बर 1990।

हवलदार निर्मल खलखों (सं० 4253807 एम० अब जे० सी०—212966 डब्ल्यू०)—01 दिसम्बर 1990।

सी० एच० एम० विश्वा नाथ मांझी (सं० 4248729 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212967 वाई०)—01 जनवरी 1991।

सी० एच० एम० लाल मोहन मांझी (सं० 4252706 एम० अब जे० सी०—212968 एफ०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार राम देव सिंह (सं० 4248905 एच० अब जे० सी०—212969 के०)—01 फरवरी 1991।

सी० एच० एम० श्री कृष्ण सिंह (सं० 4248961 एफ० अब जे० सी०—212970 वाई०)—01 फरवरी 1991।

सी० एच० एम० प्रमोद कुमार सिंह धायल (सं० 4249245 एच० अब जे० सी०—212971 एफ०)—01 फरवरी 1991।

महार रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जगजित सिंह (सं० 4544287 के० अब जे० सी०—212972 के०)—01 दिसम्बर 90।

हवलदार क्लर्क राम फल सिंह बोरा (सं० 9212604 एच० अब जे० सी०—212973 एम०)—01 फरवरी 91।

हवलदार भोम दत्त (सं० 9214983 एच० अब जे० सी०—212974 पी०)—01 मार्च 91।

हवलदार गायकबाड हनमन्त राम चन्द्र (सं० 4545835 एच० अब जे० सी०—212975 एक्स०)—01 अप्रैल 91।

जम्मू और कश्मीर राइफल्स

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक सम्पूर्ण सिंह कलमोटिया (13733271 के० अब जे० सी०—212976 ए०)—01 फरवरी 1991।

हवलदार लिपिक ओम प्रकाश चित्याल (13733343 एच० अब जे० सी०—212977 एच०)—01 फरवरी 1991।

नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक

हवलदार लाल सिंह (13735746 एफ० अब जे० सी०—212978 एल०)—01 अक्टूबर 1990।

हवलदार होशियार सिंह (13733385 पी० अब जे० सी०—212979 एन०)—01 दिसम्बर 1990।

हवलदार ब्रह्मदास ठाकुर (13734635 एक्स० अब जे० सी०—212980 एच०)—01 दिसम्बर 1990।

हवलदार राजिन्द्र सिंह राना (13734706 एन० अब जे० सी०—212981 एल०)—12 दिसम्बर 1990*

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1990 से दी जायेगी।)

हवलदार कैलाश चन्द (13731350 ए० अब जे० सी०—212982 एन०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार बीर सिंह (13731610 ए० अब जे० सी०—
212983 डब्ल्यू०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार मस्त राम (13731788 डब्ल्यू० अब जे० सी०—
212984 वाई०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार कुलदीप सिंह (13732102 डब्ल्यू० अब जे० सी०—
212985 एफ०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार ग्याम लाल शर्मा (13732109 ए० अब जे० सी०—
212986 के०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार ओंकार सिंह (13732178 डब्ल्यू० अब जे० सी०—
212987 एम०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार गुरचरण सिंह (13732533 एच० अब जे० सी०—
212988 पी०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार विशन दास (13732579 एल० अब जे० सी०—
212989 एक्स०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार आशा राम (13733038 डब्ल्यू० अब जे० सी०—
212990 एम०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार रेशम शर्मा (13733400 वाई० अब जे० सी०—
212991 पी०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार लक्ष्मण दास (13733402 के० अब जे० सी०—
212992 एक्स०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार हुकम चन्द (13733685 डब्ल्यू० अब जे० सी०—
212993 ए०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार देव राज (13733740 एफ० अब जे० सी०—
212994 एच०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार बलदेव सिंह (13733751 एन० अब जे० सी०—
212995 एल०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार प्रभात सिंह (13733851 वाई० अब जे० सी०—
212996 एन०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार स्वर्ण सिंह (13734004 पी० अब जे० सी०—
212997 डब्ल्यू०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार सेवा दास (13734056 एल० अब जे० सी०—
212998 वाई०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार मलकीर सिंह (13734212 के० अब जे० सी०—
212999 एफ०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार हरबंस लाल (13734267 एम० अब जे० सी०—
213000 एच०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार रतन लाल (13734279 एच० अब जे० सी०—
213001 एल०)—09 जनवरी 1991*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी।)

हवलदार लाल सिंह (13734281 ए० अब जे० सी०—
213002 एन०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार अमरिया राम (13734307 के० अब जे० सी०—
213003 डब्ल्यू०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार रमेश कुमार (13734413 एच० अब जे० सी०—
213004 वाई०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार कुलदीप कुमार शर्मा (13734428 एल० अब जे०
सी०—213005 एफ०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार अशोक कुमार (13735266 एक्स० अब जे०
सी०—213006 के०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार विजय सिंह (13735510 एम० अब जे० सी०—
213007 एम०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार काली दास (13735597 वाई० अब जे० सी०—
213008 पी०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार रविन्द्र सिंह (13737029 एम० अब जे० सी०—
213009 एक्स०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार विजय कुमार (13734364 एल० अब जे० सी०—
213010 एम०)—06 जनवरी 1991।

जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार चगर मल (9077054 पी० अब जे० सी०—
213011 पी०)—14 दिसम्बर 90*

*(18 अक्टूबर 90 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)

हवलदार सुरजीत सिंह (9078370 ए० अब जे० सी०—
213012 एक्स०)—10 फरवरी 91**

** (14 नवम्बर 90 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)।

11 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार संवामान राई (9413392 वाई० अब जे० सी०—
213013 ए०)—04 जनवरी 1991*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1990 से दी जायेगी)

हवलदार दिलीप मुन्हा (9413508 के० अब जे० सी०—
213014 एच०)—01 दिसम्बर 1990।

हवलदार जेम बहादुर गुर्ग (9413523 वाई० अब जे०
सी०—213015 एल०)—14 जनवरी 1991**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1990 से दी जायेगी)

हवलदार निमा नामग (9412527 एच० अब जे० सी०—
213016 एम०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार ग्यान बहादुर राई (9412889 के० अब जे० सी०—213017 डब्ल्यू०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार मन बहादुर फौवार (9413716 बाई० अब जे० सी०—213018 बाई०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार दल बहादुर राई (9413443 एफ० अब जे० सी०—213019 एफ०)—22 मार्च 91*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)

हवलदार धन बहादुर गुरुंग (9413872 एच० अब जे० सी०—213020 डब्ल्यू०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार विराज कुमार सुब्बा (9414197 एम० अब जे० सी०—213021 बाई०)—02 फरवरी 91*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)

हवलदार किशोर कुमार राई (9413422 एल० अब जे० सी०—213022 एफ०)—01 जनवरी 91

हवलदार प्रदीप कुमार सुब्बा (9414495 के० अब जे० सी०—213023 के०)—22 फरवरी 91*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)

हवलदार राम लिम्बू (9414472 एच० अब जे० सी०—213024 एम०)—01 जनवरी 91।

हवलदार भुक्त बेथ राई (9414689 एम० अब जे० सी०—213025 पी०)—20 फरवरी 91*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)

3 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार किशोर जंग सेखी (सं० 5241251 एक्स० अब जे० सी०—213026 एक्स०)—01 नवम्बर 1990।

हवलदार लोक बहादुर थापा (सं० 5241253 एच० अब जे० सी०—213027 ए०)—26 नवम्बर 1990*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1990 से दी जायेगी)

हवलदार प्रेम बहादुर गुरुंग (सं० 5240791 के० अब जे० सी०—213028 एच०)—01 नवम्बर 1990।

हवलदार धनबहादुर थापा (सं० 5240539 एल० अब जे० सी०—213029 एल०)—01 दिसम्बर 1990।

हवलदार पुन्ना बहादुर राना (सं० 5240306 के० अब जे० सी०—213030 ए०)—15 दिसम्बर 1990।

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) स्वर्ण कुमार जग्गी (सं० 5240087 एन० अब जे० सी०—213031 एच०)—09 जनवरी 1991*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 1990 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) देवासिथ आचार्य (सं० 5241152 एफ० अब जे० सी०—213032 एल०)—01 जनवरी 1991।

8 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार नरेश कुमार गुरुंग (सं० 5746459 एम० अब जे० सी०—213033 एन०)—27 दिसम्बर 1990*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1990 से दी जायेगी)

हवलदार लोक बहादुर पुन (सं० 5746506 बाई० अब जे० सी०—213034 डब्ल्यू०)—11 दिसम्बर 1990।

हवलदार बल बहादुर राणा (सं० 5744743 के० अब जे० सी०—213035 बाई०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार हीरा बहादुर थापा (सं० 5746934 के० अब जे० सी०—213036 एफ०)—13 जनवरी, 1991।

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से दी जायेगी।

हवलदार एक बहादुर गुरुंग (सं० 5744970 के० अब जे० सी०—213037 के०)—01 जनवरी, 1991।

हवलदार (लिपिक) सी० जी० प्रभाकरन नायर (सं० 5745757 डब्ल्यू० अब जे० सी०—213038 एम०)—01 फरवरी, 1991।

5 जी० आर० (एफ० एफ०)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पुर बहादुर गुरुंग (सं० 5444560 पी० अब जे० सी०—213039 पी०)—1 जनवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार शमशेर बहादुर थापा (सं० 5443912 पी० अब जे० सी०—213040 के०)—1 दिसम्बर, 1990।

हवलदार दल बहादुर सेखी (सं० 5445665 एल० अब जे० सी०—213041 एम०)—19 फरवरी, 1991।**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार हिम बहादुर थापा (सं० 5443703 एक्स अव
जे० सी०-213042 पी०)—1 फरवरी, 1991।

हवलदार हमेन्द्र बिजान (सं० 5445330 एन अव
जे० सी०-213043 एक्स)—1 फरवरी, 1991।

हवलदार जिवन कुमार तामंग (सं० 5445464 एम
अव जे० सी०-213044 पी०)—19 फरवरी, 1991। @

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से
दी जाएगी)।

हवलदार बिष्णु प्रसाद राना (सं० 5443847 ए अव
जे० सी०-213045 एक्स)—20 अक्टूबर, 1990।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 सितम्बर, 1990 से
दी जाएगी)।

हवलदार दल बहादुर पुन (सं० 5444301 एन अव
जे० सी०-213046 एक्स)—17 मार्च, 1991। @

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1990 से
दी जाएगी)।

हवलदार टेक बहादुर थापा (सं० 5444309 वाई अव
जे० सी०-213047 एन०)—1 दिसम्बर, 1990।

हवलदार तुक बहादुर आले (सं० 5443642 एफ अव
जे० सी०-213048 एक्स)—1 जनवरी, 1991।

हवलदार लेख बहादुर थापा (सं० 5443712 वाई अव
जे० सी०-213049 वाई)—1 फरवरी, 1991।

हवलदार धन बहादुर गुहंग (सं० 5444335 ए अव
जे० सी०-213050 एन०)—1 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) बन्धु मान पासी (सं० 5443754
एल० अव जे० सी०-213051 डब्ल्यू)—13 फरवरी,
1991। 0/0

0/0 (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और
भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी,
1991 से दी जायेगी)।

विशेष सूचि

राजपूत रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) के रैंक में

कृष्ण गोपाल वर्मा (जे० सी०-212466 वाई)—
13 अप्रैल, 1991।

अरवली कुमार शर्मा (जे० सी०-212467 एफ)—
13 अप्रैल, 1991।

स्पेशियल लिस्ट

नागा रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार धर्मगुरु (पादरी) के रैंक में
जान लिबिंगस्टोन (जे० सी०-212468 के)—13
अप्रैल, 1991।

कुमाँउ रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार धर्मगुरु (पंडित) के रैंक में
लक्ष्मी दत्त भट्ट (जे० सी०-212469 एम)—22 जून,
1991।

महार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) के रैंक में
भरत कुमार (अव जे० सी०-212470 एफ)—22 जून,
1991।

जम्मू और कश्मीर राईफल

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक ग्रंथी) के रैंक में
गुरमीत सिंह (जे० सी०-212471 के)—13 अप्रैल,
1991।

1 जा० जा०

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) कन्वर सिंह (सं०
5346878 डब्ल्यू अव जे० सी०-212472 एम)—22
जून, 1991।

प्रिन्सिपल

सूबेदार मेजर (धर्मशिक्षक) के रैंक में

सूबेदार (धर्मशिक्षक) कितेश्वर नाथ उपाध्याय (जे०
सी०-33544 पी०)—1 जनवरी, 1991।

सूबेदार (धर्मशिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) सदानन्द शर्मा (जे०
सी०-72548 एफ)—1 जनवरी, 1991।

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) धनप्रयाग शर्मा बेदपाठी
(जे० सी०-73856 एन०)—1 जनवरी, 1991।

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) कैवल राम भट्ट (जे०
सी०-76915 ए)—1 जनवरी, 1991।

नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) मुरारी लाल शर्मा
(जे० सी०-76347 ए)—1 जनवरी, 1991।

राजपूताना राइफल

सूबेदार (धर्मशिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार पंडित भंवर लाल धर्मा (जे० सी०-
76545 एल)—1 जनवरी, 1991।

नायब सूबेदार पंडित कुन्ज लाल शर्मा (जे० सी०—77727 एल)—1 जनवरी, 1991।

राजपूत रेजिमेंट

सूबेदार (पंडित) के रैंक में

नायब सूबेदार (पंडित) इन्दु नाथ शिवेदी (जे० सी०—74719 एफ)—1 जनवरी, 1991।

जाट रेजिमेंट

सूबेदार धर्म शिक्षक के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) राम चन्दर (जे० सी०—73064 एन)—1 जनवरी, 1991।

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) सोम दत्त शर्मा (जे० सी०—75880 एच०)—1 जनवरी, 1991।

सिख लाईट इन्फैंट्री

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) बिरसा सिंह (जे० सी०—77729 इन्फ्यू)—1 जनवरी, 1991।

विशेष सूची

सिख लाईट इन्फैंट्री

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) जगरूप सिंह (जे० सी०—72162 एफ)—1 जनवरी, 1991।

डोगरा रेजिमेंट

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार (धर्म शिक्षक) हरनाम बास शर्मा (जे० सी०—36046 एन)—1 जनवरी, 1991।

गढ़वाल राइफल्स

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार (धर्म शिक्षक) दीन दयाल जोशी (जे० सी०—35860 एम)—1 जनवरी, 1991।

आसाम रेजिमेंट

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार (पादरी) एल० कुन्गलैना (जे० सी०—32970 इन्फ्यू)—1 जनवरी, 1991।

सूबेदार (पंडित) तेक राज शर्मा गौतम (जे० सी०—37040 वाई)—1 जनवरी, 1991।

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार (पादरी) जे० रौरो मार (जे० सी०—62502 एल)—1 जनवरी, 1991।

नायब सूबेदार (पंडित) भोला नाथ शर्मा गौतम (जे० सी०—74879 एफ)—1 जनवरी, 1991।

बिहार रेजीमेंट

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार उमेश मिश्रा (जे० सी० 35047 के)—01 जनवरी 1991।

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार प्रफूल चन्द्र ठाकुर (जे० सी० 78061 के)—01 जनवरी 1991।

महार रेजीमेंट

सूबेदार धर्म शिक्षक के रैंक में

नायब सूबेदार ग्रंथी (आर० टी०) अर्जन सिंह (जे० सी०—66169 पी०)—01 जनवरी 91।

नायब सूबेदार पंडित (आर० टी०) जगदीश नारायण शर्मा (जे० सी०—73847 एम०)—01 जनवरी 91।

नायब सूबेदार पंडित (आर० टी०) नर्मदा प्रसाद मिश्रा (जे० सी०—73848 पी०)—01 जनवरी 91।

नायब सूबेदार पंडित (आर० टी०) जगसज उपाध्याय (जे० सी०—74479 पी०)—01 जनवरी 91।

नायब सूबेदार पंडित (आर० टी०) धरम नाथ ठाकुर (जे० सी०—79208 एफ०)—01 जनवरी 91।

नायब सूबेदार ग्रंथी (आर० टी०) हरवीप सिंह (जे० सी०—84861 वाई०)—01 जनवरी 91।

जम्मू और काश्मीर लाइट इन्फैंट्री

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०—193625 एम०)—01 जनवरी 91।

11 जी० आर०

सूबेदार मेजर (पंडित) के रैंक में

सूबेदार (पंडित) जिता मनी शर्मा (जे० सी०—39775 एफ०)—01 जनवरी 91।

सूबेदार (पंडित) के रैंक में

नायब सूबेदार (पंडित) केशव प्रसाद उपाध्याय (जे० सी०—76348 एच०)—01 जनवरी 91।

1 जी० आर०

सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार उमाकान्त शर्मा धीमरे (जे० सी०—76547 इन्फ्यू०)—1 जनवरी 1991।

पैराशूट रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार आनन्द सिंह (नं० 13608534 एक्स० अब जे० सी०—212473 पी०)—01 अप्रैल 1990।

टी० एच० एम० देवी सिंह (नं० 13608071 एन० अब जे० सी०—212474 एक्स०)—01 मई 1990।

हवलदार राम उग्रह यादव (नं० 13606729 के० अब जे० सी०—212475 ए०)—01 जून 1990।

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

रवलदार (लिपिक) अमर सिंह (नं० 13606584 के० अब जे० सी०—212476 एच०)—01 अगस्त 1990।

पंजाब रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हरधयाल सिंह (नं० 2460732 ए० अब जे० सी०—212477 एल०)—06 फरवरी 91।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 91 से दी जायेगी)।

हवलदार कुलदीप सिंह (नं० 2467433 के० अब जे० सी०—212478 एन०)—02 मई 91।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 91 से दी जायेगी)।

हवलदार अमरीक सिंह (नं० 13858052 एच० अब जे० सी०—212479 डब्ल्यू०)—01 मार्च 91।

हवलदार जशपाल सिंह (नं० 2462615 एन० अब जे० सी०—212480 एल०)—01 मार्च 91।

हवलदार कुलवीर सिंह (नं० 2464857 पी० अब जे० सी०—212481 एन०)—29 मई 91।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 91 से दी जायेगी)।

हवलदार मोहिन्दर सिंह (नं० 2466332 के० अब जे० सी०—212482 डब्ल्यू०)—01 मार्च 91।

हवलदार गुरनाम सिंह (नं० 2462392 एफ० अब जे० सी०—212483 वार्ड०)—01 अप्रैल 91।

हवलदार तरशेम सिंह (नं० 2462401 एक्स० अब जे० सी०—212484 एफ०)—01 अप्रैल 91।

हवलदार मनीराम भगोती (नं० 2461926 पी० अब जे० सी०—212485 के०)—09 अप्रैल 91।

हवलदार जरनेल सिंह (नं० 2468352 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212486 एम०)—07 मई 91।

हवलदार किरन कुमार (नं० 2468368 एफ० अब जे० सी०—212487 पी०)—21 मई 91।

हवलदार माला सिंह राय सिख (नं० 1385078 वार्ड० अब जे० सी०—212488 एक्स०)—21 मई 91।

हवलदार परमिन्दर सिंह (नं० 2462353 एच० अब जे० सी०—212489 ए०)—01 जून 91।

हवलदार जगत सिंह (नं० 2460894 एल० अब जे० सी० 212490 पी०)—1 जून 91।

हवलदार हरमिन्दर सिंह (नं० 2464671 एल० अब जे० सी०—212491 एक्स०)—01 जून 91।

मद्रास रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार विलियम्स पी० (नं० 2572863 एम० अब जे० सी०—212492 ए०)—15 अप्रैल 1991।

हवलदार कृष्ण गोडा (नं० 2575185 एच० अब जे० सी०—212493 एच०)—28 जून 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार सुरेन्द्र नायर जी० (नं० 2574962 एन० अब जे० सी०—212494 एल०)—1 जून 1991।

हवलदार रवीन्द्रन पी० वी० (नं० 2578671 एल० अब जे० सी०—212495 एन०)—9 जून 1991।

हवलदार एम० राजमूर्ति (नं० 2575591 एच० अब जे० सी०—212496 डब्ल्यू०)—1 फरवरी 1991।

हवलदार माधन ए० (नं० 2571949 वार्ड० अब जे० सी०—212497 वार्ड०)—1 मार्च 1991।

हवलदार पी० पाण्डुरे (नं० 2573851 के० अब जे० सी०—212498 एफ०)—1 मार्च 1991।

हवलदार आर० कृष्णमूर्ति (नं० 2575188 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212499 के०)—11 अप्रैल 1991।

हवलदार कुमारन (नं० 8019894 एन० अब जे० सी०—212500 एन०)—13 मई 1991।

हवलदार एन० जी० नल्लुवीरप्पन (नं० 2576072 एम० अब जे० सी०—212501 डब्ल्यू०)—13 मई 1991।

हवलदार लक्ष्मण सेतु (नं० 2571254 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212502 वार्ड०)—13 मई 1991।

हवलदार के० शशीधरन (नं० 2576106 पी० अब जे० सी०—212503 एफ०)—13 मई 1991।

हवलदार एस० आर० पाण्डि (नं० 2576241 एच० अब जे० सी०—212504 के०)—13 मई 1991।

हवलदार रामचन्द्र हनुमन्त (नं० 14521775 एक्स० अब जे० सी०—212505 एम०)—13 मई 1991।

हवलदार महादेव निम्गप्पा तिगडि (नं० 2576712 एल० अब जे० सी०—212506 पी०)—13 मई 1991।

हवलदार रावुणी रे (नं० 2576932 पी० अब जे० सी०—212507 एक्स०)—13 मई 1991।

हवलदार शंकरप्पा गुडगप्पा नावर (नं० 2577594 पी० अब जे० सी०—212508 ए०)—13 मई 1991।

हवलदार ए० चन्नेया नाथिङ्ग (सं० 2575628 एफ० अब जे० सी०-212509 एच०) — 1 जून 1991।

हवलदार गोविन्द राजु आर० (सं० 2575355 एफ० अब जे० सी०-212510 एफ०) — 1 जून 1991।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) एन० तेगराजन (सं० 6648439 वाई० अब जे० सी०-212511 ए०) — 13 मई 1991।

हवलदार (क्लर्क) जोगिन्दर सिंह (सं० 6648483 एच० अब जे० सी०-212512 एच०) — 12 जून 1991*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार (क्लर्क) अन्धाले भाह साहेब बाबु राव (सं० 6648487 वाई० अब जे० सी०-212513 एल०) — 1 जुलाई 1991।

हवलदार (क्लर्क) रघुवीर सिंह रनावत (सं० 6648488 एफ० अब जे० सी०-212514 एन०) — 1 जुलाई 1991।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार वासरि पार्श्वदय्या (सं० 2569226 एल० अब जे० सी०-212515 डब्ल्यू०) — 20 सितम्बर 1990।

हवलदार के अंतोणि (सं० 2575621 पी० अब जे० सी०-212516 वाई०) — 26 मई 1991।

हवलदार के० अरुणाचलम (सं० 2576673 एफ० अब जे० सी०-212517 एफ०) — 26 मई 1991।

हवलदार पवित्रन एन० (सं० 2578836 वाई० अब जे० सी०-212518 के०) — 26 मई 1991।

हवलदार एम० कुलस्ते (सं० 2577174 पी० अब जे० सी०-212519 एम०) — 26 मई 1991।

हवलदार गोपिनाथन नायर के० आर० (सं० 2575981 एल० अब जे० सी०-212520 एफ०) — 26 मई 1991।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) जोगिन्दर सिंह (सं० 6648489 के० अब जे० सी०-212521 के०) — 1 अगस्त 1991।

डिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलराज सिंह (सं० 2666126 के० अब जे० सी०-212522 एम०) — 01 फरवरी 1990।

हवलदार मेह राम जाट (सं० 2663211 एफ० अब जे० सी०-212523 पी०) — 01 फरवरी 1991।

हवलदार फूल सिंह (सं० 2663330 एफ० अब जे० सी०-212524 एफ०) — 01 फरवरी 1991।

हवलदार फकीर चन्द (सं० 2663123 एल० अब जे० सी०-212525 ए०) — 17 फरवरी 1991।

हवलदार हीरा लाल सिंह यादव (सं० 2661473 वाई० अब जे० सी०-212526 एच०) — 01 अप्रैल 1991।

हवलदार रिखेल सिंह (सं० 2684337 एम० अब जे० सी०-212527 एल०) — 12 अप्रैल 1991।

हवलदार दुली चन्द (सं० 2661158 एच० अब जे० सी०-212528 एन०) — 25 अप्रैल 1991।

हवलदार राम चन्द्र (सं० 2663628 एफ० अब जे० सी०-212529 डब्ल्यू०) — 01 मई 1991।

हवलदार हनुमान सिंह (सं० 2664981 ए० अब जे० सी०-212530 एल०) — 01 मई 1991।

हवलदार राज कुमार सिंह तनवर (सं० 2665065 एम० अब जे० सी०-212531 एन०) — (01 जून 1991)

हवलदार बजरंग सिंह (सं० 2665386 एच० अब जे० सी०-212532 डब्ल्यू०) — 01 जुलाई 1991।

हवलदार सुरत सिंह (सं० 2665383 पी० अब जे० सी०-212533 वाई०) — 02 जुलाई 1991।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 1991)।

हवलदार जयपाल (सं० 2665371 ए० अब जे० सी०-212534 एफ०) — 10 जुलाई 1991।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 1991)।

भराठा लाइट इन्फेंटी

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक सम्पुल वर्गीज (सं० 2765862 एल० अब जे० सी०-212535 के०) — 01 मार्च 1991।

हवलदार लिपिक सांख्ये चन्द्रकांत सर्जराव (सं० 2766046 एफ० अब जे० सी०-212536 एम०) — 01 मार्च 1991।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मानमोहि सत्याप्पा बालकृष्ण (सं० 2768561 एम० अब जे० सी०-212537 पी०) — 16 दिसम्बर 1990।

हवलदार धाकटू धोंडू आखाडे (सं० 2769005 एच० अब जे० सी०-212538 एफ०) — 16 दिसम्बर 1990।

हवलदार अशोक पाटील (सं० 2769159 पी० अब जे० सी०-212539 ए०) — 16 दिसम्बर 1990।

हवलदार चव्हाण रामचन्द्र गणपत (सं० 13857660 एफ० अब जे० सी०-212540 पी०) — 16 दिसम्बर 1990।

हवलदार जाधव सदाशिव बत्तू (सं० 2769587 एन० अब जे० सी०-212541 एफ०) — 16 दिसम्बर 1990।

हवलदार जालिंदर रामचन्द्र भोगडे (सं० 2769487 एच० अब जे० सी०—212542 ए०)—16 दिसम्बर 1990।

हवलदार मदाशिव कामाटे (सं० 2772472 एल० अब जे० सी०—212543 एच०)—16 दिसम्बर 1990।

हवलदार इटोपे शिवाजी रंगनाथ (सं० 2772187 एम० अब जे० सी०—212544 एल०)—16 दिसम्बर 1990।

हवलदार बाबू धगडू जाधव (सं० 2772519 एल० अब जे० सी०—212545 एन०)—16 दिसम्बर 1990।

हवलदार किसन जयराम सोनुणे (सं० 2767637 पी० अब जे० सी०—212546 डब्ल्यू०)—17 फरवरी 1991*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जाती है।)

हवलदार देशमुख श्रीमंत ज्ञानदेव (सं० 2769333 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212547 वाई०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार माने कमलाकर राम (सं० 2774114 वाई० अब जे० सी०—212548 एफ०)—09 मार्च 1991*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जनवरी 1991 से दी जाती है।)

हवलदार सालुखे प्रकाश रामचन्द्र (सं० 2771908 वाई० अब जे० सी०—212549 के०)—07 मार्च 1991*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जनवरी 1991 से दी जाती है।)

हवलदार त्रिजेन्द्र सिंह (सं० 3166996 पी० अब जे० सी०—212550 वाई०)—06 फरवरी 1991।

हवलदार नागाप्पा चापगाँवी (सं० 2774030 एल० अब जे० सी०—212551 एफ०)—06 फरवरी 1991।

हवलदार लिपिक धिलकन व्ही एम० (सं० 2766809 एम० अब जे० सी०—212552 के०)—01 जुलाई 1991।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रणदिने नारायण रामू (सं० 2766383 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212553 एम०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार अप्पासाहेब कोतवाल (सं० 2770157 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212554 पी०)—01 मार्च 1991।

हवलदार विजय लक्ष्मण जांभलकर (सं० 2774904 एन० अब जे० सी०—212555 एक्स०)—01 मार्च 1991।

हवलदार मर्जाद बा० ए० (सं० 2773443 एच० अब जे० सी०—212556 ए०)—01 मार्च 1991।

हवलदार पाटील सूर्यकांत बालाराम (सं० 2769318 एफ० अब जे० सी०—212557 एच०)—01 मई 1991।

हवलदार भोंसले मधुकर सोपान (सं० 2764966 ए० अब जे० सी०—212558 एल०)—03 जुलाई 1991*।

हवलदार आनंदा मुबराब जाधव (सं० 2767474 एम० अब जे० सी०—212559 एन०)—01 जुलाई 1991।

हवलदार कोलते पांडुरंग नारायण (सं० 2764006 एफ० अब जे० सी०—212560 एच०)—16 जुलाई 1991।

हवलदार पाटील शंकर भरमू (सं० 2767546 एल० अब जे० सी०—212561 एल०)—15 जुलाई 1991।

हवलदार पुरुषोत्तम देशपांडे (सं० 2767004 एफ० अब जे० सी०—212562 एम०)—15 जुलाई 1991।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जून 1991 से दी जाती है।)

राजपूताना राइफल

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मनशा राम (सं० 2868953 पी० अब जे० सी०—212563 डब्ल्यू०)—22 जनवरी 1991*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 नवम्बर 1989 से दी जायेगी।)

हवलदार अशोक पाल सिंह (सं० 2869860 एम० अब जे० सी०—212564 वाई०)—5 जनवरी 1991।

हवलदार शेर सिंह (सं० 2869888 एम० अब जे० सी०—212565 एफ०)—7 जनवरी 1991।

हवलदार मलखान सिंह (सं० 2866514 एल० अब जे० सी०—212566 के०)—8 फरवरी 1991।

हवलदार राम किशन (सं० 2868335 के० अब जे० सी०—212567 के०)—1 मई, 1991।

हवलदार निहाल सिंह (सं० 2871447 पी० अब जे० सी०—212568 पी०)—4 मार्च 1991*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 1991 से दी जायेगी।)

हवलदार बल राम सिंह (सं० 2868288 एक्स० अब जे० सी०—212569 एक्स०)—26 अप्रैल 1991*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 मार्च 1991 से दी जायेगी।)

हवलदार श्री राम जाट (सं० 2867164 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212570 एम०)—13 अप्रैल 1991।

हवलदार भंवर सिंह (सं० 2867858 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212571 पी०)—12 जुलाई 1991*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 जून 1991 से दी जायेगी।)

हवलदार जिले सिंह (सं० 2866936 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212572 एक्स०)—20 जून 1991।

हवलदार दिलबाग सिंह (सं० 2873267 एल० अब जे० सी०—212573 ए०)—1 जुलाई 1991।

हवलदार धरम पाल (सं० 2869596 के० अब जे० सी०—212574 एच०)—1 अगस्त 1991।

हवलदार गिरवर सिंह भोखावत (सं० 2871018 एन० अब जे० सी०—212575 एल०)—1 अगस्त 1991।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क कृष्णा भगवान शर्मा (सं० 2864202 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212576 एन०)—28 अप्रैल 1991*

*(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार क्लर्क सुलतान सिंह जाट (सं० 2862974 पी० अब जे० सी०—212577 डब्ल्यू०)—1 जुलाई 1991।

हवलदार क्लर्क हवलदार सिंह (सं० 2865070 ए० अब जे० सी०—212578 वाई०)—1 जुलाई 1991।

हवलदार क्लर्क रमेश चन्व शर्मा (सं० 2865440 पी० अब जे० सी०—212579 एफ०)—1 जुलाई 1991।

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं० 2869450 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212580 डब्ल्यू०)—1 मई 1991*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 1989 से दी जायेगी)

हवलदार मुखबीर सिंह (सं० 2866501 एन० अब जे० सी०—212581 वाई०)—1 दिसम्बर 1990।

हवलदार जयपाल सिंह (सं० 2863505 वाई० अब जे० सी०—212582 एफ०)—28 दिसम्बर 1990

हवलदार राम फल सिंह साहू (सं० 2869836 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212583 के०)—4 जून 1991*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 दिसम्बर 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार जगत सिंह (सं० 2866065 एफ० अब जे० सी०—212584 एम०)—1 जनवरी 1991।

हवलदार तुलसी राम (सं० 2868238 एम० अब जे० सी०—212585 पी०)—1 फरवरी 1991।

हवलदार चरन सिंह उदय सिंह (सं० 2871678 एल० अब जे० सी०—212586 एक्स०)—26 मई 1991*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार चन्द्रभान (सं० 2871833 एफ० अब जे० सी०—212587 ए०)—1 मई 1991।

हवलदार प्रताप सिंह (सं० 2867276 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212588 एच०)—6 मई 1991।

हवलदार सुमेर सिंह राठौर (सं० 2869412 ए० अब जे० सी०—212589 एल०)—10 मई 1991।

हवलदार हरी सिंह (सं० 2864208 एक्स० अब जे० सी०—212590 ए०)—18 मई 1991।

हवलदार हरवत्त सिंह (सं० 2864047 ए० अब जे० सी०—212591 एच०)—1 जून 1991।

राजपूत रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राम निवास (सं० 2972822 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212592 एल०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार राम सिंह (सं० 2965922 वाई० अब जे० सी०—212593 एन०)—09 जनवरी 1991।

हवलदार लीलाधर (सं० 2967169 के० अब जे० सी०—212594 डब्ल्यू०)—04 मार्च 1991*

*(ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 09 जनवरी 1991 से दी जायेगी)

हवलदार धर्मपाल (सं० 2973244 वाई० अब जे० सी०—212595 वाई०)—26 जनवरी 1991।

हवलदार महावीर सिंह (सं० 2966561 एक्स० अब जे० सी०—212596 एफ०)—01 फरवरी 1991।

हवलदार सारदा राम (सं० 2972210 वाई० अब जे० सी०—212597 के०)—01 फरवरी 1991।

हवलदार महेश चन्द्र बूबे (सं० 2972034 एम० अब जे० सी०—212598 एम०)—01 फरवरी 1991।

हवलदार राज कुमार (सं० 2970276 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212599 पी०)—01 मार्च 1991।

हवलदार कैलाश सिंह (सं० 2964175 एम० अब जे० सी०—212600 वाई०)—01 जून 1991।

हवलदार सूरज देव सिंह (सं० 2963442 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212601 एफ०)—01 जुलाई 1991।

हवलदार आनन्द सिंह (सं० 2968849 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212602 के०)—01 जुलाई 1991।

हवलदार मूल सिंह (सं० 2971376 एन० अब जे० सी०—212603 एम०)—01 जुलाई 1991।

हवलदार दिनेश पाल सिंह (सं० 2969125 एल० अब जे० सी०—212604 एल०)—01 अप्रैल 1991।

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क धर्म नाथ त्रिपाठी (सं० 2971621 एल० अब जे० सी०—212605 एल०)—27 जून 1991*

*(ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 1991 से दी जायेगी)।

जाट रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मंसा राम (सं० 3162609 एक्स० अब जे० सी०—212606 ए०)—1 अक्टूबर 1990।

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं० 3162661 ए० अब जे० सी०—212607 ए०)—1 अक्टूबर 1990।

हवलदार काशी राम सहारन (सं० 3162665 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212608 ए०)—26 नवम्बर 1990*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार मोहर सिंह (सं० 3163401 ए० अब जे० सी०—212609 ए०)—1 मार्च 1991*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार जवाहर सिंह (सं० 3163620 ए० अब जे० सी०—212610 ए०)—7 नवम्बर 1990*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार पृथ्वी सिंह (सं० 3164499 ए० अब जे० सी०—212611 ए०)—1 अक्टूबर 1990।

हवलदार भोजराज सिंह (सं० 3164502 ए० अब जे० सी०—212612 ए०)—10 मई 1991*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार साहब सिंह (सं० 3164375 एक्स० अब जे० सी०—212613 डब्ल्यू०)—1 नवम्बर 1990।

हवलदार रुकमबीर सिंह (सं० 3159976 वाई० अब जे० सी०—212614 वाई०)—17 अप्रैल 1991।

हवलदार रघुबीर सिंह (सं० 3164055 ए० अब जे० सी०—212615 ए०)—17 मई 1991।

हवलदार होशियार सिंह (सं० 3164691 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212616 के०)—1 जून 1991।

हवलदार रामेश्वर सिंह कुलहरी (सं० 3164294 एक्स० अब जे० सी०—212617 ए०)—24 जून 1991।

हवलदार सूबे सिंह (सं० 3163613 ए० अब जे० सी०—212618 पी०)—1 जुलाई 1991।

सिख रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

सी० एच० एम० तीर्थ सिंह (सं० 3369850 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212619 एक्स०)—1 जनवरी 1991।

सी० एच० एम० जगीर सिंह (सं० 3373247 ए० अब जे० सी०—212620 ए०)—30 जनवरी 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1991 से दी जाती है)।

सी० एच० एम० हरजिन्द सिंह (सं० 3373343 ए० अब जे० सी०—212621 पी०)—1 फरवरी 1991।

हवलदार विदार सिंह (सं० 3372906 ए० अब जे० सी०—212622 एक्स०)—1 मार्च 1991।

सी० एच० एम० बलदेव सिंह (सं० 3370727 के० अब जे० सी०—212623 ए०)—6 मार्च 1991।

हवलदार सुन्दर सिंह (सं० 3372479 एक्स० अब जे० सी०—212624 ए०)—3 अप्रैल 1991।

हवलदार मन्बन सिंह (सं० 3376049 ए० अब जे० सी०—212625 ए०)—3 अप्रैल 1991।

हवलदार गुरबचन सिंह (सं० 3375835 एक्स० अब जे० सी०—212626 ए०)—3 अप्रैल 1991।

हवलदार हरमजन सिंह (सं० 3377916 ए० अब जे० सी०—212627 डब्ल्यू०)—1 मार्च 1991।

हवलदार कशमीर सिंह (सं० 3371904 ए० अब जे० सी०—212628 वाई०)—1 अप्रैल 1991।

सी० एच० एम० गुरनाम सिंह (सं० 3372942 ए० अब जे० सी०—212629 ए०)—7 अप्रैल 1991।

हवलदार निरबैर सिंह (सं० 3372338 ए० अब जे० सी०—212630 डब्ल्यू०)—21 अप्रैल 1991।

हवलदार मुरुमेज सिंह (सं० 3370997 वाई० अब जे० सी०—212631 वाई०)—1 मई 1991।

हवलदार बलबीर सिंह (सं० 3370425 एक्स० अब जे० सी०—212632 ए०)—28 जून 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 1991 से दी जाती है)।

नायब सूबेदार कर्क के रैंक में

हवलदार कर्क बिलजीत सिंह (सं० 3370838 ए० अब जे० सी०—212633 के०)—1 अगस्त 1991।

हवलदार सुरजीत सिंह (सं० 3374415 ए० अब जे० सी०—212634 ए०)—3 अप्रैल 1991।

नायब सूबेदार कर्क के रैंक में

हवलदार कर्क सुरजीत सिंह (सं० 3370497 ए० अब जे० सी०—212635 पी०)—1 मई 1991।

हवलदार कर्क रमेश चन्द (सं० 3370576 डब्ल्यू० अब जे० सी०—212636 एक्स०)—1 जुलाई 1991।

हवलदार क्लर्क बलकार सिंह (सं० 3370765 ए
अब जे० सी०-212637 ए)---1 जुलाई 1991 ।

हवलदार क्लर्क केशव सिंह (सं० 3370197 ए अब
जे० सी०-212638 एच)---1 अगस्त 1991 ।

मिस्त्र लार्डट इन्फैन्ट्री
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धरमन सिंह (सं० 4454794 डब्ल्यू अब जे०
सी०-212639 एल)---28 अक्टूबर 1990 ।

हवलदार सुरजीत सिंह (सं० 4455544 एफ अब जे०
सी०-212640 ए)---28 अक्टूबर 1990 ।

हवलदार प्रीतम सिंह (सं० 4452818 डब्ल्यू अब जे०
सी०-212641 एच)---1 जनवरी 1991 ।

हवलदार सुरिन्दर सिंह (सं० 4452485 पी अब जे०
सी०-212642 एल)---1 जनवरी 1991 ।

हवलदार जागीर सिंह (सं० 4453744 वाई अब
जे० सी०-212643 एन)---21 जनवरी 1991 ।

हवलदार मंगल सिंह (सं० 4452020 पी अब जे०
सी०-212644 डब्ल्यू)---1 मार्च 1991 ।*

हवलदार बलबीर सिंह (सं० 4454117 वाई अब
जे० सी०-212645 वाई)---6 जुलाई 1991 ।**

हवलदार बहादुर सिंह (सं० 4453522 के अब जे०
सी०-212646 एफ)---16 जुलाई 1991 ।@

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1991 से
दी जाएगी) ।

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 मई 1991 से
दी जाएगी) ।

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 मई 1991 से
दी जाएगी) ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) नक्षत्र सिंह (सं० 4452279 एल
अब जे० सी०-212647 के)---1 जून 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) जीत सिंह (सं० 4452661 एफ अब
जे० सी० 212648 एम०) 01 जुलाई 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) जोगिन्दर सिंह (सं० 4449978 एल
अब जे० सी०-212649 पी)---17 जुलाई 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1991 से
दी जाएगी) ।

डोगरा रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलबन्त सिंह बी०एस०एम० (सं० 3969902
वाई अब जे० सी०-212650 के)---1 जनवरी 1991 ।

हवलदार रमेश चन्द (सं० 3968746 एन अब जे०
सी०-212651 एम)---24 मार्च 1991 ।

हवलदार ओम प्रकाश (सं० 3968447 पी अब जे०
सी०-212652 पी)---24 मार्च 1991 ।

हवलदार पूरन चन्द (सं० 3970885 डब्ल्यू अब
जे० सी०-212653 एक्स)---30 मार्च 1991 ।

हवलदार जगदीश कुमार (सं० 3971629 एन अब जे०
सी०-212654 ए)---30 मार्च 1991 ।

हवलदार रमेश चन्द (सं० 3968794 एन अब जे०
सी०-212655 एच)---1 मई 1991 ।

हवलदार कन्हैया लाल वर्मा (सं० 3972492 एल
अब जे० सी०-212656 एल)---1 मई 1991 ।

हवलदार हुकम चन्द (सं० 3967312 एफ अब
जे० सी०-212657 एन)---12 मई 1991 ।

हवलदार विमल दास (सं० 3964668 के अब जे०
सी०-212658 डब्ल्यू)---1 अगस्त 1991 ।

हवलदार हरबंस लाल (सं० 3970382 एल अब
जे० सी०-212659 वाई)---6 मई 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 9 अप्रैल 1991 से
दी जाएगी) ।

हवलदार संसार चन्द (सं० 3971598 वाई अब जे०
सी०-212660 एन)---1 जुलाई 1991 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क जसबन्त सिंह राणा (सं० 3970656 एल
अब जे० सी०-212661 डब्ल्यू)---1 अगस्त 1991 ।

गढ़वाल रायफर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुरेन्द्र प्रसाद गौड़ (सं० 4051990 एक्स
अब जे० सी०-212662 वाई)---6 जुलाई 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 1991 से
दी जाती है) ।

हवलदार केदार सिंह चौधरी (सं० 4051840 एफ
अब जे० सी०-212663 एफ)---10 जून 1991 ।

हवलदार धन सिंह (सं० 4051423 पी अब जे० सी०-
212664 के)---17 जून 1991 ।

हवलदार सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा (सं० 4054823 एम अब
जे० सी०-212665 एम)---17 जून 1991 ।

दि कुमाऊं रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गिरीश चन्द्र उप्रेती (सं० 4166209 बाई अब जे० सी०-212666 पी)---26 जून 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार रामेश्वर दयाल (सं० 4163162 एन अब जे० सी०-212667 एक्स)---14 नवम्बर 1990 ।

हवलदार दलीप सिंह (सं० 4171923 एच अब जे० सी०-212668 ए)---1 जनवरी 1991 ।

हवलदार आनन्द मोहन पाण्डे (सं० 4171264 बाई अब जे० सी०-212669 एच)---1 जनवरी 1991 ।

हवलदार हर्ष सिंह एस० एम० (सं० 4169498 के अब जे० सी०-212670 एक्स)---7 जनवरी 1991 ।

हवलदार तेज सिंह बोरा (सं० 4170514 एच अब जे० सी०-212671 ए)---1 फरवरी 1991 ।

हवलदार मदन सिंह (सं० 4166868 एन अब जे० सी०-212672 एच)---1 मार्च 1991 ।

हवलदार बिरजू मोहन (सं० 4170263 के अब जे० सी०-212673 एल)---17 मार्च 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार जय सिंह (सं० 4166221 ए अब जे० सी०-212674 एन)---1 मार्च 1991 ।

सी० एच० एम० राज किशोर राम (सं० 4160279 एफ अब जे० सी०-212675 डब्ल्यू)---22 मई 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 1991 मई से दी जायेगी) ।

हवलदार श्योताज सिंह (सं० 4163985 एन अब जे० सी०-212676 बाई)---10 जून 1991 ।

हवलदार बलवीर सिंह (सं० 4163805 ए अब जे० सी०-212677 एफ)---1 जुलाई 1991 ।

हवलदार बलवीर सिंह (सं० 4163839 एन अब जे० सी०-212678 के)---1 जुलाई 1991 ।

हवलदार होशियार सिंह (सं० 4169382 एन अब जे० सी०-212679 एम)---1 जुलाई 1991 ।

हवलदार मुन्शी राम यादव (सं० 4167588 एम अब जे० सी०-212680 एफ)---1 जुलाई 1991 ।

हवलदार चन्दरी राम (सं० 4163986 डब्ल्यू अब जे० सी०-212681 के)---1 जुलाई 1991 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क प्रेम सिंह (सं० 4162725 डब्ल्यू अब जे० सी०-212682 एम)---1 जुलाई 1991 ।

हवलदार क्लर्क रघुवीर सिंह (सं० 4162759 के अब जे० सी०-212683 पी)---1 जुलाई 1991 ।

हवलदार क्लर्क हुकुम सिंह घानू (सं० 4162911 एम अब जे० सी०-212684 एक्स)---1 जुलाई 1991 ।

दि नागा रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार एन० लोहरी माउ (सं० 14700895 एम अब जे० सी०-212685 ए)---29 मई 1991 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) उदय नारायण सिंह (सं० 4162130 बाई अब जे० सी०-212686 एच)---4 अप्रैल 1991 ।

दि कुमाऊं रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राम सिंह रावत (सं० 4167551 एच अब जे० सी०-12687 एल)---13 अप्रैल 1991 ।

हवलदार भगवान सिंह (सं० 4166212 बाई अब जे० सी०-212688 एन)---23 अप्रैल 1991 ।

सी० एच० एम० महा सिंह (सं० 4165015 के अब जे० सी०-212689 डब्ल्यू)---1 अगस्त 1991 ।

सी० एच० एम० शेर सिंह (सं० 4165832 एच अब जे० सी०-212690 एल)---2 अगस्त 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार जगदीश प्रसाद (सं० 4160453 एच अब जे० सी०-212691 एन)---1 अगस्त 1991 ।

हवलदार कर्कर सिंह (सं० 4167267 पी अब जे० सी०-212692 डब्ल्यू)---30 नवम्बर 1990 ।

हवलदार गम्भीर सिंह (सं० 4169070 एन अब जे० सी०-212693 बाई)---1 दिसम्बर 1990 ।

हवलदार कृष्ण सिंह (सं० 4168398 एम अब जे० सी०-212694 एफ)---1 दिसम्बर 1990 ।

हवलदार ध्यान सिंह (सं० 4168141 एफ अब जे० सी०-212695)---1 जनवरी 1991 ।

हवलदार जनक सिंह (सं० 4166318 एल अब जे० सी०-212696 एम)---1 जनवरी 1991 ।

हवलदार प्रेम सिंह (सं० 4167814 बाई अब जे० सी०-212697 पी)---11 जनवरी 1991 ।

दि नागा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

सी० एच० एम० खीम सिंह (सं० 4161803 डब्ल्यू
अब जे० सी०-212698 एक्स) — 1 मई 1991 ।

दि कमांड रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धर्मवीर सिंह (सं० 4167781 वाई अब जे०
सी०-212699 ए) — 8 जनवरी 1991 ।

हवलदार भगवान सिंह (सं० 4166878 एक्स अब
जे० सी०-212700 के) — 12 मार्च 1991 ।

हवलदार खडक सिंह (सं० 4167503 एल अब जे०
सी०-212701 एम) — 12 मार्च 1991 ।

हवलदार तिलोग सिंह (सं० 4163580 एच अब जे०
सी०-212702 पी) — 11 जून 1991 ।

हवलदार नैम सिंह (सं० 4163807 एल अब जे० सी०-
212703 एक्स) — 1 जुलाई 1991 ।

हवलदार जय राम यादव (सं० 4163916 एक्स अब
जे० सी०-212704 ए) — 1 जुलाई 1991 ।

आर० पी० एच० एम० मदन सिंह (सं० 4161968
पी अब जे० सी०-212705 एच) — 1 अगस्त 1991 ।

हवलदार महरवान सिंह (सं० 4164071 डब्ल्यू अब
जे० सी०-212706 एल) — 15 अगस्त 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1991 से
दी जायेगी) ।

सी० एच० एम० किशन सिंह (सं० 4165430 एल अब
जे० सी०-212707 एन) — 5 अगस्त 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1991 से
दी जायेगी) ।

आसाम रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार दायानिधि सवाई (सं० 4349555 एच० अब
जे० सी०-212708 डब्ल्यू०) — 17 मई 1990 ।

हवलदार विल बहादुर छेत्री (सं० 4348311 एच० अब
जे० सी०-212709 वाई०) — 13 नवम्बर, 1990 ।

हवलदार जिवलाल लामशाल (सं० 4346655 एच०
अब जे० सी०-212710 एन०) — 01 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार री एमहोदयंग (सं० 4344345 वाई० अब
जे० सी०-212711 डब्ल्यू०) — 01 जनवरी, 1991 ।

हवलदार लाल खोलाम (सं० 4347345 के० अब जे०
सी०-212712 वाई०) — 16 जनवरी, 1991 ।*

हवलदार खीमन बासायिल (सं० 2569802 के०
अब जे० सी०-212713 एफ०) — 01 जनवरी, 1991 ।

हवलदार नर बहादुर (सं० 4348120 एन० अब जे०
सी०-212714 के०) — 01 जनवरी, 1991 ।

हवलदार सी एरु खोलाल गांते (सं० 4347816
एम० अब जे० सी०-212715 एम०) — 01 जनवरी, 1991 ।

हवलदार वन्देवर राभा (सं० 4348391 एल० अब
जे० सी०-212716 पी०) — 03 फरवरी, 1991 ।

हवलदार खाबा घंगामी (सं० 4346750 पी० अब
जे० सी०-212717 एक्स०) — 03 फरवरी, 1991 ।

हवलदार अतुल चन्द्र बरमान (सं० 4349108 वाई०
अब जे० सी०-212718 ए०) — 03 फरवरी, 1991 ।

हवलदार परशुराम कर (सं० 4349468 पी० अब जे०
सी०-212719 ए०) — 03 फरवरी, 1991 ।

हवलदार लाल पि अनमावीर (सं० 4347675 एच०
अब जे० सी०-212720 एक्स०) — 24 मार्च, 1991 ।%

हवलदार उमेश चन्द्र दाम (सं० 4348570 एल० अब
जे० सी०-212721 ए०) — 16 मार्च, 1991 ।

हवलदार के० कमान (सं० 2575853 एन० अब जे०
सी०-212722 एच०) — 01 मार्च, 1991 ।

हवलदार जिवान चन्द्र राजखोवा (सं० 4348063 एक्स
अब जे० सी०-212723 एल०) — 16 मार्च, 1991 ।

हवलदार बाबू एम० एस० एम० (सं० 13855286
एफ० अब जे० सी०-212724 एन०) — 03 अप्रैल, 1991 ।*

हवलदार तीर्थनाथ शर्मा (सं० 4348881 वाई० अब
जे० सी०-212725 डब्ल्यू०) — 01 मई, 1991 ।

हवलदार रन्जीत कुमार बास (सं० 4350139 एल०
अब जे० सी०-212726 वाई०) — 01 जून, 1991 ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी) ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1991 से दी जायेगी) ।

बिहार रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बन्शी यादव (सं० 4253457 एल० अब जे०
सी०-212727 एफ०) — 01 जनवरी, 1991 ।

हवलदार श्री कृष्णा सिंह (सं० 4250089 डब्ल्यू०
अब जे० सी०-212728 के०) — 04 जून, 1991 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) राजेन्द्र राय (सं० 4249067 एल० अब जे० सी०-212729 एम०)---01 जून, 1991।*

* (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 21 अक्टूबर 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार (क्लर्क) विष्णु पदा चक्रवर्ती (सं० 4251068 एम० अब जे० सी०-212730 एफ०)---01 जुलाई, 1991।

नायब सूबेदार के रैंक में

सी० एच० एम० लक्ष्मी मिश्रा (सं० 4255990 वाई० अब जे० सी०-212731 के०)---18 अक्टूबर, 1990।

हवलदार नवल किशोर गिरी (सं० 4251349 एच० अब जे० सी०-212732 एम०)---22 मई, 1991।*

* वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार इन्द्रजीत बहादुर राय (सं० 4251728 वाई० अब जे० सी०-212733 पी०)---18 जनवरी, 1991।*

* (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

सी० एच० एम० सहन्ता किसकु (सं० 4253806 के० अब जे० सी०-212734 एक्स०)---01 जनवरी, 1991।

सी० एच० एम० शिववानी शर्मा (सं० 4250411 एक्स० अब जे० सी०-212735 ए०)---02 जनवरी, 1991।

हवलदार ओम प्रकाश राजभार (सं० 4250200 पी० अब जे० सी०-212736 एच०)---02 जनवरी, 1991।

हवलदार प्रेम सिंह रावत (सं० 4051689 एफ० अब जे० सी०-212737 एल०)---01 फरवरी, 1991।

सी० एच० एम० कृष्णा नन्ध सिंह (सं० 4249493 वाई० अब जे० सी०-212738 एन०)---01 फरवरी, 1991।

हवलदार सुकैराम यादव (सं० 4250569 ए० अब जे० सी०-212739 एम०)---01 अप्रैल, 1991।

हवलदार घुरा ओरॉव (सं० 4255483 एल० अब जे० सी०-212740 एल०)---30 अप्रैल, 1991।

हवलदार राम करण राय (सं० 4252886 ए० अब जे० सी०-212741 एन०)---01 जून, 1991।

हवलदार भीमसिंह सिंह (सं० 4254143 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212742 डब्ल्यू०)---01 जून, 1991।

8-464GI/91

हवलदार मनमिह गामद (सं० 4251531 एच० अब जे० सी०-212743 वाई०)---01 जून, 1991।

हवलदार ललन प्रसाद (सं० 4252415 एम० अब जे० सी०-212744 एफ०)---01 जुलाई, 1991।

हवलदार गोरे लाल प्रसाद मिह (सं० 4252911 एन० अब जे० सी०-212745 के०)---01 जुलाई, 1991।

सी० एच० एम० विरेन्द्र मिह (सं० 4249148 एल० अब जे० सी०-212746 एम०)---01 जुलाई, 1991।

हवलदार लक्ष्मण यादव (सं० 4254614 वाई० अब जे० सी०-212747 पी०)---05 जुलाई, 1991।

सी० एच० एम० राजेश्वर ठाकुर (सं० 4249847 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212748 एक्स०)---05 जुलाई, 1991।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) राम कुमार दाम (सं० 4251955 वाई० अब जे० सी०-212749 ए०)---01 अगस्त, 1991।

हवलदार (क्लर्क) राज नारायण शर्मा (सं० 4251972 वाई० अब जे० सी०-212750 पी०)---01 अगस्त, 1991।

हवलदार (क्लर्क) सरदार रणजीत मिह (सं० 4251997 एल० अब जे० सी०-212751 एक्स०)---01 अगस्त, 1991।

महार रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पयाल दयानंद केरवा (सं० 4544788 एक्स० अब जे० सी०-212752 ए०)---01 जुलाई, 1991।

हवलदार कैंगर प्रभु मन्तु (सं० 4543282 वाई० अब जे० सी०-212753 एच०)---01 जुलाई, 1991।

हवलदार फण्ण ताताजी श्रावण (सं० 4544131 एम० अब जे० सी०-212754 एल०)---01 जुलाई, 1991।

हवलदार मधुकर पाण्डुरंग खन्डारे (सं० 4544894 एच० अब जे० सी०-212755 एन०)---01 जुलाई, 1991।

हवलदार पवार गुलाब गनपति (सं० 4543577 पी० अब जे० सी०-212756 डब्ल्यू०)---01 जुलाई, 1991।

हवलदार निर्मल सिंह (सं० 3378426 पी० अब जे० सी०-212757 वाई०)---01 जुलाई, 1991।

हवलदार नानावारे रामचन्द्र शंकर (सं० 4544190 वाई० अब जे० सी०-212758 एफ०)---01 जुलाई, 1991।

हवलदार माखन दास (सं० 9215198 वाई० अब जे० सी०-212759 के०)---31 जुलाई, 1991।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 1991।

हवलदार मोहम्मद शरीफ (सं० 9212710 एफ० अब जे० सी०-212760 वाई०)---25 अप्रैल, 1991।

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक बिधी चन्द (सं० 9212674 एफ० अब जे० सी०-212761 एफ०)—20 अगस्त 1991।*

*(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून, 1991)।

हवलदार लिपिक नरेन्द्रा प्रसाद राय (सं० 9212712 एम० अब जे० सी०-212762 के)—01 अगस्त, 1991।

जम्मू और काश्मीर राइफल्स

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक बलबीर सिंह (सं० 13733494 एफ० अब जे० सी०-212763 एम०)—04 मई, 1991।

हवलदार लिपिक हजारा सिंह असरोटिया (सं० 13733642 एफ० अब जे० सी०-212764 पी०)—01 जुलाई, 1991।

हवलदार लिपिक रमेश चन्द (सं० 13733701 एच० अब जे० सी०-212765 एक्स०)—01 जुलाई, 1991।

नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

हवलदार मिलाप चन्द (सं० 13735692 एल० अब जे० सी०-212766 ए०)—01 जनवरी, 1991।

हवलदार सतपाल खम्बियाल (सं० 13733480 एफ० अब जे० सी०-212767 एच०)—17 मार्च, 1991*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार कमर सिंह (सं० 13735500 एच० अब जे० सी०-212768 एल०)—29 अप्रैल, 1991:।

:(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार कुशल सिंह (सं० 13734663 के० अब जे० सी०-212769 एन०)—01 जून, 1991।

हवलदार राज कुमार (सं० 13731970 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212770 एच०)—24 जून, 1991=।

=(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जनवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार बलदेव सिंह (सं० 13733520 एक्स० अब जे० सी०-212771 एल०)—01 जुलाई, 1991।

हवलदार चरणजित सिंह (सं० 13733539 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212772 एन०)—01 जुलाई, 1991।

हवलदार बलदेव सिंह कडवाल (सं० 13734069 एच० अब जे० सी०-212773 डब्ल्यू०)—01 जुलाई, 1991।

जम्मू और काश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार शंकर दाम (सं० 3968692 वाई० अब जे० सी०-212774 वाई०)—28 मई, 1991*।

*(01 अक्टूबर, 1990 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिये)।

हवलदार श्याम प्रसाद (सं० 9079595 पी० अब जे० सी०-212775 एफ०)—12 जून, 1991**।

**(10 जनवरी 1991 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिये)।

हवलदार सतपाल (सं० 9080840 वाई० अब जे० सी० 212776 के)—12 जून, 1991***।

*** (10 जनवरी 1991 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिये)।

हवलदार रघुनाथ सिंह (सं० 9080671 एच० अब जे० सी०-212777 एम०)—12 जून, 1991%।

%(01 अप्रैल, 1991 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिये)।

हवलदार मोहम्मद हनीफ (सं० 9080803 एल० अब जे० सी०-212778 पी०)—12 जून, 1991%%।

%% (01 अप्रैल, 1991 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिये)।

हवलदार बाबू राम (सं० 9079615 एक्स० अब जे० सी० 212779 एक्स०)—01 अप्रैल, 1991।

हवलदार परम राम (सं० 3970125 एक्स० अब जे० सी० 212780 एम०)—07 जनवरी, 1991।

हवलदार रमेश लाल (सं० 2461179 पी० अब जे० सी०-212781 पी०)—13 जुलाई, 1991*।

*(01 अप्रैल, 1991 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिये)।

हवलदार जगदेव सिंह (सं० 3969079 पी० अब जे० सी०-212782 एक्स०)—13 जुलाई, 1991**।

** (19 जून 1991 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिये)।

11 जी० आर०

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक नन्द राम (सं० 9412039 ए० अब जे० सी०-212783 ए०)—16 जून, 1991*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जून, 1991 से दी जायेगी)।

1 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मन बहादुर राना (सं० 5039323 एन० अब जे० सी०-212784 एच०)---12 मई, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार दल बहादुर थापा (सं० 5039185 एक्स० अब जे० सी०-212785 एल०)---21 जून, 1991= ।

=(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 अप्रैल, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार थन बहादुर गुरुंग (सं० 5039223 एच० अब जे० सी०-212786 एन०)---4 जुलाई, 1991'' ।

''(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 अप्रैल, 1991 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) रविन्दर सिंह (सं० 5039465 एल० अब जे० सी०-212787 डब्ल्यू०)---1 अगस्त, 1991

हवलदार (लिपिक) तरसेम मिह (सं० 5039611 ए० अब जे० सी०-212788 वाई०)---1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार (लिपिक) राम हर्ष (सं० 5039719 एक्स० अब जे० सी०-212789 एफ०)---1 अगस्त, 1991 ।

4 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार चन्द्रा बहादुर मगर (सं० 5340315 ए० अब जे० सी०-212790 डब्ल्यू०)---13 जुलाई, 1991 ।

3 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हेमन्त कुमार गुरुंग (सं० 5241371 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212791 वाई०)---29 दिसम्बर, 1990* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार भूपल सिंह थापा (सं० 5240867 वाई० अब जे० सी०-212792 एफ०)---01 जनवरी, 1991 ।

हवलदार तोप बहादुर थापा (सं० 5240905 के० अब जे० सी०-212793 के०)---07 जनवरी, 1991 ।

हवलदार भीम बहादुर थापा (सं० 5240708 एफ० अब जे० सी०-212794 एम०)---01 जुलाई, 1991 ।

8 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कृष्ण बहादुर थापा (सं० 5744579 एम० अब जे० सी०-212795 पी०)---01 जुलाई 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार रूत बहादुर सिंगापती (सं० 5745416 एल० अब जे० सी०-212796 एक्स०)---01 जनवरी 1991 ।

हवलदार केहर सिंह वेंगा (सं० 5745422 वाई० अब जे० सी०-212797 ए०)---01 जनवरी 1991 ।

हवलदार खेत बहादुर मालमी (सं० 5745433 एल० अब जे० सी०-212798 एच०)---17 जनवरी 1991 ।

£(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार हंक बहादुर पुन (सं० 5745582 वाई० अब जे० सी०-212799 एल०)---01 जनवरी 1991 ।

हवलदार हम बहादुर थापा (सं० 5745590 एक्स० अब जे० सी०-212800 पी०)---04 फरवरी 1991@ ।

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार जस बहादुर गुरुंग (सं० 5746202 एफ० अब जे० सी०-212801 एक्स०)---21 मई 1991% ।

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 फरवरी 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार मंगल बहादुर गुरुंग (सं० 5746798 एम० अब जे० सी०-212802 ए०)---01 जुलाई 1991 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) हरि सिंह (सं० 5745739 एन० अब जे० सी०-212803 एच०)---01 जुलाई 1991 ।

5 जी० आर० (एफ० एफ०)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मुक बहादुर गुरुंग (सं० 5444279 एम० अब जे० सी०-212804 एल०)---1 जनवरी 1991 ।

हवलदार राम प्रसाद गुरुंग (सं० 5444339 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212805 एन०)---1 जनवरी 1991 ।

हवलदार जग बहादुर गुरुंग (सं० 5444465 एच० अब जे० सी०-212806 डब्ल्यू०)---1 जनवरी 1991 ।

हवलदार मन बहादुर पुन (सं० 5443396 एल० अब जे० सी०-212807 वाई०)---1 मार्च 1991 ।

हवलदार हरी कृष्णा खत्री (सं० 5444154 पी० अब जे० सी०-212808 एफ०)---1 मई 1991 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) राजेन्द्र सिंह ठाकुर (सं० 5443778 पी० अब जे० सी०-212809 के०)--1 जून 1991।

हवलदार सुम बहादुर गुर्खंग (सं० 5445470 ए० अब जे० सी०-212810 वाई०)--18 अप्रैल 1991*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार धन बहादुर गुर्खंग (सं० 5445697 एन० अब जे० सी०-212811 एफ०)--1 फरवरी 1991।

हवलदार प्रदीप गुर्खंग (सं० 5445815 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212812 के०)--1 मार्च 1991।

हवलदार चित्त बहादुर गुर्खंग (सं० 5445765 डब्ल्यू० अब जे० सी०-212813 एम०)--1 मार्च 1991।

हवलदार आनन्द बहादुर चन्द (सं० 5445875 एल० अब जे० सी०-212814 पी०)--1 मार्च 1991।

गारुड ब्रिगेड

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बल बहादुर भंडारी (सं० 13668596 एफ० अब जे० सी०-210866 एम०)--11 जुलाई 1990।

हवलदार वासी राम (सं० 13666903 पी० अब जे० सी०-210867 पी०)--01 नवम्बर 1990।

हवलदार मोहन सिंह (सं० 13667707 एफ० अब जे० सी० 210868-एक्स०)--20 नवम्बर 1990*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार सत्य पाल (सं० 13671148 ए० अब जे० सी०-210869 ए०)--01 दिसम्बर 1990।

हवलदार लखमी चन्द (सं० 13667845 के० अब जे० सी०-210870 पी०)--01 जनवरी 1991।

हवलदार सीस राम (सं० 13667844 ए० अब जे० सी०-210871 एक्स०)--05 मार्च 1991**।

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार राजबीर सिंह (सं० 13667879 डब्ल्यू० अब जे० सी०-210872 ए०)--16 जनवरी 1991।

हवलदार राम प्रताप वर्मा (सं० 13850148 डब्ल्यू० अब जे० सी०-210873 एक्स०)--01 फरवरी 1991।

हवलदार बलदेव सिंह (सं० 13668093 डब्ल्यू० अब जे० सी०-210874 एल०)--01 फरवरी 1991।

हवलदार गवर सिंह (सं० 13668649 पी० अब जे० सी०-210875 एन०)--01 मार्च 1991।

हवलदार नारायण सिंह (सं० 13669057 एक्स० अब जे० सी०-210876 डब्ल्यू०)--01 मार्च 1991।

हवलदार होशियार सिंह (सं० 13667071 एल० अब जे० सी०-210877 एक्स०)--01 अप्रैल 1991।

हवलदार बाबू लाल (सं० 14291612-एच० अब जे० सी०-210878 एफ०)--01 अप्रैल 1991।

पैरागुट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

सी० एच० एम० शतबीर सिंह (सं० 13610590 ए० अब जे० सी०-210879 के०)--5 जुलाई 1990।

हवलदार हेमराज सिंह (सं० 13610721 पी० अब जे० सी०-210880 वाई०)--1 अगस्त, 1990।

हवलदार पीस बहादुर थापा (सं० 13609455 पी० अब जे० सी०-210881 एफ०)--21 जनवरी, 1991*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 8 सितम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार भवानी सिंह (सं० 13608059 एम० अब जे० सी०-210882 के०)--17 अप्रैल, 1991***।

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार डोंडो राम माठे (सं० 13610017 वाई० अब जे० सी०-210883 एम०)--1 नवम्बर, 1990।

हवलदार बस्ती राम यादव (सं० 13609013 पी० अब जे० सी०-210884 पी०)--11 नवम्बर, 1990।

हवलदार बिशन दास (सं० 13609792 के० अब जे० सी०-210885 एक्स०)--23 नवम्बर, 1990***।

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 नवम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार देवी दास रामचन्द्र बेलकुन्डे (सं० 13609838 एफ० अब जे० सी०-210886 ए०)--17 नवम्बर, 1990।

हवलदार दलपत सिंह गुरजर (सं० 13608482 एम० अब जे० सी०-210887 एच०)--24 जनवरी, 1991****।

**** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार भंवर सिंह (सं० 13609657 डब्ल्यू० अब जे० सी०-210888 एल०)--1 दिसम्बर, 1990।

हवलदार रमेश चौधरी (सं० 13610056 एक्स० अब जे० सी०-210889 एन०)--1 दिसम्बर, 1990।

सी० एच० एम० लक्ष्मी नारायण (सं० 13610822 एच० अब जे० सी०-210890 एच०)—1 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार भक्ती प्रसाद पुन (सं० 13607323 एच० अब जे० सी०-210891 एल०)—14 मार्च, 1991 @ ।

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार इन्द्रजीत सिंह (सं० 13610833 पी० अब जे० सी०-210892 एन०)—1 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार सोहन सिंह (सं० 13608031 एम० अब जे० सी०-210893 डब्ल्यू०)—14 अप्रैल, 1991 @ @

@ @ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार बीरपल सिंह (सं० 13608060 एफ० अब जे० सी०-210894 बाई०)—18 जनवरी, 1991 @ @ @

@ @ @ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार महीपाल सिंह (सं० 13609074 एन० अब जे० सी०-210895 एफ०)—5 मई, 1991 @ @ @ @

@ @ @ @ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार बदन सिंह (सं० 13608813 एच० (अब जे० सी०-210896 के०)—14 दिसम्बर, 1990 @ @ @ @ @

@ @ @ @ @ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार सिधे बालू मास्ती (सं० 13609295 ए० अब जे० सी०-210897 एम०)—10 जनवरी, 1991 ।

सी० एच० एम० फूल सिंह (सं० 13608440 ए० अब जे० सी०-210898 पी०)—14 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार राजपाल सिंह (सं० 13608042 बाई० अब जे० सी०-210899 एक्स०)—8 मार्च, 1991 @

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार गोपाल राम (सं० 13609023 ए० अब जे० सी०-210900 एफ०)—14 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार गजराज सिंह (सं० 13608501 एम० अब जे० सी०-210901 के०)—24 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार तेजपाल खटाना (सं० 13608809 ए० अब जे० सी०-210902 एम०)—1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार रनबीर सिंह (सं० 13609758 के० (अब जे० सी०-210903 पी०)—1 जनवरी, 1991 ।

टी० एच० एम० प्रमोद सिंह चौहान (सं० 13610285 एच० अब जे० सी०-210904 एक्स०)—1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार अमर सिंह (सं० 13610038 पी० (अब जे० सी०-210905 ए०)—4 मार्च, 1991 @ @

@ @ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार विलोक सिंह (सं० 13609022 एक्स० (अब जे० सी०-210906 एच०)—8 जनवरी, 1991 @ @ @

@ @ @ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार श्याम सिंह (सं० 13609032 एफ० (अब जे० सी०-210907 एल०)—26 फरवरी, 1991 @ @ @ @

@ @ @ @ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार प्रकाश चन्द्र तिवारी (सं० 13606732 के० अब जे० सी०-210908 एन०)—4 फरवरी, 1991 % ।

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार गुमान सिंह (सं० 13610434 एल० (अब जे० सी०-210909 डब्ल्यू०)—1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार अमरजीत सिंह (सं० 13607897 पी० (अब जे० सी०-210910 एल०)—1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार हाडी बन्धू परिदा (सं० 13608843 ए० अब जे० सी०-210911 एन०)—27 फरवरी 1991 % % ।

% % (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार किशन सिंह (सं० 13609033 के० अब जे० सी०-210912 डब्ल्यू०)—1 जनवरी, 1991 % % %

हवलदार प्रताप राम (सं० 13609029 एफ० अब जे० सी०-210913 बाई०)—8 अप्रैल, 1991 ।

% % % (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार बलवीन्द्र सिंह (सं० 13609782 ए० अब जे० सी०-210914 एफ०)—1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार हरी सिंह (सं० 13609890 के अब जे० सी०-210915 के)---1 फरवरी 1991 ।

हवलदार रामबोर सिंह (सं० 13610350 एक्स अब जे० सी०-210916 एम)---1 फरवरी, 1991 ।

हवलदार अर्जुन सिंह (सं० 13610557 एक्स अब जे० सी०-210917 पी)---10 फरवरी 1991 ।

%%%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार धरमानन्द (सं० 13609051 एम अब जे० सी०-210918) 9 फरवरी 1991 ।

हवलदार साधू राम (सं० 13608641 वाई अब जे० सी०-210919 ए)---1 मई, 1991 ।

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं० 13609024 एच अब जे० सी०-210920 पी)---1 अप्रैल, 1991 ।

सी० एच० एम० बजेन्द्र सिंह (सं० 13608989 एन अब जे० सी०-210921 एक्स)---1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार निर्मल सिंह (सं० 13610363 पी अब जे० सी०-210922 ए)---1 अप्रैल, 1991 ।

टी० एच० एम० सागर सिंह (सं० 13608183 एन अब जे० सी०-210923 एच)---1 मई, 1991 ।

पंजाब रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार करम चन्द (सं० 2464606 एल अब जे० सी०-210924 एल)---1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार निर्मल सिंह (सं० 2465578 डब्ल्यू अब जे० सी०-210925 एन)---1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार राम सरण (सं० 2459904 एक्स अब जे० सी०-210926 डब्ल्यू)---28 जनवरी, 1991 ।

हवलदार केवल सिंह (सं० 2466635 वाई अब जे० सी०-210927 वाई)---1 फरवरी, 1991 ।

हवलदार स्वर्ण सिंह (सं० 13853169 एक्स अब जे० सी०-210928 एफ)---28 फरवरी, 1991 ।

हवलदार देवी राम (सं० 2463054 डब्ल्यू अब जे० सी०-210929 के)---7 मई, 1991 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार करनैल सिंह (सं० 2467667 एन अब जे० सी०-210930 वाई)---1 मार्च, 1991 ।

हवलदार करनैल सिंह (सं० 2466689 ए अब जे० सी०-210931 एफ)---12 मार्च, 1991 ।

हवलदार किशोरी लाल (सं० 2462598 वाई अब जे० सी०-210932 के)---19 मार्च, 1991 ।

हवलदार मुख्तार सिंह भगोत्रा (सं० 2461022 पी अब जे० सी०-210933 एम)---27 मार्च, 1991 ।

हवलदार मुख्तार राज (सं० 2461032 वाई अब जे० सी०-210934 पी)---27 मार्च, 1991 ।

हवलदार ईश्वर दास (सं० 2462862 एफ अब जे० सी०-210935 एक्स)---27 मार्च, 1991 ।

हवलदार प्रकाश चन्द (सं० 2461737 एल अब जे० सी०-210936 ए)---27 मार्च, 1991 ।

हवलदार प्रीतम सिंह (सं० 2465131 वाई अब जे० सी०-210937 एच)---1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार जगत सिंह (सं० 2461136 ए अब जे० सी०-210938 एल)---10 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार काली दास (सं० 2463133 एल अब जे० सी०-210939 एन)---10 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार नैन सिंह (सं० 2463495 एम अब जे० सी०-210940 एच)---12 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार बलवन्त सिंह (सं० 2466094 एच अब जे० सी०-210941 एल)---1 मई, 1991 ।

हवलदार वलबीर सिंह (सं० 2463381 एफ अब जे० सी०-210942 एन)---1 मई, 1991 ।

हवलदार ब्रह्मा सिंह (सं० 2465503 वाई अब जे० सी०-210943 डब्ल्यू)---1 मई, 1991 ।

मद्रास रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राजेन्द्रन टी० (सं० 2577355 ए अब जे० सी०-210944 वाई)---14 मार्च, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार विजय शंकर मिश्रा (सं० 4249639 एफ अब जे० सी०-210945 एफ)---23 मार्च, 1991 ।

हवलदार बी० एन० लक्ष्मीनारायण (सं० 2577708 पी अब जे० सी०-210946 के)---1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार कामाछी मुख्तार (सं० 2569110 पी अब जे० सी०-210947 एम)---2 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार हनुमन्तु मार्कण्डायुडु (सं० 2574886 एम अब जे० सी०-210948 पी)---2 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार एम० आर० शशिधरन नायर (सं० 2576134 एफ अब जे० सी०-210949 एक्स)---2 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार मूर्ति ए० (सं० 2574702 एच अब जे० सी०-210950 एम)---15 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार शंकर एन० (सं० 2578754 डब्ल्यू अब जे० सी०-210951 पी)---15 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार राजन एन० पी० (सं० 2579807 डब्ल्यू अब जे० सी०-210952 एक्स)---15 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार माना शेखरन डी० (सं० 2579085 पी अब जे० सी०-210953 ए)---15 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार राजन के० (सं० 2580710 एक्स अब जे० सी०-210954 एच)---15 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार आन्टो के०के० (सं० 2581242 पी अब जे० सी०-210955 एल)---15 अप्रैल, 1991 ।

ग्रिमेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं० 2661270 पी अब जे० सी०-210956 एन)---1 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार श्री राम सिंह (सं० 2664050 डब्ल्यू अब जे० सी०-210957 डब्ल्यू)---1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार जय भगवान (सं० 2664507 एम अब जे० सी०-210958 बाई)---10 फरवरी, 1991 ।

हवलदार जगमाल सिंह (सं० 2662285 के अब जे० सी०-210959 एफ)---14 फरवरी, 1991 ।

हवलदार छज्जू सिंह तनवर (सं० 2664980 एक्स अब जे० सी०-210960 डब्ल्यू)---1 मार्च, 1991 ।

हवलदार भवानी प्रसाद (सं० 2664107 ए अब जे० सी०-210961 बाई)---17 मार्च, 1991 ।

हवलदार बंटी राम जन्तु (सं० 2668031 एच अब जे० सी०-210962 एफ)---24 मई, 1991 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार बिजेन्द्रा सिंह (सं० 2664939 एफ अब जे० सी०-210963 के)---12 जून, 1991 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार शिवधनी सिंह (सं० 2663803 एल अब जे० सी०-210964 एम)---15 जून, 1991 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार राजक अली (सं० 2662820 बाई अब जे० सी०-210965 पी)---21 जून, 1991 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) नरपाल सिंह (सं० 2661766 के अब जे० सी०-210966 एक्स)---1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अमर बहादुर सिंह (सं० 2666446 बाई अब जे० सी०-210967 ए)---15 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार मंगल सिंह (सं० 2666124 बाई अब जे० सी०-210968 एच)---1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार गिरधारी सिंह (सं० 2666148 एच अब जे० सी०-210969 एल)---22 जनवरी, 1991 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार अजयपाल सिंह (सं० 2665885 एक्स अब जे० सी०-210970 ए)---1 दिसम्बर 1990 ।

हवलदार अनोप खां (सं० 2665636 बाई अब जे० सी०-210971 एच)---31 मार्च, 1991 ।

हवलदार जावर सिंह (सं० 2666029 एम अब जे० सी०-210972 एल)---27 नवम्बर, 1990 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 नवम्बर, 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार ओम पाल सिंह (सं० 2665580 एक्स अब जे० सी०-210973 एन)---1 मार्च 1991 ।

हवलदार गिरधारी सिंह राठौर (सं० 2664933 ए अब जे० सी०-210974 डब्ल्यू)---13 मार्च, 1991 ।

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं० 2665579 एच अब जे० सी०-210975 बाई)---6 अप्रैल, 1991 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) प्रकाश चन्द सौखला (सं० 2661763 डब्ल्यू अब जे० सी०-210976 एफ)---1 फरवरी, 1991 ।

हवलदार (लिपिक) रतन चन्द चन्देल (सं० 2661925 डब्ल्यू अब जे० सी०-210977 के)---1 फरवरी, 1991 ।

हवलदार (लिपिक) उमेश सिंह (सं० 2659939 एक्स अब जे० सी०-210978 एम)---1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार (लिपिक) कुलदीप सिंह (सं० 2662603 एच अब जे० सी०-210979 पी)---1 मई, 1991 ।

हवलदार (लिपिक) प्रेम लाल (सं० 2662607 बाई अब जे० सी०-210980 के)---1 मई, 1991 ।

मराठा साइट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक भास्कर (सं० 2766140 एल अब जे० सी०-210981 एम)---1 अप्रैल, 1991* ।

हवलदार लिपिक जांभले राजाराम सखाराम (सं० 2766150 पी अब जे० सी०-210982 पी)---1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार लिपिक गुंडगल कालूराम निवृत्ती (सं० 2766192 एफ अब जे० सी०-210983 एक्स)---1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार चह्माण कृष्णाजी गणपत (सं० 2766655 एल अब जे० सी०-210984 ए)---9 अप्रैल, 1991* ।

*(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1991 से दी जाती है) ।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार आंबरे विजयकुमार जयराम (सं० 2768989 बाई अब जे० सी०-210985 एच)---5 मई, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1989 से दी जाती है) ।

हवलदार धोंगडे उद्धव (सं० 2769639 बाई अब जे० सी०-210986 एल)---5 मई, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1989 से दी जाती है) ।

हवलदार माली रामदास वगडू (सं० 2771340 एल अब जे० सी०-210987 एन)---7 अप्रैल, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1990 से दी जाती है) ।

हवलदार भोसले अरुण धोंडावाराव (सं० 2767527 ए अब जे० सी०-210988 डब्ल्यू)---24 अप्रैल, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार बुरटे आबा अनंता (सं० 2766932 एल अब जे० सी०-210989 बाई)---1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार महादेव शंकर मोहिते (सं० 2770831 पी अब जे० सी०-210990 एन)---1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार बलवीर सिंह (सं० 3165531 एच अब जे० सी०-210991 डब्ल्यू)---6 मई, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार यादव जीवन बालकृष्ण (सं० 2770806 डब्ल्यू अब जे० सी०-210992 बाई)---1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार बिराजदार श्रीमंत गुंडाजी (सं० 2771905 एल अब जे० सी०-210993 एफ)---1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार समशोहीन नभू पिजारी (सं० 13857360 पी अब जे० सी०-210994 के)---1 मार्च, 1991 ।

हवलदार काले धोंडीभाऊ कोडीबा (सं० 2772968 ए अब जे० सी०-210995 एम)---1 मार्च, 1991 ।

हवलदार मेंधुले मनोहर रामचन्द्र (सं० 2774915 ए अब जे० सी०-210996 पी)---1 मार्च, 1991 ।

हवलदार तुकाराम भरमू मोरे (सं० 2766588 एल अब जे० सी०-210997 एक्स)---2 मार्च, 1991 ।

हवलदार शिंदे सदानंद यशवंत (सं० 2768990 एन अब जे० सी०-210998 ए)---2 मार्च, 1991 ।

हवलदार सूर्याजी जगनाथ शेडगे (सं० 2763152 पी अब जे० सी०-210999 एच)---2 मार्च, 1991 ।

हवलदार चौधरी दामोदर राजाधर (सं० 2767206 एच अब जे० सी०-211000 के)---2 मार्च, 1991 ।

हवलदार भगवान विश्वनाथ शिंदे (सं० 2768845 डब्ल्यू अब जे० सी०-211001 एम)---2 मार्च, 1991 ।

हवलदार सावंत सदाशिव नाना (सं० 2768971 एच अब जे० सी०-211002 पी)---2 मार्च, 1991 ।

हवलदार पाटील शिवाजी अप्पा (सं० 2767208 एन अब जे० सी०-211003 एक्स)---2 मार्च, 1991 ।

हवलदार काकडे काकासाहेब (सं० 2766996 डब्ल्यू अब जे० सी०-211004 ए)---1 अप्रैल 1991 ।

हवलदार अशोक लक्ष्मण भोईटे (सं० 2767579 डब्ल्यू अब जे० सी०-211005 एच)---1 मई, 1991 ।

हवलदार श्रीकृष्ण बाबूराव पाटील (सं० 2768155 एम अब जे० सी०-211006 एल)---1 मई, 1991 ।

हवलदार लक्ष्मण आवावा निकम (सं० 2767602 बाई अब जे० सी०-211007 एन)---1 मई, 1991 ।

राजपूताना राइफल

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जय राम (सं० 2867212 एल अब जे० सी०-211008 डब्ल्यू)---21 दिसम्बर 1990 ।

हवलदार विरेन्द्र सिंह (सं० 2869683 एक्स अब जे० सी०-211009 बाई)---1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार रतन सिंह (सं० 2865121 एच अब जे० सी०-211010 एन)—21 जनवरी, 1991 ।

हवलदार रनधीर सिंह (सं० 2866449 डब्ल्यू अब जे० सी०-211011 डब्ल्यू)—21 जनवरी, 1991 ।

हवलदार अजीत सिंह (सं० 2868977 वाई अब जे० सी०-211012 वाई)—4 अप्रैल, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार महावीर प्रसाद (सं० 2866662 डब्ल्यू अब जे० सी०-211013 एफ)—4 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार रावत सिंह (सं० 2863977 पी अब जे० सी०-211014 के)—14 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार हरी सिंह बिदावत (सं० 2868864 डब्ल्यू अब जे० सी०-211015 एम)—21 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार माधो सिंह (सं० 2864719 एफ अब जे० सी०-211016 पी)—1 जून, 1991 ।

हवलदार दीप सिंह (सं० 2866962 एक्स अब जे० सी०-211017 एक्स)—8 नवम्बर, 1990* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार रनजीत सिंह (सं० 2868970 पी अब जे० सी०-211018 ए)—26 जनवरी, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार प्रहलाष सिंह (सं० 2863467 एन अब जे० सी०-211019 एच)—8 अप्रैल, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार जय सिंह बामिल (सं० 2868189 पी अब जे० सी०-211020 एक्स)—5 मार्च, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार राम पाल सिंह पानू (सं० 2867791 एच अब जे० सी०-211021 ए)—16 जनवरी, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार राठी लक्ष्मण सिंह कल्याण सिंह (सं० 2867671 के अब जे० सी०-211022 एच)—21 जनवरी, 1991 ।

हवलदार मुख्तार सिंह (सं० 2861860 एक्स अब जे० सी०-211023 एल)—10 अप्रैल, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 मार्च, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार मगन सिंह (सं० 2862583 के अब जे० सी०-211024 एन)—28 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार जान मोहम्मद (सं० 2871457 वाई अब जे० सी०-211025 डब्ल्यू)—1 मई, 1991 ।

नायब सूबेदार (संगीतज्ञ) के रैंक में

हवलदार संगीतज्ञ हरी प्रसाद (सं० 2863975 के अब जे० सी०-211026 वाई)—18 अप्रैल, 1991* ।

*(नायब सूबेदार संगीतज्ञ के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क सुरेन्द्र सिंह भदोरिया (सं० 2864454 एच अब जे० सी०-211027 एफ)—1 फरवरी, 1991 ।

हवलदार क्लर्क दामोदर दास (सं० 2863020 डब्ल्यू अब जे० सी०-211028 के)—1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार क्लर्क लखी राम (सं० 2864611 के अब जे० सी०-211029 एम)—1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार क्लर्क ओम प्रकाश (सं० 2864713 ए अब जे० सी०-211030 एफ)—1 अप्रैल, 1991 ।

राजपूत रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार ओम प्रकाश (सं० 2966534 एन अब जे० सी०-211031 के)—1 अगस्त, 1990 ।

हवलदार श्री पाल सिंह (सं० 2970719 एम अब जे० सी०-211032 एम)—1 अक्टूबर, 1990 ।

हवलदार राज कुमार (सं० 2970655 एम अब जे० सी०-211033 पी)—1 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार धर्मपाल सिंह (सं० 2968401 डब्ल्यू अब जे० सी०-211034 एक्स)—1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार फूल सिंह (सं० 2971525 डब्ल्यू अब जे० सी०-211035 ए)—18 मार्च, 1991 ।

हवलदार महातम सिंह (सं० 2971044 के अब जे० सी०-211036 एच)—1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार राम सिंह (सं० 2972683 एक्स अब जे० सी०-211037 एल) — 1 जून, 1991 ।

हवलदार सोबरन सिंह राना (सं० 2969028 एन अब जे० सी०-211038 एन) — 1 जनवरी, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार नरेन्द्र सिंह राठौर (सं० 2970937 एल अब जे० सी०-211039 डब्ल्यू) — 14 जून, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार रोहिनी कुमार दास (सं० 2970430 के अब जे० सी०-211040 एल) — 20 मार्च, 1991 ।

हवलदार मदन मोहन साह (सं० 2970788 एच अब जे० सी०-211041 एन) — 1 मई, 1991 ।

हवलदार मनिक चन्द्र चन्द्रे (सं० 2970989 एफ अब जे० सी०-211042 डब्ल्यू) — 1 मई, 1991 ।

हवलदार बिस्वनाथ हस्तर (सं० 12885213 एल अब जे० सी०-211043 वाई) — 15 जून, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार राम कुमार (सं० 2971889 एच अब जे० सी०-211044 एफ) — 1 जून, 1991 ।

नायब सूबेदार कलक के रैंक में

हवलदार कलक नत्थु सिंह (सं० 2963792 एच अब जे० सी०-211045 के) — 10 मई, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 9 मार्च, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार बिक्रम सिंह परिहार (सं० 2964384 के अब जे० सी०-211046 एम) — 1 नवम्बर, 1987 ।

हवलदार धर्म सिंह (सं० 2966728 डब्ल्यू अब जे० सी०-211047 पी) — 15 दिसम्बर, 1987 ।

हवलदार देवी सिंह (सं० 2964971 पी अब जे० सी०-211048 एक्स) — 15 दिसम्बर, 1987 ।

हवलदार भगवान सिंह (सं० 2964550 एम अब जे० सी०-211049 ए) — 15 दिसम्बर, 1987 ।

हवलदार करतार सिंह (सं० 2967287 एक्स अब जे० सी०-211050 पी) — 15 दिसम्बर, 1987 ।

हवलदार दर्शन सिंह (सं० 4454112 ए अब जे० सी०-211051 एक्स) — 1 जनवरी, 1988 ।

हवलदार हरीपाल सिंह चौहान (सं० 2966985 एन अब जे० सी०-211052 ए) — 1 जनवरी, 1988 ।

हवलदार मोहम्मद मुस्ताक (सं० 2969802 एक्स अब जे० सी०-211053 एच) — 10 जनवरी, 1988 ।

हवलदार हंस राम (सं० 2970195 डब्ल्यू अब जे० सी०-211054 एल) — 31 जनवरी, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल, 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार हरी सिंह गुर्जर (सं० 2970266 एम अब जे० सी०-211055 एन) — 2 जून, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल, 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार सिरमौर सिंह (सं० 2972348 एन अब जे० सी०-211056 डब्ल्यू) — 1 नवम्बर, 1990 ।

पेड एक्टिंग हवलदार राम सिंह गुर्जर (सं० 2977266 पी अब जे० सी०-211057 वाई) — 9 फरवरी, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार श्रीराम सिंह (सं० 2968111 वाई अब जे० सी०-211058 एफ) — 4 जून, 1991* ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार रन सिंह (सं० 2964712 एम अब जे० सी०-211059 के) — 14 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार सरवन लाल गुजर (सं० 2970385 एच अब जे० सी०-211060 वाई) — 14 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार भोमकार (सं० 2975101 एक्स अब जे० सी०-211061 एफ) — 14 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार सतानन्द (सं० 2972540 एक्स अब जे० सी०-211062 के) — 1 मई, 1991 ।

नायब सूबेदार कलक के रैंक में

हवलदार कलक प्रताप शर्मा (सं० 2971269 एम अब जे० सी०-211063 एम) — 12 मार्च, 1991* ।

*(नायब सूबेदार कलक के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 9 मार्च, 1991 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार निरंजन सिंह (सं० 2968006 एच अब जे० सी०-211064 पी)—10 जून, 1990 ।

हवलदार कप्तान सिंह (सं० 2969103 एम अब जे० सी०-211065 एक्स)—19 मार्च, 1991 ।*

*(ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 1 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार राज सिंह (सं० 2973679 एफ अब जे० सी०-211066 ए)—18 जनवरी, 1991 ।*

*(ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 1 जनवरी, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार मुकुन्दा राम चक्रवर्ती (सं० 2976068 एक्स अब जे० सी०-211067 एच)—5 जनवरी, 1991 ।

हवलदार बिरेन्द्र नारायण सिंह (सं० 2969031 एन अब जे० सी०-211068 एल)—18 मार्च, 1991 ।

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं० 2968571 ए अब जे० सी०-211069 एन)—18 मार्च, 1991 ।

हवलदार कन्हैया बक्स (सं० 2971168 वाई अब जे० सी०-211070 एच)—18 मार्च, 1991 ।

हवलदार अमर सिंह गुजर (सं० 2970139 एक्स अब जे० सी०-211071 एल)—18 मार्च, 1991 ।

हवलदार गिरधारी लाल (सं० 2970431 एम अब जे० सी०-211072 एन)—18 मार्च, 1991 ।

हवलदार गजे सिंह (सं० 2968841 के अब जे० सी०-211073 डब्ल्यू)—23 मार्च, 1991 ।

हवलदार सुमेर सिंह (सं० 2967171 एफ अब जे० सी०-211074 वाई)—23 मार्च, 1991 ।

हवलदार हवा सिंह (सं० 2967696 एल अब जे० सी०-211075 एफ)—23 मार्च, 1991 ।

जाट रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार शिव नारायण चौधरी (सं० 3165524 एम अब जे० सी०-211076 के)—5 अगस्त, 1990 ।

हवलदार रघुबीर सिंह (सं० 3167651 ए अब जे० सी०-211077 एम)—21 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार अमर सिंह (सं० 3161690 एच अब जे० सी०-211078 पी)—1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार आजाद सिंह मलिक (सं० 3165604 के अब जे० सी०-211079 एक्स)—20 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार धरमवीर सिंह (सं० 3161938 एफ अब जे० सी०-211080 एम)—22 जून, 1991 ।

हवलदार बाबा राम (सं० 3161063 डब्ल्यू अब जे० सी०-211081 पी)—22 जून, 1991 ।

हवलदार सरदार सिंह (सं० 3163383 के अब जे० सी०-211082 एक्स)—22 जून, 1991 ।

हवलदार बलबीर सिंह शिवराज (सं० 3164529 वाई अब जे० सी०-211083 ए)—22 जून, 1991 ।

हवलदार सूरज भान (सं० 3164781 एक्स अब जे० सी०-211084 एच)—22 जून, 1991 ।

हवलदार राम प्रताप वर्मा (सं० 3163397 के अब जे० सी०-211085 एल)—1 जुलाई, 1991 ।

हवलदार हुकम चन्द (सं० 3162668 के अब जे० सी०-211086 एन)—29 जनवरी, 1991 ।

हवलदार शेर सिंह (सं० 359164 एल अब जे० सी०-211087 डब्ल्यू)—1 फरवरी, 1991 ।

हवलदार डालू राम (सं० 3162341 एल अब जे० सी०-211088 वाई)—1 फरवरी, 1991 ।

हवलदार लोक राम (सं० 3162526 एम अब जे० सी०-211089 एफ)—24 फरवरी, 1991 ।

हवलदार राम पाल (सं० 3164775 के अब जे० सी०-211090 डब्ल्यू)—27 फरवरी, 1991 ।

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं० 3164134 एक्स अब जे० सी०-211091 वाई)—25 मई, 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अप्रैल, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं० 3161106 ए अब जे० सी०-211092 एफ)—1 जनवरी, 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार सीस राम (सं० 3163738 के अब जे० सी०-211093 के)—19 जनवरी, 1991 ।

हवलदार सुमेर सिंह (सं० 3166660 पी अब जे० सी०-211094 एम)—1 फरवरी, 1991 ।

हवलदार शिव नारायण सिंह (सं० 3164200 पी अब जे० सी०-211095 पी)—1 फरवरी, 1991 ।

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं० 3168048 के अब जे० सी०-211096 एक्स)—7 मई, 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार बीरबल सिंह (सं० 3163384 एम अब जे० सी०-211097 ए)—1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार बजरंग लाल (सं० 3163615 एक्स अब जे० सी०-211098 एच) — 1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार देश राम (सं० 3164222 एन अब जे० सी०-211099 एल) — 19 मई, 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार भवूत राम (सं० 3166872 ए अब जे० सी०-211100 पी) — 1 जून, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क बाजे सिंह (सं० 14519706 एच अब जे० सी०-211101 एक्स) — 26 मई, 1991 ।

हवलदार रोहतास सिंह (सं० 3164202 ए अब जे० सी०-211102 ए) — 25 नवम्बर, 1990 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार अमर सिंह (सं० 3967998 एन अब जे० सी०-211103 एच) — 1 दिसम्बर 1990 ।

हवलदार राम कंवर (सं० 3162460 एफ अब जे० सी०-211104 एल) — 1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार ओम प्रकाश (सं० 3166756 एक्स अब जे० सी०-211105 एन) — 1 फरवरी, 1991 ।

हवलदार राज कुमार सिंह (सं० 3164157 वाई अब जे० सी०-211106 डब्ल्यू) — 13 फरवरी, 1991 ।

हवलदार प्रताप सिंह पुन्डीर (सं० 4050585 एन अब जे० सी०-211107 वाई) — 21 फरवरी, 1991 ।

हवलदार पिरथी सिंह (सं० 3164823 वाई अब जे० सी०-211108 एफ) — 1 मार्च, 1991 ।

हवलदार ओमवीर सिंह (सं० 3166642 एम अब जे० सी०-211109 के) — 1 मार्च, 1991 ।

हवलदार देवी सिंह (सं० 3164945 एच अब जे० सी०-211110 वाई) — 1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार श्री भगवान (सं० 3163127 पी अब जे० सी०-211111 एफ) — 1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार ईश्वर सिंह (सं० 3164618 एक्स अब जे० सी०-211112 के) — 1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार प्रीतम सिंह (सं० 3968553 एन अब जे० सी०-211113 एम) — 1 मई, 1991 ।

हवलदार रतन लाल (सं० 3167193 पी अब जे० सी०-211114 पी) — 1 मई, 1991 ।

हवलदार लेख राज सिंह (सं० 3163996 के अब जे० सी०-211115 एक्स) — 16 मई, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क कृष्ण चन्द्र (सं० 3161855 डब्ल्यू अब जे० सी०-211116 ए) — 1 अप्रैल, 1991 ।

सिख रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलवंत सिंह (सं० 3374366 एन अब जे० सी०-211117 एच) — 17 मार्च, 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार सुरजीत सिंह (सं० 3371725 एल अब जे० सी०-211118 एल) — 1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार थमीया सी० के० (सं० 2578993 एल अब जे० सी०-211119 एन) — 1 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार जसविन्दर सिंह (सं० 3372303 एम अब जे० सी०-211120 एच) — 7 मार्च, 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार भगवान सिंह (सं० 3372389 डब्ल्यू अब जे० सी०-211121 एल) — 1 मार्च, 1991 ।

हवलदार धियान सिंह (सं० 3373655 डब्ल्यू अब जे० सी०-211122 एन) — 1 मार्च, 1991 ।

सिख लाईट इनफैंट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मंगल सिंह (सं० 4452588 एन अब जे० सी०-211123 डब्ल्यू) — 15 अक्टूबर, 1990 ।

हवलदार बलकार सिंह (सं० 4454497 एच अब जे० सी०-211124 वाई) — 1 मार्च, 1991 ।

हवलदार जगन सिंह (सं० 4455938 ए अब जे० सी०-211125 एफ) — 10 मार्च, 1991 ।

हवलदार अमर सिंह (सं० 4454694 एल अब जे० सी०-211126 के) — 15 मार्च, 1991 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर, 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार मेवा सिंह (सं० 4454303 पी अब जे० सी०-211127 एम) — 8 मई, 1991 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) करम सिंह (सं० 4450058 ए अब जे० सी०-211128 पी) — 1 मई, 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) मुखतार सिंह (सं० 4452284 डब्ल्यू अब जे० सी०-211129 एक्स) — 1 जून, 1991 ।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार प्रकाश सिंह (सं० 4449518 के० अब जे० सी० 211130 एम०) — 16 फरवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार अवतार सिंह (सं० 4455912 एल० अब जे० सी०—211131 पी०) — 01 जनवरी, 1991।

हवलदार सलविन्दर सिंह (सं० 4456638 एल० अब जे० सी०—211132 एम०) — 08 फरवरी, 1991।%

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार जसकोर सिंह (सं० 4455934 के० अब जे० सी०—211133 ए०) — 01 मार्च, 1991।"

"(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार गुरबचन सिंह (सं० 4456259 पी० अब जे० सी०—211134 एच०) — 01 जनवरी, 1991।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) हरी शंकर मिश्रा (सं० 4452248 एल० अब जे० सी०—211135 एल०) — 01 फरवरी, 1991

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार वसोन्हा सिंह (सं० 4449904 डब्ल्यू० अब जे० सी०—211136 एन०) — 01 अक्टूबर, 1990।

हवलदार तरसेम सिंह (सं० 4450576 ए० अब जे० सी०—211137 डब्ल्यू०) — 01 अक्टूबर, 1990।

हवलदार धरन सिंह (सं० 4456034 एम० अब जे० सी०—211138 वाई०) — 14 नवम्बर, 1990।

हवलदार हरबन्स सिंह (सं० 4456888 एम० अब जे० सी०—211139 एफ०) — 14 नवम्बर, 1990।

हवलदार बूटा सिंह (सं० 4456430 एच० अब जे० सी०—211140 डब्ल्यू०) — 01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार हन्स लाल (सं० 4456325 एम० अब जे० सी०—211141 वाई०) — 03 दिसम्बर, 1990।

हवलदार गुरप्रताप सिंह (सं० 4452420 एफ० अब जे० सी०—211142 एफ०) — 05 जनवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार दिलबाग सिंह (सं० 4455280 एल० अब जे० सी०—211143 के०) — 06 जनवरी, 1991।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) कुलवन्त सिंह (सं० 4452241 एफ० अब जे० सी०—211144 एम०) — 26 जनवरी, 1991।

हवलदार (क्लर्क) नछतर सिंह (सं० 4452257 एम० अब जे० सी०—211145 पी०) — 01 मार्च, 1991।

हवलदार (क्लर्क) सूरन सिंह (सं० 4452277 ए० अब जे० सी०—211146 एम०) — 01 मार्च, 1991।

डॉंगरा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बिधि चन्द वर्मा (सं० 3972439 एन० अब जे० सी०—211147 ए०) — 12 नवम्बर, 1990।

हवलदार रछपाल सिंह (सं० 8022203 एफ० अब जे० सी०—211148 एच०) — 01 जनवरी, 1991।

हवलदार जन्कार सिंह (सं० 3972251 वाई० अब जे० सी०—211149 एल०) — 01 जनवरी, 1991।

हवलदार नेगी राम मेहता (सं० 3973007 एल० अब जे० सी०—211150 ए०) — 01 जनवरी, 1991।

हवलदार कल्याण चन्द (सं० 3973099 एच० अब जे० सी०—211151 ए०) — 29 जनवरी, 1991।

हवलदार हरजीत सिंह (सं० 3967935 एल० अब जे० सी०—211152 एन०) — 01 फरवरी, 1991।

हवलदार धर्म चन्द (सं० 3966850 एच० अब जे० सी०—211153 एन०) — 23 जून, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार जोगेन्दर सिंह (सं० 3969532 के० अब जे० सी०—211154 डब्ल्यू०) — 25 फरवरी, 1991।

हवलदार जगदीश सिंह (सं० 3966641 एल० अब जे० सी०—211155 वाई०) — 29 मार्च 1991।

हवलदार रिछपाल सिंह (सं० 3967025 एम० अब जे० सी०—211156 एफ०) — 14 अप्रैल, 1991।

हवलदार ज्ञान चन्द (सं० 3967154 एम० अब जे० सी०—211157 के०) — 01 मई, 1991।

हवलदार हीरा सिंह (सं० 3967183 एम० अब जे० सी०—211158 एम०) — 10 जून, 1991।**

(**नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 मई, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार ब्रिज लाल (सं० 396695 एन०, अब जे० सी० 211159 पी०) — 04 जनवरी, 1991।

हवलदार भाग सिंह (सं० 3965566 ए०, अब जे० सी० 211160 के०) — 11 मार्च, 1991।

हवलदार मनसा राम बरमा (सं० 3967016 डब्ल्यू० अब जे० सी०—211161 एम०) — 01 फरवरी, 1991।

हवलदार प्रकाश चन्द (सं० 3967314 एम०, अब जे० सी०—211162 पी०) — 01 मार्च, 1991।

हवलदार जोगिन्द्र सिंह (सं० 3970359 एक्स० अब जे० सी०-211163 एक्स०)—08 अप्रैल, 1991।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क सतपाल (सं० 3968921 एक्स० अब जे० सी०-211164 ए०)—01 जून, 1991।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मान चन्द (सं० 3966604 एक्स० अब जे० सी०-211165 एच०)—19 नवम्बर, 1990।

हवलदार रमेश सिंह (सं० 3969597 एक्स० अब जे० सी०-211166 एल०)—1 जनवरी, 1991।

हवलदार रवीन्द्र नाथ एस० एम० (सं० 3967270 ए० अब जे० सी०-211167 एन०)—8 जनवरी, 1991।

हवलदार नेलीकून्ताथू कुन्जु चेरुकन सोमन (सं० 2569213 एन० अब जे० सी०-211168 डब्ल्यू०)—16 जनवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 9 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार लिन्जो राम (सं० 3968505 एल० अब जे० सी०-211169 वाई०)—19 जनवरी, 1991।

हवलदार मोहन सिंह (सं० 3966476 एल० अब जे० सी०-211170 एन०)—29 जनवरी, 1991।

हवलदार शिव राम (सं० 3969289 एक्स० अब जे० सी०-211171 डब्ल्यू०)—1 फरवरी, 1991।

हवलदार उधम चन्द (सं० 3967768 ए० अब जे० सी०-211172 एल०)—17 फरवरी, 1991।

हवलदार विजय सिंह (सं० 3965703 एन० अब जे० सी०-211173 एफ०)—1 मार्च, 1991।

हवलदार करतार सिंह (सं० 3965500 के० अब जे० सी०-211174 के०)—1 मार्च, 1991।

हवलदार गांधी राम (सं० 3965661 एम० अब जे० सी०-211175 एम०)—1 मार्च, 1991।

हवलदार रूप चन्द (सं० 3966438 पी० अब जे० सी० 211176 पी०)—1 मार्च, 1991।

हवलदार अब्दुल सिद्दीक (सं० 3966467 के० अब जे० सी०-211177 ए०)—3 मार्च, 1991।

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं० 3967619 एम० अब जे० सी०-211178 ए०)—3 मार्च, 1991।

हवलदार बलवान सिंह (सं० 3970838 वाई० अब जे० सी०-211179 एच०)—5 मार्च, 1991।

हवलदार हंस राज (सं० 3966230 एम० अब जे० सी० 211180 एक्स०)—6 अप्रैल, 1991।**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार विधि सिंह (सं० 3967522 एम० अब जे० सी०-211181 ए०)—1 अप्रैल, 1991।

हवलदार प्रकाश चन्द (सं० 3968559 ए० अब जे० सी० 211182 एच०)—01 अप्रैल, 1991।

हवलदार भीम सिंह (सं० 3972120 एन० अब जे० सी०-211183 एल०)—01 अप्रैल, 1991।

हवलदार देवे राज (सं० 3968235 के अब जे० सी० 211184 एन०)—01 मई, 1991।

हवलदार केहर सिंह (सं० 3969740 वाई० अब जे० सी०-211185 डब्ल्यू०)—29 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार वियन्त कुमार (सं० 3966940 के० अब जे० सी०-211186 वाई०)—5 नवम्बर, 1990।

हवलदार सुन्दर सिंह (सं० 3964903 एक्स० अब जे० सी०-211187 के०)—3 जनवरी, 1991।**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार ज्ञान चन्द (सं० 3970639 एल० अब जे० सी०-211188 के०)—1 जनवरी, 1991।

हवलदार जसवन्त सिंह (सं० 3967377 पी० अब जे० सी०-211189 एम०)—1 जनवरी, 1991।

हवलदार चण्ण सिंह (सं० 3971178 वाई० अब जे० सी०-211190 एफ०)—29 जनवरी, 1991।

हवलदार प्रकाश सिंह (सं० 3968165 डब्ल्यू० अब जे० सी०-211191 के०)—01 फरवरी, 1991।

हवलदार मिलाप चन्द (सं० 3966112 वाई० अब जे० सी०-211192 एम०)—01 अप्रैल, 1991।

हवलदार जगदीश चन्द राठौर (सं० 3971527 एक्स० अब जे० सी०-211193 पी०)—1 मई, 1991।

हवलदार कैलाश राज (सं० 3966738 डब्ल्यू० अब जे० सी०-211194 एक्स०)—1 मई, 1991।

हवलदार होशियार सिंह (सं० 3961257 ए० अब जे० सी०-211195 ए०)—1 नवम्बर, 1987।

हवलदार जालम सिंह एस० एम० (सं० 3965793 ए० अब जे० सी०-211196 एच०)—1 नवम्बर, 1987।

हवलदार श्री राम (सं० 3962150 एक्स० अब जे० सी० 211197 एल०)—01 दिसम्बर, 1987।

नायब सूबेदार (बलर्क) के रैंक में

हवलदार बलर्क गुरु दत्त शर्मा (सं० 3963264 पी० अब जे० सी०—211198 एन०)—22 फरवरी, 1981।*

*(नायब सूबेदार बलर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार बलर्क बलवन्त सिंह (सं० 3963528 एल० अब जे० सी०—211199 डब्ल्यू०)—01 जनवरी, 1988।

हवलदार बलर्क रूप चन्द (सं० 3963530 एच० अब जे० सी०—211200 ए०)—01 जनवरी, 1988।

गढ़वाल राइफल

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हुकम सिंह (सं० 4049796 के० अब जे० सी०—)—26 सितम्बर, 1990।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 सितम्बर, 1990 से दी जाती है)।

हवलदार बलदेव सिंह मेधाङ्ग (सं० 4051864 एल० अब जे० सी०—)—01 अक्टूबर, 1990।

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं० 4052675 एन० अब जे० सी०—)—01 अक्टूबर, 1990।

हवलदार मंगल सिंह (सं० 4051929 एन० अब जे० सी०—)—09 अक्टूबर, 1990।

हवलदार बलवन्त सिंह (सं० 4051768 डब्ल्यू० अब जे० सी०—)—16 फरवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से जाती है)।

हवलदार हरमियान सिंह (सं० 4052552 एफ० अब जे० सी०—)—24 मार्च, 1991।

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं० 4056169 ए० अब जे० सी०—)—11 अप्रैल 1991।

हवलदार लखपत सिंह (सं० 4050403 पी० अब जे० सी०—)—30 अप्रैल, 1991।

हवलदार रघुबीर सिंह नेगी (सं० 4054266 बाई० अब जे० सी०—)—17 मई, 1991।

हवलदार मदन सिंह (सं० 4054285 के० अब जे० सी०—)—19 मई, 1991।

हवलदार योगेन्द्र सिंह (सं० 4052715 के० अब जे० सी०—)—01 जून, 1991।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) रेवाधर प्रसाद जलन्धरी (सं० 4051333 एन० अब जे० सी०—)—01 मई, 1991।

हवलदार (लिपिक) जगदम्बा प्रसाद जोशी (सं० 4053603 डब्ल्यू० अब जे० सी०—)—01 जून, 1991।

हवलदार (लिपिक) होते सिंह यादव (सं० 4053605 एफ० अब जे० सी०—)—01 जून, 1991।

हवलदार (लिपिक) आनन्द सिंह भण्डारी (सं० 4053613 ए० अब जे० सी०—)—01 जून, 1991।

हवलदार (लिपिक) ख्यात सिंह बिष्ट (सं० 4053615 एल० अब जे० सी०—)—01 जून, 1991।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार त्रिलोक सिंह गुसाईं (सं० 4049584 बाई० अब जे० सी०—211217 एन०)—01 अक्टूबर, 1990।

हवलदार आनन्द मणि (सं० 4049026 एक्स० अब जे० सी०—211218 डब्ल्यू०)—01 जनवरी, 1991।

हवलदार यशवन्त सिंह (सं० 4052051 एफ० अब जे० सी०—211219 बाई०)—20 अप्रैल, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जनवरी 1991 से दी जाती है)।

हवलदार कोतवाल सिंह रावत (सं० 4053071 एफ० अब जे० सी०—211220 एन०)—01 फरवरी, 1991।

हवलदार कुंवर सिंह (सं० 4054985 एक्स० अब जे० सी०—211221 डब्ल्यू०)—01 फरवरी, 1991।

हवलदार विरेन्द्र सिंह रावत (सं० 4052348 एच० अब जे० सी०—211222 बाई०)—11 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1991 से दी जाती है)।

हवलदार गोबिन्द सिंह (सं० 4050079 एच० अब जे० सी०—211223 एफ०)—15 मार्च, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1991 से दी जाती है)।

हवलदार गवर सिंह (सं० 4052279 एक्स० अब जे० सी०—211224 के०)—01 अप्रैल, 1991।

हवलदार रघुनाथ सिंह (सं० 4055099 ए अब जे० सी० 211225 एम०)—01 अप्रैल, 1991।

हवलदार तेज सिंह कन्डारी (सं० 4051160 एफ० अब जे० सी०—211226 पी०)—01 अप्रैल, 1991।

हवलदार रमेश सिंह (सं० 4057212 एच० अब जे० सी०—211227 एक्स०)—01 अप्रैल, 1991।

हवलदार शंकर सिंह नेगी (सं० 4055760 एफ० अब जे० सी०—211228 ए०)—01 अप्रैल, 1991।

हवलदार महिधर प्रसाद कान्ति (सं० 4053210 ए अब जे० सी०—211229 एच०)—04 अप्रैल, 1991।

हवलदार भवान सिंह (सं० 4054432 एफ० अब जे० सी०—211230 एम०)—01 मई, 1991।

हवलदार रणवीर सिंह रावत (सं० 4052458 एम० अब जे० सी०—211231 ए०)—01 मई, 1991।

हवलदार सुल्तान सिंह रावत (सं० 4050544 के अब जे० सी०—211232 ए०)—01 मई, 1991।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक सुभाष चन्द्र सिंह (सं० 4049642 एक्स० अब जे० सी०—211233 ए०)—01 मई, 1991।

हवलदार (लिपिक) विरेन्द्र कुमार मेवाड़ (सं० 4051244 पी० अब जे० सी०—211234 ए०)—01 मई, 1991।

वि कुमाऊं रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मंघे लाल, एस० एम० (नं० 4163929 पी० अब जे० सी०—211235 डब्ल्यू०)—16 दिसम्बर 1990।

हवलदार शेखर चन्द्रा (नं० 4166469 के० अब जे० सी०—211236 वाई०)—27 जून 1991*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 91 से दी जायेगी)

हवलदार रोहिताश्व यादव (नं० 4163691 ए० अब जे० सी०—211237 एफ०)—01 जुलाई 1991।

हवलदार नाथू राम जोशी (नं० 4163046 ए० अब जे० सी०—211238 के०)—01 जुलाई 1991।

वि नागा रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

सी० ए० एम० के० ए० खंभम अनल (नं० 14700557 पी० अब जे० सी०—211239 एम०)—07 जनवरी 1991।

वि कुमाऊं रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धन सिंह (नं० 4167651 ए० अब जे० सी०—211240 एफ०)—03 दिसम्बर 1990*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 नवम्बर 1990 से दी जायेगी)

हवलदार चन्दन सिंह (नं० 4167394 के० अब जे० सी०—211241 के०)—12 दिसम्बर 1990।

हवलदार मधुरा सिंह (नं० 4165061 वाई० अब जे० सी०—211242 एम०)—10 मार्च 1991।

हवलदार धाम सिंह (नं० 4165170 ए० अब जे० सी०—211243 पी०)—10 मार्च 1991।

हवलदार कुंवर सिंह रावत (नं० 4162646 एफ० अब जे० सी०—211244 एक्स०)—10 मार्च 1991।

हवलदार जीवन सिंह (नं० 4166106 ए० अब जे० सी०—211245 ए०)—01 फरवरी 1991।

हवलदार प्रताप सिंह (नं० 4163747 एफ० अब जे० सी०—211246 ए०)—01 अक्टूबर 1990।

हवलदार जीवन सिंह धामी (नं० 4164007 वाई० अब जे० सी०—211247 ए०)—05 मार्च 1991*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार जमन सिंह (नं० 4167497 ए० अब जे० सी०—211248 ए०)—01 मार्च 1991।

हवलदार महावीर (नं० 4163871 ए० अब जे० सी०—211249 डब्ल्यू०)—10 मार्च 1991।

हवलदार हर सिंह (नं० 4159794 एफ० अब जे० सी०—211250 ए०)—10 मार्च 1991।

आसाम रेजीमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार जयकुमार सिन्हा (4345820 डब्ल्यू० अब जे० सी०—211251 ए०)—01 जुलाई 1990।

हवलदार नन्देश्वर राय (4347209 ए० अब जे० सी०—211252 डब्ल्यू०)—04 नवम्बर 90*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 अक्टूबर 90 से दी जायेगी)।

हवलदार विनेश चन्द्र राभा (4349360 एक्स० अब जे० सी०—211253 वाई०)—01 नवम्बर 90।

हवलदार षट्टया (4349141 डब्ल्यू० अब जे० सी०—211254 एफ०)—19 नवम्बर 90।

हवलदार बोरगा ए० (2575144 वाई० अब जे० सी०—211255 के०)—01 दिसम्बर 90।

हवलदार शशिकुमार राजवंशी (4348508 वाई० अब जे० सी०—211256 एम०)—01 फरवरी 91।

हवलदार महाडा बासुमत्री (4346633 के० अब जे० सी०—211257 पी०)—01 मार्च 91।

हवलदार विरेन्द्र चन्द्र राजवंशी (4347766 एम० अब जे० सी०—211258 एक्स०)—01 मार्च 91।

हवलदार राजेन बासुमत्री (4347884 ए० अब जे० सी०—211259 ए०)—19 अप्रैल 91%

% (नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 91 से दी जायेगी)।

हवलदार धामबो सिन्हा (4348051 ए० अब जे० सी०—211260 पी०)—01 मार्च 91।

हवलदार भ्रमग इबोबी सिंह (4348155 के० अब जे० सी०—
211261 एक्स०)—01 मार्च 91।

हवलदार तानु राम दास (4348723 के० अब जे० सी०—
211262 ए०)—01 अप्रैल 91।

हवलदार श्री प्रह्लाद मोगई (4349986 पी० अब जे०
सी०—211263 एच०)—01 मई 91।

हवलदार धुंगेरीमो लोथा (4346706 एल० अब जे० सी०—
211264 एल०)—14 जुलाई 90।

हवलदार पचोन किपगेन (4350321 एल० अब जे० सी०—
211265 एन०)—01 अगस्त 90।

हवलदार अर्जुन कुमार गुरुंग (4348940 ए० अब जे०
सी०—211266 डब्ल्यू०)—01 अगस्त 90।

हवलदार धनी राम दास (4350095 वाई० अब जे० सी०—
211267 वाई०)—01 अगस्त 90।

हवलदार हरेन्द्रा सिन्हा (4344535 एल० अब जे० सी०—
211268 एफ०)—01 सितम्बर 90।

हवलदार वांगमन वांगचु (4348369 ए० अब जे० सी०—
211269 के०)—01 अक्टूबर 90।

हवलदार लहुन खोमांग कुकी (4351392 वाई० अब जे०
सी०—211270 वाई०)—22 अक्टूबर 90।

हवलदार रूपेन्द्र चन्द्र हाजोंग (4348241 पी० अब जे०
पी०—211271 एफ०)—01 दिसम्बर 90।

हवलदार महेन्द्रा बरवा (4346193 एफ० अब जे० सी०—
211272 के०)—01 दिसम्बर 90।

हवलदार पूलिन चन्द्र गगोई (4346519 एम० अब जे०
सी०—211273 एम०)—01 जनवरी 91।

हवलदार नोजेन चन्द्र राय (4347088 एक्स० अब जे०
211274 पी०)—01 जनवरी 91।

हवलदार जोसांगम्बया (4347722 पी० अब जे० पी०—
211275 एक्स०)—09 जनवरी 91*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 91 से दी जायेगी)।

हवलदार धनश्याम सईकिया (4345780 ए० अब जे०
सी०—211276 ए०)—07 मार्च 91 ×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 19 फरवरी 91 से दी जायेगी)।

हवलदार मुहम्मद अमरेऊद्दीन शेख (4349842 एम०
अब जे० सी०—211277 एच०)—08 मार्च 91%

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 91 से दी जायेगी)।

हवलदार टी० के० थांगा मार (4347268 ए० अब जे०
सी०—211278 एल०)—01 अप्रैल 91।

बिहार रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अलफोनी इक्का (सं० 4253346 एन० अब जे०
सी०—211279 एन०)—06 मई 1991 ×।

× (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक
में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार जगत दुहु (सं० 4249358 एल० अब जे० सी०—
211280 एच०)—13 मई 1991 ×।

× (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के
रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार ज़ुमर कुमार स्वाय (सं० 4254367 डब्ल्यू० अब
जे० सी०—211281 एन०)—01 जून 1991।

सी० एच० एम० पंखरासिया टिग्गा (सं० 4253184 एन०
अब जे० सी०—211282 एन०)—01 जून 1991।

हवलदार (निधिक) भागवत राय (सं० 4251061 एच०
अब जे० सी०—211283 डब्ल्यू०)—01 मार्च 1991।

सी० एच० एम० कल्याण कुजूर (सं० 4251500 एच०
अब जे० सी०—211284 वाई०)—12 मार्च 1991*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के
रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 29 अगस्त 90 से दी जायेगी)।

हवलदार शिवाजी राम (सं० 4253699 एन० अब जे०
सी०—211285 एफ०)—27 फरवरी 1991*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक
में ज्येष्ठता दिनांक 25 सितम्बर 90 से दी जायेगी)।

हवलदार अजीत कुमार एन्ड (सं० 4252664 एल० अब
जे० सी०—211286 के०)—01 फरवरी 1991।

हवलदार अर्जुन रावत (सं० 4250418 एफ० अब जे०
सी०—211287 एम०)—01 मार्च 1991।

महार रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार ध्यान सिंह (नं० 4543708 पी० अब जे० सी०—
211288 पी०)—17 अप्रैल 91*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 23 फरवरी 91)।

हवलदार हरमीत सिंह (नं० 4547701 एच० अब जे० सी०—
211289 एक्स०)—27 मई 91*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 23 फरवरी 91)।

हवलदार थरोगा सिंह कुशुवाल (नं० 9215012 के० अब
जे० सी०—211290 एम०)—23 फरवरी 91।

हवलदार ब्रिजेन्द्र सिंह चौहान (नं० 4543998 एक्स० अब
जे० सी०—211291 पी०)—03 मई 91।

हवलदार प्रदीप कुमार (नं० 4547194 ए० अब जे० सी०—211292 एक्स०)—12 मई 91।

सी० एच० एम० राम नारायण (नं० 9213246 पी० अब जे० सी०—211293 ए०)—01 जून 91।

हवलदार बनसोडे पांडुरंग मासा (नं० 4546715 डब्ल्यू० अब जे० सी०—211294 एच०)—10 जून 91।

सी० एच० एम० सालुंके विजय बाबन (नं० 4546567 डब्ल्यू० अब जे० सी०—211295 एल०)—14 जून 91।

हवलदार रणजीत सिंह (नं० 9213483 बार्ड० अब जे० सी०—211296 एन०)—01 जुलाई 91।

हवलदार मुन्शी राख (नं० 9213265 ए० अब जे० सी०—211297 डब्ल्यू०)—01 जुलाई 91।

हवलदार मदन सिंह (नं० 9213538 एक्स० अब जे० सी०—211298 बार्ड०)—01 जुलाई 91।

हवलदार हंकारे विट्ठल माधति (नं० 4547052 एच० अब जे० सी०—211299 एफ०)—01 जुलाई 91।

हवलदार मधुकर (नं० 4543802 बार्ड० अब जे० सी०—211300 एल०)—02 अप्रैल 91।

हवलदार बलबीर सिंह (नं० 4545215 एम० अब जे० सी०—211301 एन०)—01 मई 91।

हवलदार गोपीनाथ मिश्रा (नं० 4546239 एच० अब जे० सी०—211302 डब्ल्यू०)—01 मई 91।

हवलदार असवाले ब्रह्मानन्द संगप्पा (नं० 4545942 के० अब जे० सी०—211303 बार्ड०)—01 मई 91।

हवलदार लकरा ईशराईल (नं० 4544087 एन० अब जे० सी०—211304 एफ०)—01 मई 91।

हवलदार प्रहमान सिंह (नं० 4545881 एक्स० अब जे० सी०—211305 के०)—01 मई 91।

हवलदार रतन सिंह (नं० 9212634 ए० अब जे० सी०—211306 एम०)—19 जून 91।

सी० एच० एम० जसपाल सिंह (नं० 3366675 एफ० अब जे० सी०—211307 पी०)—22 जून 91।

नायब सूबेदार बलर्क के रैंक में

हवलदार बलर्क (जी० डी०) बलबंत सिंह (नं० 9212641 डब्ल्यू० अब जे० सी०—211308 एक्स०)—01 जून 91।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भीम सिंह गुजर (नं० 2976343 एम० अब जे० सी०—211309 ए०)—08 मई 91*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अक्टूबर 90)।

सी० एच० एम० सकपाल दीपक भाऊ (नं० 4545778 एम० अब जे० सी०—211310 पी०)—16 मई 91*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 नवम्बर 90)।

सी० एच० एम० हीरा सिंह (नं० 9215089 एम० अब जे० सी०—211311 एक्स०)—01 अप्रैल 91

हवलदार संसार चन्द (नं० 9215199 एफ० अब जे० सी०—211312 ए०)—01 अप्रैल 91।

जम्मू और काश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक प्रीतम लाल (13733097 एच० अब जे० सी०—211313 एच०)—04 मई 1991।

नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

हवलदार प्रीतम सिंह लघे (13732157 ए० अब जे० सी०—211314 एल०)—01 जनवरी 1991*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार गुलाम मुसतफा (13732790 ए० अब जे० सी०—211315 एम०)—08 नवम्बर 1990।

हवलदार अजीत कुमार (13732339 एन० अब जे० सी०—211316 डब्ल्यू०)—01 दिसम्बर 1990।

हवलदार सतपाल सिंह (13733365 एफ० अब जे० सी०—211317 बार्ड०)—16 फरवरी 1991।

:(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार दीना माध वर्मा (13733756 एम० अब जे० सी०—211318 एफ०)—01 दिसम्बर 1990।

हवलदार अशा राम (13737058 एफ० अब जे० सी०—211319 के०)—01 दिसम्बर 1990।

हवलदार ध्रुव सिंह (13737904 के० अब जे० सी०—211320 बार्ड०)—25 दिसम्बर 1990-

-(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार प्रमानन्द शर्मा (13733119 डब्ल्यू० अब जे० सी०—211321 एफ०)—20 फरवरी 1990—

—(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार शेर सिंह (13733592 एफ० अब जे० सी०—211322 के०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार कपूर सिंह (13733819 के० अब जे० सी०—211323 एम०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार कुलवीप चन्द (13735279 पी० अब जे० सी०—211324 पी०)—01 जनवरी 1991।

हवलदार मोहम्मद रसीद (सं० 13738283 पी० अब जे० सी०-211325 एक्स०)---01 जनवरी, 1991।

हवलदार चरण सिंह (सं० 13732114 एल० अब जे० सी०-211326 ए०)---24 जनवरी, 1991।

हवलदार स्वर्ण सिंह (सं० 13732469 डब्ल्यू० अब जे० सी०-211327 ए०)---21 अप्रैल, 1991।

“(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जनवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार सिकन्दर सिंह (सं० 13732660 एक्स० अब जे० सी० 211328 एल०)---24 जनवरी, 1991।

हवलदार अब्दुल गनी (सं० 13733057 एफ० अब जे० सी०-211329 एन०)---03 मार्च, 1991।

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार करतार सिंह (सं० 1373346 डब्ल्यू० अब जे० सी०-211330 ए०)---11 मार्च, 1991।

हवलदार जीवन सिंह (सं० 13744282 डब्ल्यू० अब जे० सी०-211331 एल०)---17 मार्च, 1991।

हवलदार जगदीश सिंह (सं० 13732169 पी० अब जे० सी०-211332 एन०)---01 मई, 1991।

हवलदार भगवान सिंह बलोरिया (सं० 13733062 एम० अब जे० सी०-211333 डब्ल्यू०)---01 मई, 1991।

हवलदार गुरमोज सिंह (सं० 13736757 ए० अब जे० सी०-211334 आई०)---14 मई, 1991।

हवलदार शक्ति सिंह (सं० 13731881 एक्स० अब जे० सी०-211335 ए०)---01 जून, 1991।

हवलदार गुरमीत सिंह (सं० 13733778 एल० अब जे० सी०-211336 के०)---01 जून, 1991।

हवलदार लच्छमन सिंह (सं० 13734327 एक्स० अब जे० सी०-211337 एम०)---01 जून, 1991।

हवलदार बलबीर सिंह (सं० 13734692 आई० अब जे० सी०-211338 पी०)---03 जून, 1991।

क(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार रणजीत सिंह (सं० 13734799 एन० अब जे० सी०-211339 एक्स०)---01 जून, 1991।

हवलदार खुनी लाल (सं० 13734834 एल० अब जे० सी०-211340 एम०)---03 जून, 1991।

“(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून, 1991 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक अमरजीत सिंह (सं० 13732728 एन० अब जे० सी०-211341 पी०)---04 फरवरी, 1991।

हवलदार लिपिक लेख राम यादव (सं० 13733387 ए० अब जे० सी०-211342 एक्स०)---01 मार्च, 1991।

हवलदार जगन नाथ शर्मा (सं० 13733404 पी० अब जे० सी०-211343 ए०)---24 मार्च, 1991।

---(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1991 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

हवलदार प्रकाश चन्व (सं० 13734256 एफ० अब जे० सी०-211344 ए०)---19 अगस्त, 1990।

हवलदार अशोक कुमार (सं० 13735560 एक्स० अब जे० सी०-211345 एल०)---19 अगस्त, 1990।

हवलदार फर्ग्यूसन सिंह (सं० 13735716 के० अब जे० सी० 211346 एन०)---01 नवम्बर, 1990।

हवलदार गुरदयाल सिंह (सं० 13735823 एल० अब जे० सी०-211347 डब्ल्यू०)---01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार तिलक सिंह बलोरिया (सं० 13734598 पी० अब जे० सी०-211348 आई०)---10 दिसम्बर, 1990।

हवलदार शुभदेव सिंह जसरोटिया (सं० 13735813 एफ० अब जे० सी०-211349 ए०)---29 दिसम्बर 1990।

हवलदार अजीत सिंह (सं० 13732069 के० अब जे० सी०-211350 डब्ल्यू०)---01 जनवरी, 1991।

हवलदार रिछपाल सिंह (सं० 13732463 पी० अब जे० सी०-211351 आई०)---01 जनवरी, 1991।

हवलदार रघवीर सिंह (सं० 13734054 ए० अब जे० सी०-211352 ए०)---01 जनवरी, 1991।

हवलदार प्रेम चन्व (सं० 13734796 ए० अब जे० सी० 211353 के०)---01 जनवरी, 1991।

हवलदार चैन सिंह (सं० 13734881 ए० अब जे० सी० 211354 एम०)---01 जनवरी, 1991।

हवलदार मदन लाल (सं० 13735838 एन० अब जे० सी०-211355 पी०)---01 जनवरी, 1991।

हवलदार अमरीक सिंह (सं० 13736370 एक्स० अब जे० सी०-211356 एक्स०)---01 जनवरी, 1991।

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं० 13734561 एन० अब जे० सी०-211357 ए०)---03 जनवरी, 1991।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार जसवन्त सिंह 13735942 एफ० अब जे० सी०-211358 ए०) 19 जनवरी 1991।

हवलदार द्वारका नाथ (सं० 13732363 के० अब जे० सी०-211359 एल०)---24 जनवरी, 1991।

हवलदार विजय कुमार ठोकुरी (सं० 13735/22 एफ० अब जे० सी०—211360 ए०)—11 फरवरी, 1991।

हवलदार बलदेव सिंह (सं० 13/32236 पी० अब जे० सी०—211361 एच०)—15 फरवरी 1991।%

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जनवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार ओंकार सिंह (सं० 13734526 एल० अब जे० सी०—211362 एल०)—27 फरवरी, 1991।=

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 फरवरी, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं० 13730814 ए० अब जे० सी०—211363 एन०)—16 मार्च, 1991।

हवलदार रतन सिंह नाथ्याल (सं० 13732230 एन० अब जे० सी०—211364 डब्ल्यू०)—15 अप्रैल, 1991।"

"नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जनवरी, 1991 से दी जायेगी)।

जम्मू और काश्मीर लाईट इन्फैंट्री

नायब सूबेदार (—) के रैंक में

हवलदार रामशेर सिंह (सं० 9079466 पी०) अब जे० सी०—211365 वाई०)—21 अप्रैल, 1991।*

*(01 सितम्बर 1990 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिये)।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक राम लाल (सं० 9076243 एम० अब जे० सी०—211366 एफ०)—12 अप्रैल, 1991।*

*(01 अक्तूबर 1990 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिये)।

हवलदार लिपिक गुलाम-उद-दीन शेख (सं० 9079629 एक्स० अब जे० सी०—211367 के०)—01 अक्तूबर, 1990

हवलदार लिपिक ज्ञान चन्द शर्मा (सं० 9079632 एक्स० अब जे० सी०—211368 एम०)—13 जनवरी, 1991**

** (18 दिसम्बर, 1990 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिये)।

11 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रोया नारायण थापा (सं० 9413608 पी० अब जे० सी०—211369 पी०)—01 जनवरी, 1991।

हवलदार गोबिन्द सिंह गुरूंग (सं० 9413636 एफ० अब जे० सी०—211370 के०)—01 जनवरी, 1991।

हवलदार दिलीप चन्द्र सुब्बा (सं० 9413167 के० अब जे० सी०—211371 एम०)—01 फरवरी 1991।

हवलदार बिजुली प्रसाद राई (सं० 9413355 एल० अब जे० सी०—211372 पी०)—01 अप्रैल, 1991।

हवलदार जहान कुमार राई (सं० 9412548 वाई० अब जे० सी०—211473 एक्स०)—01 अप्रैल, 1991।

हवलदार बोगस लेपचा (सं० 9412764 एम० अब जे० सी०—211374 एच०)—01 अप्रैल, 1991।

हवलदार लखू लामा (सं० 9413749 के० अब जे० सी० 211375 ए०)—11 अप्रैल, 1991।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) कुलदीप चौहान (सं० 9411926 के० अब जे० सी०—211376 एल०)—30 अप्रैल, 1991

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धन बीर राई (सं० 9413933 पी० अब जे० सी०—211377 एन०)—19 मई, 1991।*

*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार चन्द्रा कुमार राई (सं० 9414509 वाई० अब जे० सी०—211378 डब्ल्यू०)—30 अप्रैल, 1991।*

*वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी।

हवलदार नन्द कुमार लिम्बू (सं० 9412804 एच० अब जे० सी०—211379 वाई०)—01 नवम्बर, 1990।

हवलदार खड़का बहादुर कछावत (सं० 9413032 एच० अब जे० सी०—211380 एन०)—01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार सेलू राम राई (सं० 9412944 पी० अब जे० सी०—211381 डब्ल्यू०)—01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार इन्द्रा बहादुर राई (सं० 9411927 एच० अब जे० सी०—211382 वाई०)—01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार सुखबीर राई (सं० 9413053 वाई० अब जे० सी०—211383 एफ०)—01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार दल बहादुर लिम्बू (सं० 9413304 एक्स० अब जे० सी०—211384 के०)—01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार विशन बहादुर थापा (सं० 9413349 एच० अब जे० सी०—211385 एम०)—01 दिसम्बर, 1990।

1 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार दुर्गा बहादुर गुरूंग (सं० 5039332 पी० अब जे० सी०—211386 पी०)—18 मई, 1991।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) गोबिन्दा प्रसाद शर्मा भट्टारार्ई (सं० 5038169 एन० अब जे० सी०-211387 एक्स)--01 जून, 1991।

हवलदार (लिपिक) प्रीतम चन्द (सं० 5039386 एन० अब जे० सी०-211388 ए०)--01 जून, 1991।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लाल बहादुर गुरूंग (सं० 5038554 एक्स० अब जे० सी०-211389 एन०)--11 अप्रैल, 1991।

हवलदार गौन बहादुर गुरूंग (सं० 5038572 ए० अब जे० सी०-211390 एक्स०)--11 अप्रैल, 1991।

हवलदार चन्द्रा बहादुर सुबेदी (सं० 5039179 के अब जे० सी०-211391 ए०)--11 अप्रैल, 1991।

हवलदार मंजीव गुरूंग (सं० 5041368 एन० अब जे० सी०-311392 एन०)--11 अप्रैल, 1991।

हवलदार भुवन सिंह गुरूंग (सं० 5041222 वार्ड० अब जे० सी०-211393 एन०)--11 अप्रैल, 1991।

हवलदार मोती सिंह थापा (सं० 5039672 एक्स० अब जे० सी०-211394 एन०)--11 अप्रैल, 1991।

हवलदार मोती प्रसाद गुरूंग (सं० 5039681 वार्ड० अब जे० सी०-211395 डब्ल्यू०)--1 मई, 1991।

हवलदार पूर्णा नन्द (सं० 5039726 एन० अब जे० सी०-211396 वार्ड०)--01 मई, 1991।

1 जी आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धन राज थापा (सं० 5039210 एन० अब जे० सी०-211397 एन०)--1 फरवरी, 1991।

हवलदार हरका बहादुर थापा (सं० 5038424 पी० अब जे० सी०-211398 के०)--9 मई, 1991।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) सतपाल शर्मा (सं० 5038157 वार्ड० अब जे० सी०-211399 एन०)--1 मई, 1991।

हवलदार (लिपिक) नरेन्द्र प्रकाश राई (सं० 5038174 वार्ड० अब जे० सी०-211400 डब्ल्यू०)--1 मई, 1991।

4 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लुक बहादुर गुरूंग (सं० 5342199 एन० अब जे० सी०-211401 वार्ड०)--21 मई, 1991।

हवलदार मदन सिंह थापा (सं० 5342574 एन० अब जे० सी०-211402 एन०)--12 मार्च, 1991।

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक बलदेव राज (सं० 5340297 एन० अब जे० सी०-211403 के०)--01 मई, 1991।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार प्रेम बहादुर गुरूंग (सं० 5340461 ए० अब जे० सी०-211404 एन०)--1 अप्रैल, 1988।

9 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार विष्णु बहादुर क्षेत्री (सं० 5843045 के० अब जे० सी०-211405 पी०)--18 नवम्बर, 1990।X

X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार दिवान चन्द (सं० 5841213 के अब जे० सी० 211406 एक्स०)--24 मार्च 1991।X

X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार कुन बहादुर क्षेत्री (सं० 5841571 के अब जे० सी०-211407 ए०)--01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार कौशल बहादुर बस्नेत (सं० 5841731 वार्ड० अब जे० सी०-211408 एन०)--01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार भक्ता बहादुर क्षेत्री (सं० 5841676 एन० अब जे० सी०-211409 एन०)--01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार हरी सिंह बस्नेत (सं० 5841023 एन० अब जे० सी०-211410 ए०)--14 जनवरी, 1991।X

X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार बम बहादुर सिंह (सं० 5841746 एन० अब जे० सी०-211411 एन०)--01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार राम जी भण्डारी (सं० 5841519 एन० अब जे० सी०-211412 एन०)--01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार जंग बहादुर क्षेत्री (सं० 5840678 एन० अब जे० सी०-211413 एन०)--01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार नरेन्द्र बहादुर क्षेत्री (सं० 5842229 डब्ल्यू० अब जे० सी०-211414 डब्ल्यू०)--01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार गगन बहादुर क्षेत्री (सं० 5842306 ए० अब जे० सी०-211415 वार्ड०)--25 फरवरी, 1991।X

X (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार उमर बहादुर क्षेत्री (सं० 5841550 एन० अब जे० सी०-211416 एन०)--26 फरवरी, 1991।X

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी)।

हवलदार देवेन्द्र बहादुर शाह (सं० 5842787 एक्स० अब जे० सी०-211417 के०) — 25 फरवरी, 1991।

हवलदार लेख बहादुर क्षेत्री (सं० 5842855 ए० अब जे० सी०-211418 एम०) — 01 मार्च, 1991।

हवलदार मोहन सिंह बस्नेत (सं० 5841884 एच० अब जे० सी०-211419 पी०) — 01 मई, 1991।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) केशव सिंह (सं० 5840904 वाई अब जे० सी०-211420 के०) — 014 मार्च, 1991। ×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार (लिपिक) रामाधार (सं० 5840928 एन अब जे० सी०-211421 एम०) — 08 अप्रैल, 1991। ×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1991 से दी जायेगी)।

3 जी० आर०

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) वैज नाथ श्रीवास्तव (सं० 5240538 एन० अब जे० सी०-211422 पी०) — 03 फरवरी, 1991।

हवलदार (लिपिक) रघु राज सावन (सं० 5241180 एफ० अब जे० सी०-211423 एक्स०) — 01 मई, 1991।

3 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पदम बहादुर थापा (सं० 3240684 एच० अब जे० सी०-211424 ए०) — 22 फरवरी, 1991। ×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 90 से दी जायेगी)।

हवलदार देव सिंह रामा (सं० 5240550 के अब जे० सी०-211425 एच०) — 01 दिसम्बर, 1990।

हवलदार गोपाल सिंह थापा (सं० 5240595 के अब जे० सी०-211426 एल०) — 01 जनवरी, 1991।

हवलदार वील बसापुर पून (सं० 5249575 डब्ल्यू० अब जे० सी०-211427 एन०) — 01 जनवरी, 1991।

हवलदार बुद्धी बहादुर थापा (सं० 5240694 एम० अब जे० सी०-211428 डब्ल्यू०) — 01 जनवरी, 1991।

हवलदार मन धोष गुरूंग (सं० 5240433 वाई० अब जे० सी०-211429 वाई०) — 01 जनवरी, 1991।

हवलदार नर बहादुर राना (सं० 5240726 के० अब जे० सी०-211430 एन०) — 01 फरवरी, 1991।

हवलदार धरम बहादुर भण्डारी (सं० 4241062 एन० अब जे० सी०-211431 डब्ल्यू०) — 01 मार्च, 1991।

हवलदार चेत बहादुर गुरूंग (सं० 5241083 के अब जे० सी०-311432 वाई०) — 01 मार्च, 1991।

हवलदार शर्क बहादुर गुरूंग (सं० 5241093 एम० अब जे० सी०-211433 एफ०) — 01 मार्च, 1991।

9 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मदन लाल क्षेत्री (सं० 5840695 एम० अब जे० सी०-211434 के०) — 01 जनवरी, 1991।

हवलदार कर्ण बहादुर मल्ल (सं० 5841230 वाई० अब जे० सी०-211435 एम०) — 01 जनवरी, 1991।

हवलदार राम चन्द्र अर्जेल (सं० 5841232 के अब जे० सी०-211436 पी०) — 01 जनवरी, 1991।

हवलदार किशन लाल क्षेत्री (सं० 5841254 एच० अब जे० सी०-211437 एक्स०) — 01 जनवरी, 1991।

हवलदार जीत बहादुर थापा (सं० 5841447 एम० अब जे० सी०-211438 ए०) — 01 जनवरी, 1991।

हवलदार मोहन सिंह क्षेत्री (सं० 5841574 एक्स० अब जे० सी०-211439 एच०) — 01 जनवरी, 1991।

8 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लकुमण गुरूंग (सं० 5746666 वाई० अब जे० सी०-211440 एक्स०) — 01 अप्रैल, 1991।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) बल बहादुर गुरूंग (सं० 5745761 वाई० अब जे० सी०-2110441 ए०) — 01 मई, 1991।

हवलदार (लिपिक) विरेन्द्र सिंह प्रधान (सं० 5745756 एन० अब जे० सी०-211442 एच०) — 01 जून, 1991।

विशेष सूची

गारव त्रिगेड

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

केलाश चन्द्र (जे० सी०-213052 वाई०) — 21 मई, 1991। ×

× (नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अप्रैल, 1991 से दी जायेगी)।

पंजाब रेजीमेंट

नायब सूबेदार (धर्म गुरु) के रैंक में

जगजीत सिंह (जे० सी०-213053 एफ०)---13 अप्रैल 1991।

मुरारी लाल (जे० सी०-213054 के०)---13 अप्रैल 1991।

मराठा लाइट इन्फैंट्री

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

वीरेन्द्र मिश्र (जे० सी०-213055 एम०)---24 दिसम्बर 1990।

विनोद कुमार (जे० सी०-213056 पी०)---24 दिसम्बर 1990।

आट रेजीमेंट

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

लॉस नायक कलक अशोक कुमार (सं० 3180124 एक्स० अब जे० सी०-213057 एक्स०)---13 अप्रैल 1991।

विशेष सूची

डोगरा रेजीमेंट

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

उमा शंकर पांडे (जे० सी०-213058 ए०)---13 अप्रैल 1991।

गढ़वाल राइफल्स

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

महिधर प्रसाद चमोली (जे० सी०-213059 ए०)---13 अप्रैल 91।

4 जी० आर०

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नायब सूबेदार माधवनन्द मनी त्रिपाठी (सं० 5346835 एफ० अब जे० सी०-213061 ए०)---13 अप्रैल 1991।

1 जी० आर०

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

खड्ड (धर्म शिक्षक) महेंद्र नारायण त्रिपाठी (सं० 5044854 पी० अब जे० सी०-213060 एक्स०)---13 अप्रैल 1991।

ध० र० शर्मा
अवर सचिव

सं० 85, दिनांक 2 जनवरी 1992---राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:---

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

कैप्टन से मेजर बनाया जाता है

प्रभू लाल देवन्द (टी० ए०-41544) इंजीनियर्स---15 नवम्बर 89।

जे० सी० शर्मा
अवर सचिव

तटरक्षक

सं० 86, दिनांक 15 जनवरी 1992---राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियाँ/पदोन्नतियाँ करते हैं:---

श्री रामेन्द्र राजकमल (0283-क्यू) 13 जुलाई, 91 से दो वर्ष की परिवीक्षा पर सहा० कमाण्डेंट (जी० डी०) के पद पर नियुक्त किया।

श्री त्रिवीप सिंह चौहान (0284-एम्०) ---वही---

श्री ब्रवण सिंह चौहान (0285-वी०) ---वही---

श्री सतवन्त सिंह (0286-एक्स०) ---वही---

श्री मणिकम वेंकटेशन (0287-सी०) ---वही---

श्री सरोज कुमार साहू (0288-डी०) ---वही---

श्री समतन जेता (0289-ई०) ---वही---

श्री जसविन्द्र सिंह चढ़वा (090-जे०) ---वही---

श्री अतुल वन्त्रकांत डंडेकर (0291-एल०) ---वही---

श्री जतिन्द्र सिंह सरोज (0292-एम०) ---वही---

श्री अतानु गुहा ठाकुर (0293-पी०) ---वही---

श्री मार्क जोन रोनल पिन्हेरो (0294-क्यू०) ---वही---

श्री आलोक कुमार मिश्र (0295-एस०) ---वही---

श्री अखिलगन सुब्रमणियम कन्डास्वामी (0296-वी०) ---वही---

श्री एम० विजय कुमार (0297-एक्स०) ---वही---

श्री हिमांशु मौटियाल (0298-सी०) 14 जुलाई, 91 से दो वर्ष की परिवीक्षा पर सहायक कमाण्डेंट (जी० डी०) के पद पर नियुक्त किया।

श्री रणजीत कुमार सिंह (0299-डी०) ---वही---

श्री रघुजीत सिंह वेदी (0300-ई०) ---वही---

श्री राजेश राजन (0301-जे०) ---वही---

श्री बबकम रमानी अरण (0303-एम्०) ---वही---

श्री राजीव मित्तल (0304-पी०) 23-7-91 से दो वर्ष की परिचीक्षा पर सहायक कमाण्डेंट (जी० डी०) के पद पर नियुक्त किया।

श्री सुनील कुमार पाठक (4074-जे०) 10-8-91 से दो वर्ष की परिचीक्षा पर सहायक कमाण्डेंट (तकनीकी) के पद पर नियुक्त किया।

श्री मदन गल्लू कृष्ण भट्ट (4075-एल०) —वही—

श्री स्वयं प्रकुला बेंकेट श्रीकान्त (4076-एम०) 10-8-91 से दो वर्ष की परिचीक्षा पर सहायक कमाण्डेंट (तकनीकी) के पद पर नियुक्त किया।

श्री अजय कुमार (5039-सी०) —वही—

श्री अयो कुमार सिन्हा (5040-डी०) 26-8-91 से दो वर्ष की परिचीक्षा पर सहायक कमाण्डेंट (तकनीकी) के पद पर नियुक्त किया।

सहायक कमाण्डेंट किरपाल सिंह (0123-डी०) तथा निजी रं० (4077-पी०) 01 जून 1985 की वरिष्ठता के साथ तकनीकी शांख में सहायक कमाण्डेंट (तकनीकी) के पद पर पुनः लिया।

विलबाय सिंह
डेस्क अधिकारी तटरक्षक

(शस्त्र सेना विभाग)

सं० 87, दिनांक 18 दिसम्बर 91—निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमिशनड अफसरों को नौकरी पर बहाल किया जाता है। बद-और बहाली की तिथि नाम के सामने अंकित है।

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार के रैंक में

सूबेदार दिनेश चन्द्रर (जे० सी०-77397 के०) पहले सिगनल्स कोर—05 दिसम्बर 1989।

सूबेदार मेहर सिंह (जे० सी०-74641 एफ०) पहले बी० ई० पी०—16 मई 1990।

सूबेदार शिवजी सिंह (जे० सी०-77991 वाई०) पहले बिहार रेजीमेंट—02 दिसम्बर 1990।

सूबेदार मधु सुदन प्रसाद (जे० सी०-90213 एम०) पहले बिहार रेजीमेंट—02 दिसम्बर 1990।

सूबेदार खुशाल चन्द (जे० सी०-107838 ए०) पहले जे० एन्ड के० राइफलस—03 दिसम्बर 1990।

सूबेदार रघवीर सिंह (जे० सी०-117691 एच०) पहले सिख रेजीमेंट—04 दिसम्बर 1990।

सूबेदार जगन नाथ (जे० सी०-73672 पी०) पहले गार्ड रेजीमेंट—04 दिसम्बर 1990।

सूबेदार राम विमान (जे० सी०-99761 एल०) पहले ए० एस सी० (एम टी०)—04 दिसम्बर 1990।

सूबेदार राम स्वरूप यादव (जे० सी०-85143-पी०) पहले सिगनल्स कोर—04 दिसम्बर 1990।

सूबेदार कृष्ण चन्द्रा प्रति रर (जे० सी०-83870 एन०) पहले आर्टी० रेजीमेंट—10 दिसम्बर 1990।

सूबेदार साधन सिंह (जे० सी०-135129 एफ०) पहले आर्टी० रेजीमेंट—10 दिसम्बर 1990।

ग्रेनेडियर सूबेदार हुसैन खान (जे० सी०-77072 के०) पहले—10 दिसम्बर 1990।

नायब सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जोसफ (जे० सी०-168177 एफ०) पहले सिगनल्स कोर—12 मई 1990।

नायब सूबेदार प्रेम लाल (जे० सी०-118233 वाई०) पहले आर्टी० रेजीमेंट—1 दिसम्बर 1990।

नायब सूबेदार बलिक दास शर्मा (जे० सी०-126505 एच०) पहले मैक० इम्फेरी—02 दिसम्बर 1990।

नायब सूबेदार गंगा सिंह (जे० सी०-183156 एच०) पहले गोरखा राईफलस—02 दिसम्बर 1990।

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे० सी०-103578 एच०) पहले पंजाब रेजीमेंट—03 दिसम्बर 1990।

नायब सूबेदार रामशेर सिंह (जे० सी०-98833 एक्स०) पहले सिख रेजीमेंट—04 दिसम्बर 1990।

नायब सूबेदार मदन लाल (जे० सी०-172162 डब्ल्यू०) पहले ईन्ट० कोर—01 दिसम्बर 1990।

नायब सूबेदार आश बहादुर गढ़ंग (जे० सी०-174333 डब्ल्यू०) पहले ए० ई० सी०—04 दिसम्बर 1990।

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जे० सी०-108926 एच०) पहले गढ़वाल राईफलस—06 दिसम्बर 1990।

नायब सूबेदार सुन्दर सिंह परिहार (जे० सी०-114017-एम०) पहले कुमाऊं रेजीमेंट—07 दिसम्बर 1990।

जी० डी० नागल
अवर सचिव

उप मुख्य प्रशासक अधिकारी

फनेडी (20103), सुनील कोहली (20104), संगीत कुमार थापियालीयाल (20105), संदीप मोहन (20106), प्रशान्त कुमार चौबे (20219)---16 दिसम्बर 89।

बी० यू० पिल्लै
स्वायत्त लीडर
ए० डी० पी० ओ० -3 (डी)

शुद्धि पत्र
नियमित सेना
सेना शाखा

सं० 92, दिनांक 7 जनवरी, 1992--06 मई 1991 का प्रकाशित संख्या 716, राजपत्र संख्या 26 दिनांक 29 जून 1991 के शीर्षक "नियमित सेना" उपशीर्षक सेना सेवा कोर (यांत्रिक परिवहन) नायब सूबेदार के रैंक के लिये:--

हवलदार राम देव प्रसाद (नं० 1383819 एक्स० अब जे० सी०-202687 एक्स०)--01 अगस्त 1990।

के स्थान पर--हवलदार राम देव प्रसाद (नं० 13835819 एक्स० अब जे० सी०-202687 एक्स०)--01 अगस्त 1990।

हवलदार शीतल कुमार मंडल (नं० 1384469 एक्स० अब जे० सी०-202694 एन०)--01 सितम्बर 1990।

के स्थान पर--हवलदार शीतल कुमार मंडल (नं० 13844469 एक्स० अब जे० सी०-202694 एन०)--01 सितम्बर 1990

प्रकाश शर्मा,
अवर सचिव

शुद्धि पत्र
(सेना शाखा)

सं० 93, दिनांक 7 जनवरी 1992--भारत के राजपत्र सं० 531/90 में 'नियमित सेना'--'स्थायी कमीशन' शीर्षक और उपशीर्षक 'सेना में लेफ्टिनेंट के मूल रैंक में (चयन द्वारा) के अन्तर्गत में निम्नलिखित आर० पी० एम० शिशोदिथा (ए० एल० 1547) ए० एल० (क्यू० एम०), 01 अगस्त 1985 के बाद में:--

के लिये एच० एम० सन्धु (ए० एल० 2337) ए० एल० (आर० ओ०)--01 मई 1986।

हरबक्स सिंह (ए० एल० 2268) ए० एल० (आर० ओ०)--01 मई 1986।

पढ़ा जाये हरबक्स सिंह (ए० एल० 2268) ए० एल० (आर० ओ०)--01 मई 1986।

एच० एम० सन्धु (ए० एल० 2337) ए० एल० (आर० ओ०)--01 मई 1986।

ले० कर्नल डी० सी० कटोच,
स्थानापन्न, कर्नल एम० एस०

सं० 94, दिनांक 1-1-92--निम्नलिखित अधिकारी को निर्वतन आयु को प्राप्त होने पर 31-12-91 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त तथा 01-01-92 से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित:--

श्री एस० पी० खन्ना, मुख्य अनुवाद अधिकारी, जी० एस०/एम० टी०।

श्री बी० एस० सेन, सुपर वाइसर निरीक्षक, जी० एस०/एम० आई०।

स० लोगनाथन
उप मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी (प्र०)

सं० 95, दिनांक 23 जनवरी, 1992--निम्नलिखित एयर अधिकारी ने राष्ट्रपति अवैतनिक सर्जन के पद को अपने नाम के सामने दी गई अवधि से सेवा निवृत्त होने के कारण त्याग दिया है:--

एयरमार्शल पी० एम० सुन्दरम, ए० बी० एम० एस० (एम० आर० 648) भूतपूर्व डी० जी० एम० एस० (एयर)--30 नवम्बर 1991 (अपराह्न)।

सं० 96, दिनांक 23 जनवरी, 1992--निम्नलिखित जनरल अधिकारी ने राष्ट्रपति अवैतनिक सर्जन के पद को अपने नाम के सामने दी गई अवधि से सेवा निवृत्त होने के कारण त्याग दिया है:--

ले० जनरल जे० के० अरंडिया, ए० बी० एम० एस० भूतपूर्व अतिरिक्त डी० जी० ए० एफ० एम० एस० (एम० आर० 1261)--31 अक्टूबर 1991।

थल सेना विभाग

सं० 97, दिनांक 19 नवम्बर 1991--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी को उसके नाम के सामने दी गई तिथि से सैनिक सेवा से पदच्युत करते हैं:--

नियमित सेना

अल्पकालिक कमीशन

कैप्टन राम चरण शर्मा (एम० एल०-09954 एम०) ए० एम० सी०/एम० एस० सी०--19 जून 90।

प्राधिकार-भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र सं० बी०/29008/डी० बी०-2/351-एस/डी (ए० जी०) दिनांक 19 जून 1990।

ए० जे० चक्रवर्ती
मेजर जनरल
उप महानिदेशक

सं० 98, दिनांक 1 जनवरी, 1992--आयुक्त मास्टर जनरल शाखा के निम्नलिखित अधिकारियों को निर्वत आयु को प्राप्त होने पर दिनांक 31-12-91 से सेवा निवृत्त तथा दिनांक 01-1-92 से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित किया गया।

श्री राजन लाल सिविलियन स्टाफ अधिकारी

श्री फिरोज बहादुर सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी

श्री बलदेव राज सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी

श्री एम० पी० सूदन सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी

सेना शाखा

रक्षा सम्पदा महानिदेशालय

सं० 99, दिनांक 7 जनवरी 1992—अधिवर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री ओ० पी० चड्ढा, ए० सी० एम० ओ० दिनांक 31 दिसम्बर, 91 (अपराह्न) को सेवा से निवृत्त हो गये तथा दिनांक 01 जनवरी, 92 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में बदली कर दिये गये।

एम० लोगानाथन

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

थल सेना विभाग

सं० 100, दिनांक 30 दिसम्बर 1991—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसर को अधिवर्ष आयु प्राप्त होने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं:—

नियमित सेना

स्थाई आयोग

ले० जनरल जे० के० अरोड़ा, ए० बी० एस० एम०, पी० एच० एस० (एम० आर०—1261) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी०—31 अक्टूबर 91 (अपराह्न)।

ले० जनरल ए० के० बनर्जी, बी० एस० एम० (एम० आर०—897) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी०—31 अगस्त 1991 (अपराह्न)।

मेजर जनरल एम० एल० सपरा, ए० बी० एम० एम० बी० एम० एम० (एम० आर०—994) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी०—31 मार्च 1991 (अपराह्न)।

मेजर जनरल जी० स्वरूप (एम० आर०—917) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी०—30 जून 1991 (अपराह्न)।

मेजर जनरल बी० सीतारामन (एम० आर०—992) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी०—30 अप्रैल 1991 (अपराह्न)।

ब्रिगे० बी० एन० चक्रावर्ती (एम० आर०—2160) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी०—31 अक्टूबर 91 (अपराह्न)।

ब्रिगे० एस० के० घोषाल (एम० आर०—1531) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी०—31 अगस्त 1991 (अपराह्न)।

ब्रिगे० सी० पी० गोयल (एम० आर०—1414) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी०—31 अगस्त 1991 (अपराह्न)।

ब्रिगे० एम० दास (एम० आर०—2139) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी०—31 मई 1991 (अपराह्न)।

ब्रिगे० पी० के० घोष (एम० आर०—2150) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी०—31 अगस्त 1991 (अपराह्न)।

कर्नल एम० जी० मोघ (एम० आर०—1843) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी०—31-10-91 (अपराह्न)।

कर्नल टी० सी० सैकिया (एम० आर०—1961) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी०—30 सितम्बर 1991 (अपराह्न)।

कर्नल ए० अब्दुल सलाम (एम० आर०—1112) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी०—31 मई 1991 (अपराह्न)।

ले० कर्नल एस० बी० एल० दिवान (एम० आर०—2505) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी०—30 सितम्बर 1991 (अपराह्न)।

ले० कर्नल के० एम० अम्नाजी (एम० आर०—1879) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी०—31 मई 1991 (अपराह्न)।

ले० कर्नल के० के० सिंह (एन० टी० आर०—16340) सैनिक डाक्टरी कोर/एन० टी० आर०—31 मई 1990 (अपराह्न)।

ले० कर्नल एच० के० चावला (एम० आर०—1580) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी०—30 अप्रैल 1991 (अपराह्न)।

सं० 101, दिनांक 30 दिसम्बर 1991—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसर को उनकी प्रार्थना पर समय पूर्व सेना से निवृत्त होने तथा उनका स्थानांतरण अफसरों की नियमित रिजर्व (श्रेणी एक्स) में करने की अनुमति प्रदान करते हैं:—

नियमित सेना

स्थाई आयोग

कर्नल बी० पी० माथुर (एम० आर०—1773) सेना शिक्षा कोर/पी० सी०—01 अक्टूबर 91 (पूर्वाह्न)।

ले० कर्नल सी० एस० नाथ (एम० आर०—3304) सेना शिक्षा कोर/पी० सी०—28 जुलाई 91 (अपराह्न)।

ले० कर्नल (श्रीमती) एस० नारायणनम् प्रभाकरन (एम० आर०—2190) सेना शिक्षा कोर/पी० सी०—12 जून 91 (अपराह्न)।

ले० कर्नल एल० डब्ल्यू० वोल्फ (एम० आर०—2238) सेना शिक्षा कोर/पी० सी०—01 अक्टूबर 91 (अपराह्न)।

ले० कर्नल वाई० शर्मा (एम० आर०—2455) सेना शिक्षा कोर/पी० सी०—31 अगस्त 91 (अपराह्न)।

ले० कर्नल पी० सरकार (एम० आर०-2604) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-18 मई 91 (अपराह्न)।

ले० कर्नल आर० एस० लिखारी (एम० आर०-2672) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-01 अक्टूबर 91 (पूर्वाह्न)।

ले० कर्नल बी० के० मेनन (एम० आर०-2665) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-30 जन 1991 (अपराह्न)।

ले० कर्नल एम० चौधरी (एम० आर०-2535) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-27-10-91 (अपराह्न)।

ले० कर्नल श्रीमती सोभा बालाकृष्णन (एम० आर०-2663) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-16 जुलाई 91 (अपराह्न)।

थल सेना विभाग

सं० 102, दिनांक 30 दिसम्बर 1991—राष्ट्रपति निम्नलिखित अकसर को चिकित्सा संबंधी कारणों से अविधिमान्य घोषित करते हैं:—

नियमित सेना

स्थाई आयोग

कर्नल के० कृष्णाजी (एम० आर०-2115) ए० एम० सी०/पी० सी०-25-6-91 (पूर्वाह्न) से।

ले० कर्नल पी० के० मोहापात्रा (एम० आर०-3370) ए० एम० सी०/पी० सी०-06-7-91 (अपराह्न) से।

ले० कर्नल के० आर० शिवारामाकृष्णन (एम० आर० 2674) ए० एम० सी०/पी० सी०-30-4-91 (अपराह्न) से—

ले० कर्नल बी० पी० सिंगल (एम० आर०-3214) ए० एम० सी०/पी० सी०-20-9-91 (पूर्वाह्न)।

एच० चक्रवर्ती

मे० जनरल

उप० म० पि० स० से० पि० से०

सेना शाखा

सं० 103, दिनांक 21 जनवरी 1992—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को प्रादेशिक सेना कमीशन त्यागने की अनुमति देते हैं:—

प्रादेशिक सेना कमीशन

लेफ्टि० मरीम्मा असनिल कुन्नयिल जोम, टी० ए० (एन०)-1014 एमएनएम (टीए)-10 अगस्त 1975 (ए० एम०)

2/लेफ्टि० जानिन्दर सिंह बिक टी० ए०-41995 इजी-23 जुलाई 88 (ए० एन०)।

मेजर बालम रामान्त साईनाथ, टी० ए० (एम०)-1134 ए० एम० सी० (टी० ए०)-6 अक्टूबर 88 (ए० एन०)।

जे० सी० शर्मा

अवर सचिव

तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु)

रक्षा वैमानिक गुणता आश्वासन सेवा

सं० 104, दिनांक 20 दिसम्बर 1991—निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर, मुख्य निवासी निरीक्षक का कार्यालय, तयनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु) रक्षा मंत्रालय, हैदराबाद में श्री डी० आर० वी० शास्त्री, अपर निदेशक दिनांक 30 नवम्बर, 1991 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

श्याम सुन्दर

डैस्क अधिकारी

(नौसेना शाखा)

सं० 105, दिनांक 3 जनवरी 1992—श्री डी० डी० बतारा सिविलियन टेक्नीकल असिस्टेंट (इंजीनियरिंग) दिनांक 31 दिसम्बर 1991 (अपराह्न) से सेवा से निवृत्त हुए।

सं० 106, दिनांक 2 जनवरी 1992—श्री सुभाष चन्द्र चावला सीनियर डिजाईन आफिसर ग्रेड 1 (एल), 31 दिसम्बर 1991 अपराह्न से स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हुए।

सी० आर० मालावलिया
उप निदेशक सिविलियन (कामिक)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा

सं० 107, तारीख 21 जनवरी 1992—रक्षा अनुसंधान तथा विकास, प्रयोगशाला, हैदराबाद के डा० ई० भगीरथा राव, वैज्ञानिक “जी” सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31-12-1991 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हुए तथा दिनांक 1-1-1992 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित किए गए।

सं० 108, तारीख 1 जनवरी 1992—रक्षा सामग्री एवं भण्डार अनुसंधान तथा विकास स्थापना सामग्री, कानपुर के श्री एच० सी० पति, वैज्ञानिक “सी” सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31-10-1991 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हुए तथा दिनांक 01-11-1991 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित किए गए।

नरसिंह दास

सहायक निदेशक (कामिक)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 22nd February 1992

No. 37, dated 21st January 1992.—The President is pleased to appoint Shri Dipankar Basu, IAS (GJ-66), on

transfer from Union Public Service Commission, New Delhi, as Joint Secretary, in the Ministry of Defence, with effect from the forenoon of 15-1-1992, until further order.

No. 38, dated 16-1-1992.—The President is pleased to appoint the following Assistants borne on the CSS cadre of Ministry of Defence as Section Officers in the same Ministry on adhoc basis for the period mentioned against each or, till regular officers become available or, until further orders, whichever is earlier.

Name	From	To
S/Shri		
Sarup Singh	1-1-1992	31-3-1992
K.S. Condrolli	1-1-1992	31-3-1992
	(With one day's break on 18-2-92)	
Charanjit Lal	1-1-1992	31-3-1992
	(With one day's break on 31-3-92)	
Smt. V. Thakur	1-1-1992	31-3-1992
	(With one day's break on 4-3-92)	
M.C. Shome	1-1-1992	31-3-1992
R.C. Sharma	1-1-1992	31-3-1992
K.H. Lachhiram	1-1-1992	31-3-1992
	(With one day's break on 7-1-92)	
Ajay Saxena	1-1-1992	31-3-1992
	(With one day's break on 19-3-92)	
Sunil Madan	1-1-1992	31-3-1992
	(With one day's break on 6-3-92)	
S.K. Sharma	1-1-1992	31-3-1992
	(With one day's break on 6-3-92)	
S.D. Sharma	1-1-1992	31-3-1992
	(With one day's break on 10-2-92)	
M.G. Arora	1-1-1992	31-3-1992
	(With one day's break on 7-3-92)	
S.M. Gupta	1-1-1992	31-3-1992
	(With one day's break on 9-3-92)	
M.M. Thomas	1-1-1992	31-3-1992
	(With one day's break on 24-3-92)	
Sachhey Ram	1-1-1992	31-3-1992
	(With one day's break on 24-3-92)	
Vijay Kumar	1-1-1992	31-3-1992
	(With one day's break on 26-3-92)	
B.S. Ranga	1-1-1992	31-3-1992
	(With one day's break on 12-2-92)	
J.N. Ghosal	1-1-1992	31-1-1992
	(With one day's break on 24-1-1992)	
S.S. Bhorla	1-1-1992	31-3-1992
	(With one day's break on 4-2-92)	
Ram Prasad	1-1-1992	31-3-1992
	(With one day's break on 29-2-92)	
A.P. Sharma	6-1-1992	31-3-1992

No. 39, dated 10th January 1992.—The services of Shri H. C. Jain, IRS(IT), Under Secretary, Ministry of Defence are placed at the disposal of Chief Commissioner of Income-Tax, Lucknow, with effect from the afternoon of 10th January, 1992.

the Ministry for a period of 3 months w.e.f. 1-1-1992 or until further orders, whichever is earlier.

S/Shri

Mukesh Singhal
Ashok Kumar
T. P. Mondal
Ram Krishan

No. 40, dated 8th January 1992.—The President is pleased to appoint the following Section Officers of CSS of the Ministry of Defence to officiate as Desk Officers in

S. T. Vijayaraghavan
Prem Kumar Hans
S. S. Bedi
D. N. Kataria
D. R. Mehra
J. P. Gupta
V. K. Kapoor
Om Prakash
Dilbagh Singh

R. N. Guha
R. S. Dudani
Balram Verma
Diwan Chand
V. K. Mehta
Suman K. Sharma
A. K. Madan
Smt. Shakuntala Jain
S. K. Deb

No. 41, dated 16-1-1992.—The following amendment is made at serial No. 4 of para 1 of Ministry of Defence DGN No. 22014/1/91-D (Est. I/Gp.I) dated 19-12-91 :—

FOR

Shri Garib Das

READ

Shri Garib Dass Nangal

HARI KUMAR, Under Secy.

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION

D.R.D.S.

No. 42, dated 9th December 1991.—The President is pleased to make the following appointment :—

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICE

Shri V. Bhujanga Rao, Scientist 'D', Naval Science & Technological Laboratory, Visakhapatnam to be temporary Scientist 'E' in the Ship Building Centre (ATV), Vishakhapatnam on probation for a period of one year with effect from 29-6-1990 (A/N).

NARSINGH DASS, Assistant Director (Pers.)

No. 43, dated 20th January 1992.—The President is pleased to make the following appointment :—

Miss Usha Dudani to be temporary Scientist 'B' on probation for a period of two years in Defence Institute of Physiology and Allied Sciences, Delhi with effect from 12-12-1991 (FN).

No. 44, dated 20-1-1992.—The President is pleased to make the following appointments :—

The undermentioned individuals to be temporary Scientist 'B' on probation for a period of two years in the Establishments and with effect from the dates shown against their names :—

Name	Estt.	Date
Shri D.L. Siddalingaiah	DRDL, Hyderabad	04-03-1991 (FN)
Shri M. Manickavasagam	DRDL, Hyderabad	10-05-1991 (FN)
Shri P.K. Sarkar	DRDL, Hyderabad	18-03-1991 (FN)
Shri Jitender Chugh	DRDL, Hyderabad	23-08-1990 (FN)
Shri Rakesh Vohra	DRDL, Hyderabad	23-08-1990 (FN)
Smt. Ch. Naga Lakshmi	DRDL, Hyderabad	29-10-1990 (FN)
Shri Shantanu Bhattacharyya	RCI, Hyderabad	27-09-1991 (FN)
Shri Shivpal Singh	RCI, Hyderabad	10-04-1991 (FN)

B.N. MEHRA, Asstt. Director (Pers.)

ARMY BRANCH
(MILITARY ENGINEER SERVICE)

No. 45, dated 29th January 1992.—Engineer-in-Chief is pleased to appoint the following Supdt B/R Gde I as Assistant Engineer B/R with effect from the dates shown against their names, until further orders. The officers will be on probation for a period of two years :—

MES-303731 Sh. Kulwant Singh—24 Jul 1990 (FN)

MES-232560 Sh. Kushala Nand—10 Dec 1990 (FN)

MES-450109 Sh. J C Sharma—22 Nov 1990 (FN)

MES-430934 Sh. P N Kundu—04 Sep 1991 (FN)

MES-242140 Sh. T M Appukuttan—31 Dec 1990 (FN).

S KAPOOR

Col.

Dir of Pers 'B'
for Engineer-in-Chief

No. 46, dated 10th December 1991.—The President is pleased to appoint MES-300325 Shri Subhash Chand as Assistant Executive Engineer, BIR with effect from 21 Aug

1991 (FN) until further orders. The officer will be on probation for a period of two years.

S S NEGI, Under Secy.

DIRECTORATE OF TECHNICAL DEVELOPMENT AND PRODUCTION (AIR)

DEFENCE AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE SERVICE

No. 47, dated 7th January 1992.—The President is pleased to make the following appointments in DTD&P (Air), Ministry of Defence :—

Shri T. Satyanarayana, to be temporary Senior Scientific Officer Grade-II in OCRI, DTD&P(Air), Ministry of Defence, Hyderabad on probation for a period of two years with effect from 10th September, 1991 (FN).

Shri K Niranjana Chary to be temporary Senior Scientific Officer Grade-II in CRI, (GW) DTD&P(Air), Ministry of Defence, Hyderabad on probation for a period of two years with effect from 10th October, 1991 (FN).

Shri K M Priyadarsanan to be temporary Senior Scientific Officer Grade-II in OCRI, DTD&P(Air), Ministry of Defence, Ojhar on probation for a period of two years with effect from 18 November, 1991 (FN).

Shri A. K. Bhatte to be temporary Senior Scientific Officer Grade-II in OCRI, DTD&P(Air), Ministry of Defence, Korwa on probation for a period of two years with effect from 23 September, 1991 (FN).

Shri Subhash Chand Sharma to be temporary Senior Scientific Officer Grade-II in OCRI, DTD&P(Air), Ministry of Defence, Ojhar on probation for a period of two years with effect from 11th November, 1991 (FN).

SHYAM SUNDER, Desk Officer

No. 48, dated the 1st December 1991.—The President is pleased to appoint Shri K. Dwarakanath, an officer of the Indian Ordnance Factories Service as Director General Ordnance Factory/Chairman, Ordnance Factory Board with effect from 1st December, 1991 (FN) and until further orders.

SURENDRA SINGH, Director (P)

ARMY BRANCH

No. 49, dated 16th January 1992.—Approval of the competent authority has been accorded to the appointment of the following officers of AFHQ Civil Service and AFHQ Stenographers Service as Civilian Staff Officers Under Rules 10(2) of Armed Forces Headquarters Civil Service Rules, 1968 for a period till 20-4-1992 from the dates shown against their names or till regular incumbents become available, whichever is earlier :

Shri Avtar Singh—21-10-1991
Shri L. Vajphal—21-10-1991
Shri Ajay Kumar—21-10-1991
Shri M. S. Arshi—21-10-1991
Shri Charan Singh—21-10-1991
Shri Rajan Lal—21-10-1991
Shri Jaswant Singh—21-10-1991
Shri Ram Dhan—21-10-1991
Shri P. K. Bhui—21-10-1991
Shri K. Shivasankar—21-10-1991
Shri Lakhmi Singh—07-11-1991
Shri Darshan Singh—21-10-1991.

These appointments are made purely as stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

No. 50, dated 16th January 1992.—Shri Behari Lal, Civilian Staff Officer, is appointed as Selection Grade Officer (SCSO) of AFHQ Civil Service from 13-12-1991 to 31-12-1991 under Rule 10(2) of the AFHQ Civil Service Rules, 1968.

2. The appointment is purely as on stop-gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbent.

(GS/MS BRANCHES)

No. 51, dated 16th January 1992.—The following Assistants of AFHQ Civil Service are appointed as Officiating Assistant Civilian Staff Officer (Group 'B'-Gazetted) from the dates shown against their names until further orders :—

G S Branch

Shri Bhagwant Singh—13-11-1991 (FN)

Shri P N Hastir—13-11-1991 (FN).

M S Branch

Shri D D Singh—29-11-1991 (FN).

2. They will be on probation for a period of two years which can be extended at the discretion of the competent authority.

No. 52, dated 14th January 1992.—The following appointment is made :—

RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

Shri Sham Lal, Stenographer Grade 'C' is appointed as Stenographer Grade 'B' on temporary basis under Rule 12(3) of AFHQ Stenographer's Service Rule 1970 in the Stenographer Service beyond 31-12-1971 for a period upto and including 30-6-1992 or till persons from the select list become available, whichever is earlier.

S. LOGANATHAN,
Dy. Chief Administrative Officer

KARYALAYA MAHA NIDESHAK SASHAstra SENĀ

CHIKITSA SEWA)

No. 53, dated 8th January 1992.—The President is pleased to appoint Dr. Sanjaykumar Shivshankar Barapatre as Asstt. Surgeon Gde. I directly through Union Public Service Commission at COD Dehu Road under the Admin. Control of Director General Armed Forces Medical Service with effect from 05 Dec 1991 (FN) till further orders. He will be on probation for a period of two years.

No. 54, dated 8th January 1992.—The President is pleased to appoint Shri Virendra Kumar Chhabra as Store Officer (Civ) directly through Union Public Service Commission at AFMSD Lucknow under the Admin. Control of Director General Armed Forces Medical Service with effect from 29 Jul 1991 (FN) till further orders. He will be on probation for a period of two years.

KC RATAWAL,
CSO
DADG DG-2B

No. 55, dated 19th November 1991.—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended by AI 14/79.

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Capt (On probn.)

SHANTI PRIYA R, MBBS (MS-12008-Y) AMC—
15-4-1987.

NEETA CHHABRA, MBBS (MS-12304-K) AMC—26-10-1989.

ANVITA GARG, MBBS (MS-12327-L) AMC—09-3-1990 with seniority for pay and promotion w.e.f. 09-3-1988 (This includes 2 years antedate for Post Graduate Qualification which will not count for Gratuity).

(Miss) ANURADHA, MBBS (MS-12347-Y) AMC—22-4-1991.

S NANDAKUMAR RAO, MBBS (MS-12349-K) AMC—22-4-1991.

MUKUL GARG, MBBS (MS-12351-F) AMC—22-4-1991.

(Mrs) KAVITA MATHUR, MBBS (MS-12353-M) AMC—22-4-1991.

P T SELVARAJ, MBBS (MS-12354-P) AMC—22-4-1991.

(Mrs) JASMEET KAUR, MBBS (MS-12356-A) AMC—22-4-1991.

NITIN SHARMA, MBBS (MS-12357-H) AMC—22-4-1991.

S RADHA KRISHNAN, MBBS (MS-12359-N) AMC—30-4-1991 and Notional Seniority w.e.f. 22-4-1991 which will not count for Pay and Allowances.

(Mrs) MEENA SOOD, MBBS (MS-12365-F) AMC—29-5-1991 and Notional Seniority w.e.f. 22-4-1991 which will not count for Pay and Allowances).

(Miss) Veena Rai, MBBS (MS-12366-K) AMC—22-7-1991.

VIJAY SHANKER SAHA, MBBS (MS-12367-M) AMC—09-8-1991.

To be Lieut (On probn.)

SUPARNA SENGUPTA, MBBS (MS-12314-N) AMC—26-12-1989.

S NEDUNCHEZHIAN, MBBS (MS-12369-X) AMC—29-5-1991.

S CHAKRABORTY
Maj Gen
Dy DGAFMS

CORPS of EME

No. 56, dated 18th December 1991.—The President is pleased to appoint Shri Harjeet Singh Gill as Temporary Workshop Officer Group 'A' in the Corps of Electrical and Mechanical Engineers with effect from 04 Dec 1991 (Forenoon) until further orders. He will be on probation for period of 2 years.

SS NEGI, Under Secy.

No. 57, dated 12th January 1992.—The President is pleased to appoint Shri Sudhir Shyam Kanta Gokhale Permanent Foreman to be officiating Workshop Officer Group 'B' in the Corps of Electrical and Mechanical Engineering with effect from 26 Jul 1991 (Forenoon) until further orders. He will be on probation for a period of two years.

Lt Col V K PRABHAKARAN,
JD EME(Civ)

No. 58, dated 6th January 1992.—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(On probation)

The undermentioned are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy in the rank of 2/Lt with effect

from the dates shown against their names under the provisions of SAI 4/S/67:—

Yogender Singh (SS-34490L), Engrs—11 Jan 1990

Mukul SISODIA (SS-34492W), EME—11 Jan 1990

Sanjay PRADHAN (SS-34493Y), Engrs—11 Jan 1990.

Deepak BALI (SS-34494P), Sigs—11 Jan 1990

Devneet Singh LOOMBA (SS-34495K), EME—11 Jan 1990

V Sudhakar (SS-34496M), Engrs—11 Jan 1990

Jeetinder Pal Singh (SS-34497P), Sigs—11 Jan 1990

Ripu SOODAN (SS-34499A), Engrs—11 Jan 1990

Mallikarjuna (SS-34502P), Engrs—11 Jan 1990

Biju SHANTHARAM (SS-34503X), Sigs—11 Jan 1990

RAJGURU Prashant Shamrao (SS-34505H), Engrs—11 Jan 1990

Terry THOMAS (SS-34506L), Sigs—11 Jan 1990.

VELDURTHY Vasudev Rao (SS-34507N), EME—11 Jan 1990

Vivek MEHTA (SS-34508W), Engrs—11 Jan 1990

Satish Ramanand (SS-34509Y), Sigs—11 Jan 1990

D CUNHA Sumer Ivan (SS-34510N), EME—11 Jan 1990

Sai Arul (SS-34512Y), Sigs—12 Jan 1990

S Gopikrishna (SS-34513F), EME—12 Jan 1990

Chetan BN (SS-34515M), Sigs—12 Feb 1990.

DC KATOCH,
Lt Col
AMS (IC)

MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

No. 59, dated 7th January 1992.—Shri P. Anantha Krishnan, SCSSO is appointed as offg Director in AFHQ Civil Service under Rule 10(2) of AFHQ Civil Service Rules, 1968 with effect from 23 Dec 1991 to 16-6-1992 or till the regular incumbent becomes available, whichever is earlier.

(MS BRANCH)

No. 60, dated 23rd February 1992.—The competent authority appoints the following officers to the Gde of Civilian Staff Officers under Rule 10(2) of AFHQ Civil Service Rules, 1968, w.e.f. the dates mentioned against their names upto 14-4-1991 or till regular incumbents become available, or till the individual retires, whichever is earliest:—

Shri Sajjad Khan—w.e.f. 22-10-1990

Shri K C Saroj—w.e.f. 15-10-1990

Shri K Lalowari—w.e.f. 15-10-1990

Shri Mohan Lal—w.e.f. 15-10-1990

Shri K S Kumar—w.e.f. 16-10-1990

Shri Sohan Pal—w.e.f. 15-10-1990

Shri S M Tafsir Alam—w.e.f. 15-10-1990

Shri A Chandra Sekhar—w.e.f. 15-10-1990.

No. 61, dated 23rd December 1991.—The competent authority appoints the following officers to the grade of Civilian Staff Officer under Rule 10(2) of AFHQ Civil Service Rules, 1968 w.e.f. the date mentioned against their names upto 15-10-1991 or till the regular incumbents become available, or till the individual retires, whichever is earliest:—

GS Branch

Shri V K Kain—w.e.f. 16-4-1991

Smt Vibha Sood—w.e.f. 16-4-1991

Shri Budh Sain—w.e.f. 16-4-1991

Shri Durga Prasad—w.e.f. 16-4-1991

Shri Babu Lal—w.e.f. 16-4-1991

Shri K L Hans—w.e.f. 16-4-1991
 Shri K L Sailani—w.e.f. 16-4-1991
 Shri A K Salhotra—w.e.f. 22-4-1991
 Shri Y P Sarangle—w.e.f. 22-4-1991.

MS Branch

Shri Sajjad Khan—w.e.f. 16-4-1991
 Shri K C Saroj—w.e.f. 16-4-1991
 Shri K S Lalowari—w.e.f. 16-4-1991
 Shri S M Tafsir Alam—w.e.f. 20-5-1991
 Shri A Chandrasekhar—w.e.f. 16-4-1991
 Shri Mohan Lal—w.e.f. 16-4-1991

Shri K S Kumar—w.e.f. 16-4-1991
 Shri Sohan Pal—w.e.f. 16-4-191
 Shri R K Gadi—w.e.f. 16-4-1991.

ARMY HEADQUARTERS
(GS BRANCH)

No. 62, dated 27th December 1991.—The competent authority appoints Shri P Raghunarayanan as Civilian Staff Officer under Rule 19(2) of AFHQ Civil Service Rules, 1968 w.e.f. 21-5-1991 upto 15-10-1991 or till regular incumbents become available or till such time the individual retires, whichever is earlier.

S. LOGANATHAN,
 Dy. Chief Administrative Officer (A)

NAVY BRANCH

No. 63, dated 6-1-1992.—The President is pleased to make the following appointments as Acting Sub-Lieutenant in the Engineering Branch (Corps of Naval Constructors) under the Ministry of Defence letter No. OF/1907/NHQ/52-US/D(N-II) dated 13 Jan 87 and OF/1907/NHQ/888/US/D(N-II) dated 01 May 89 from the dates shown against their names :—

INDIAN NAVY

(Permanent Commission)

ENGINEERING BRANCH (CORPS OF NAVAL CONSTRUCTORS)

Name	Personal Number	Date of Commission
Sharma Rajiv.	41362-B	16-08-88
Sharma Yatindra Nath	41370-Y	21-08-88
Moharil Sunil	41371-Z	31-08-88
Anandapadmanabhan Pattabhiraman	41383-A	15-09-88

(NAVY BRANCH)

No. 64, dated 24th January 1992.—The President is pleased to appoint the following officers as Senior Translation Officer (Russian/English) with effect from the date shown against their names :—

Shri Surinder Kumar—07 Nov 1991 (FN)
 Shri D Gupta—13 Nov 1991 (AN)
 Shri P K Khullar—07 Nov 1991 (FN)
 Shri Ram Prasad—09 Dec 1991 (FN).

No. 65, dated 28th January 1992.—The President is pleased to appoint Shri A K Anand as Editor Translator (Russian/English) with effect from 10 Jun 1991 (FN).

No. 66, dated 21st January 1992.—The Chief of Personnel, Naval Headquarters is pleased to appoint Shri S S Negi, Senior Foreman (PP & C) as Officiating Process Engineer with effect from 26 June 1991 (Forenoon).

He will be on probation for two years.

No. 67, dated 21st January 1992.—The Chief of Personnel, Naval Headquarters is pleased to appoint Shri R S Rawat, Senior Foreman (Electrical) as Officiating Civilian Technical Assistant (Electrical) with effect from 12 December 1991 (Forenoon).

He will be on probation for two years.
 12--464 GI/91

B. SATEESH KUMAR,
 Civilian Staff Officer

Asstt. Director Manpower & Recruitment

No. 68, dated 20th January 1992.—The Chief of Personnel, Naval Headquarters is pleased to make the following appointment in the Indian Navy with effect from the dates indicated against their names :—

- Shri P Rajan, Senior Foreman as Officiating Assistant Armament Supply Officer—30-09-1991.
- Shri K M R Menon, Senior Foreman as Officiating Assistant Armament Supply Officer—31-07-1991.
- Shri D Thatha Rao, Office Superintendent Grade I as Officiating Assistant Armament Supply Officer—30-09-1991.

They will be on probation for two years.

Mrs. RENU K RAJU,
 Dy. Director of Civilian Personnel

No. 69, dated 27th December 1991.—The President is pleased to appoint the following as Editor/Translator (Russian/English) with effect from the date shown against their names :—

Shri Kasturi Lal—24 Jun 1991 (FN)
 Shri S R Das—02 Jul 1991 (FN)
 Shri B S Arya—24 Jun 1991 (FN).

No. 70, dated 13th January 1992.—The Chief of Personnel, Naval Headquarters is pleased to appoint Shri V. Obalapathy, Senior Foreman (Electrical) as Officiating Civilian

lian Technical Assistant (Electrical) with effect from 30 January, 1991 (Forenoon).

He will be on probation for two years.

C R MALAWLIYA,
Deputy Director of Civilian Personnel

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 71, dated 31st December 1991.—The President is pleased to make the following promotion:—

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICE

Shri K K Misra, Scientist 'C' of Defence Scientific Information and Documentation Centre, Metcalfe House Delhi to be officiating Scientist 'D' with effect from 1-7-1990 (FN) in the same establishment.

Shrimati Anuradha Ravi Scientist 'C' of Defence Scientific Information and Documentation Centre, Metcalfe House, Delhi to be officiating Scientist 'D' with effect from 1-7-1990 (FN) in the same establishment.

The undermentioned Scientists 'B' of Defence Electronics Research Laboratory, Hyderabad to be officiating Scientists 'C' in the same Laboratory with effect from the date as shown against their names:—

Shri G. Vijaya Prasad—1-07-1990 (F/N)
Shri M. Sivananda Sarma—1-07-1990 (F/N)
Shri Y. Ravi Kumar—1-07-1990 (F/N)
Shri N. Seetharamaiah—1-07-1990 (F/N)
Shri M. Pralhada Rao—1-07-1990 (F/N)
Shri G. Durga Prasad—1-07-1990 (F/N)
Shri V. Ashok Kumar—1-07-1990 (F/N)
Shri P. A. Joseph—1-07-1990 (F/N)
Shri S. D. Malleswara Rao—1-07-1990 (F/N)
Miss J. Manjula—1-07-1990 (F/N)
Shri T. Sunil Kumar—1-07-1990 (F/N)
Smt. Jayasri Joseph—1-07-1990 (F/N)
Shri V. Ramasankaram—1-07-1990 (F/N)
Shri M. Balachary—1-07-1990 (F/N)
Smt. Rekha Rani Sinha—1-07-1990 (F/N)
Shri C. P. Mola—1-07-1990 (F/N)
Shri B. S. Srinivas—1-07-1990 (F/N)
Shri M. V. Narasimha Rao—5-07-1990 (F/N)
Shri R. Bharatha—1-07-1990 (F/N)
Shri N. Sudhakar—1-07-1990 (F/N)
Shri P. Sreenivasa Rao—1-07-1990 (F/N).

The undermentioned Scientists 'B' of Interim Test Range, Chandipur to be officiating Scientists 'C' in the same office with effect from 01st July, 1990 (F/N).

Shri G. R. Panda
Shri Sanjay Raj

The undermentioned Scientists 'B' of Defence Scientific Information and Documentation Centre, Delhi to be officiating Scientists 'C' in the same Centre with effect from the dates as shown against their names.

Shri J. P. Singh—01-7-1990 (F/N)
Shri Bhagwan Singh—01-7-1990 (F/N)
Shri D. S. Bedi—01-7-1990 (F/N)
Smt. Sonja Relan—01-7-1990 (F/N)
Shri P. M. Ajith—01-7-1990 (F/N)
Shri A. K. Tyagi—01-7-1990 (F/N)
Shri M. C. Bandyopadhyay—01-7-1990 (F/N)
Shri Rajeev Vij—05-7-1990 (F/N).

NARSINGH DASS, Assistant Director (Personnel)

ARMY BRANCH

No. 72, dated 8th January 1992.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY Defence Security Corps

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Avtar Singh (JC-102531-L), 01 Oct 1991.
Nb Sub Clk Parambin Niravath Balakrishna Kurup (JC-137466-P), 01 Nov 1991.

G. D. NANGAL, Under Secy.

No. 73, dated 8th January 1992.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY Army Service Corps

(Supply)

To be Substantive Subedar Clerk (Store)

Paid Acting Subedar Amar Nath (JC-171325-M), 01 Apr 1991.

Paid Acting Subedar Chariyan A (JC-189808-M), 01 May 1991.

Paid Acting Subedar Hanuman Singh Katewa (JC-189819-Y), 01 May 1991.

Paid Acting Subedar Uma Sankar Upadhyay (JC-189840-F), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Ramji Ray (JC-189841-K), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Ram Janak Prasad (JC-189842-M), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Brij Raj Singh (JC-189843-P), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Koushal Kishore (JC-189844-X), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Sumer Singh (JC-189845-A), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Angad Singh (JC-189846-H), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Ahlad Tirkey (JC-189847-L), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Prakash Singh (JC-189848-N), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Harpal Singh Ahluwalia (JC-189849-W), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Tirath Singh Sandhu (JC-189851-N), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Jay Makil M A (JC-189852-W), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Prafulla Kumar Panda (JC-189853-Y), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar George P A (JC-189854-F), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Bakshish Singh (JC-189855-K), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Madavan Vattakunil Raghava Panicker (JC-189856-M), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Bhag Singh (JC-189857-P), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Sugad Singh Balania (JC-189858-X), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar P P Abraham (JC-189859-A), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Ramesh Prasad Sharma (JC-189860-P), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Babu Singh Sisaudia (JC-189862-A), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Avtar Singh (JC-189863-H), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Thakur Sah (JC-189864-L), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Rajender Prashad Yadava (JC-189866-W), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Mathew Thomas (JC-189867-Y), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar V A Joseph (JC-189868-F), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Syed Hussain (JC-189869-K), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Sawaran Singh (JC-189870-Y), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Poulose K K (JC-189871-F), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Joginder Singh (JC-189872-K), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Siva Shankaran Nair K N (JC-189873-M), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Surivarapu Venkata Jayarama Sastry (JC-189874-P), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Amrik Singh (JC-189875-X), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Jaspal Singh (JC-189876-A), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Phatik Chandra Saikia (JC-189878-L), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Pummu Lohitasydu (JC-189877-H), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Jagat Ram Choudhary (JC-189880-H), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Banwari Lal Verma (JC-189881-L), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Peetlabala Obaiah (JC-189882-H), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Karam Chand (JC-189883-W), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Surja Kumar Ghosh (JC-189884-Y), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Dharam Chand (JC-189885-F), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Sukh Rum (JC-189886-K), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Ananga Mohan Das (JC-189887-M), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Balaram Singh Yadav (JC-189888-P), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Rajendra Singh (JC-189889-X), 01 Jun 1991.

Paid Acting John A J (JC-189890-M), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Bacchan Singh Bhati (JC-189891-P), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Divakaran K P (JC-189892-X), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Chandra Ram Bijarni (JC-189893-A), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Nasim Ahmed Ansari (JC-189894-H), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Pemu Krishna Murty (JC-189895-L), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Hanuman Thappa (JC-189904-R), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Chanchal Singh (JC-189897-W), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Des Raj (JC-189906-M), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Gain Chand (JC-189910-P), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Gorakh Nath Singh (JC-189911-X), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Ram Kanwar (JC-189912-A), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Paila Deena Bandhu Naidu (JC-189913-H), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Chokantayil Thomas Antony (JC-189914-L), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Parma Nand Mishra (JC-189915-N), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Sarawan Singh (JC-189916-W), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar V K Gopala Krishna Pillai (JC-189918-F), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar John V A (JC-189919-K), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Prem Singh Rautela (JC-189920-Y), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Dhiresh Chandra Das (JC-189926-A), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar (Surendra Pal Singh (JC-189929-N), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Samy Singh (JC-189930-H), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Gurdev Singh Hari (JC-189931-I), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Hanumappa (JC-189932-N), 01 Jun 1991.

Paid Acting Subedar Udai Raj Pande (JC-189933-W), 01 Jun 1991.

ARMY SERVICE CORPS

(Supply)

To be Substantive Subedar Major Clerk (Store)

Paid Acting Subedar Major C V Puthalath (JC-75791-K), 01 Apr 1991.

To be Substantive Subedar Clerk (Store)

Paid Acting Subedar Jagat Pal Singh (JC-171320-N), 01 Apr 1991.

Paid Acting Subedar Lakhbir Singh Randhawa (JC-175930-X), 01 Apr 1991.

Paid Acting Subedar Nand Kishore Prasad (JC-178168-N), 01 Apr 1991.

Paid Acting Subedar Chandrika Singh Yadav (JC-175944-X), 01 Apr 1991.

Paid Acting Subedar Madhu Ram (JC-182731-M), 01 Apr 1991.

Paid Acting Subedar Ram Singh (JC-182732-P), 01 Apr 1991.

Paid Acting Subedar Balbir Singh (JC-182732-P), 01 Apr 1991.

Paid Acting Subedar Ram Tirath Rana (JC-182739-Y), 01 May 1991.

Paid Acting Subedar Khem Chandra (JC-182740-N), 01 Apr 1991.

Paid Acting Subedar K Sukumaran (JC-182741-W), 01 May 1991.

Paid Acting Subedar Raveendran Pillai B (JC-182742-Y), 01 May 1991.

Paid Acting Subedar Abraham Kuria-Kose (JC-182743-F), 01 May 1991.

Paid Acting Subedar Lal Bahadur Gurang (JC-182744-K), 01 May 1991.

Paid Acting Subedar Bishambhar Dass (JC-182746-P), 01 May 1991.

Paid Acting Subedar Ram Avtar Tiwari (JC-182747-X), 01 May 1991.

Paid Acting Subedar Motu Ram (JC-182748-A), 01 May 1991.

Paid Acting Subedar Karuppan Karuppa Swamy (JC-182749-H), 01 May 1991.

Paid Acting Subedar Deep Chand Toor (JC-189801-H), 01 May 1991.

Paid Acting Subedar Hoti Lal (JC-189802-L), 01 May 1991.

Paid Acting Subedar Chand Ram (JC-182750X), 01 May 1991.

Paid Acting Subedar Jugal Kishore Mann (JC-182751-A), 01 May 1991.

Paid Acting Subedar Velugopalan Nair (JC-182752-H), 01 May 1991.

Paid Acting Subedar Lalji Yadav (JC-182753-L), 01 May 1991.

Paid Acting Subedar Mahavir Prasad Bhardwaj (JC-182754-N), 01 May 1991.

Paid Acting Subedar Avtar Singh (JC-182755-W), 01 May 1991.

Paid Acting Subedar Gangadharan C G (JC-182756-Y), 01 May 1991.

Paid Acting Subedar Sheo Ratan Singh (JC-182757-F), 01 May 1991.

Sd/- ILLEGIBLE
Capt
RO

Paid Acting Subedar Mahander Kumar Rawat (JC-182758-01 May 91.

Paid Acting Subedar Tarsaim Raj (JC-182759-M), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Sukhdev Singh (JC-182760-F), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Keshava Murthy Nara Simha (JC-189803-N), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Pushkar Singh Rawat (JC-182762-M), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Subhash Chand (JC-182763-P), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Guvvalu Janaki Ram (JC-182764-X), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Krishan Kumar (JC-182765-A), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Biswa Nath Nayak (JC-182767-L), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Ram Narain Shukla (JC-182768-N), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Nanak Singh (JC-189804-W), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Sundara Samba Sivam (JC-182769-P), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Kisban Chandra Kaim (JC-189805-Y), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Sunny TG (JC-189806-F), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Shyam Narain Kushwaha (JC-189807-K), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Gandharb Singh Rana (JC-182771-N), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Dila Ram (JC-189809-P), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Budhi Singh (JC-189810-K), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Harbhajan Singh (JC-182772-W), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Brij Nath (JC-189811-M), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Sawarn Singh (JC-182773-Y), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Ram Bilas (JC-189812-P), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Ram Shakal (JC-189813-X), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Malkiat Singh Jaswal (JC-182790-Y), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Nagru Singh Sodhee (JC-182774-F), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Bhupal Singh Gorkha (JC-182775-K), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Dariyaw Singh (JC-182776-M), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Ram Kumar Dadwal (JC-189814-A), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Udai Raj Pandey (JC-189815-H), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Ram Krishna Duvedi (JC-182777-P), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Thophil Toppo (JC-182778-K), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Satish Kumar (JC-182779-A), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Valsalan AC (JC-189816-L), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Nara Narayan Sarkar (JC-182781-X), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Mayadhar Mahanto (JC-182782-A), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Karu Sankar Pal (JC-182783-H), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Ratto Ram Rana (JC-182784-L), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Manghat Ram Yadav (JC-182785-N), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Purushothaman Nair G (JC-182786-W), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Yesodharan S (JC-182787-Y), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Dasari Venkata Rao (JC-189817-N), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Seeni Mari Chamy (JC-189818-W), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Ranvir Singh (JC-182789-K), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Bhushan Lal (JC-189821-W), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Bhagappa Kolkar (JC-189823-F), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Binoy Ranjan Paul (JC-189824-K), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Kanai Lal Paul (JC-189899-F), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Ramas Roy Prasad Bhagat (JC-189825-M), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Jainarayan Singh (JC-189900-L), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Raj Karan Singh (JC-195240-P), 01 May 90.

Paid Acting Subedar Udaibir Singh Kushwah (JC-189826-P), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Dharam Nath Prasad (JC-189827-X), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Prem Chand Kaushal (JC-189828-A), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Jeewan Singh (JC-189830-X), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Ramesh Chander (JC-189831-A), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Madho Ram (JC-189832-H), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Rashpal Singh (JC-189833-L), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Marpu Chalapathi Rao (JC-189835-W), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Chatla Appala Reddi (JC-189836-Y), 01 May 91.

Paid Acting Subedar Padmanabha Sahu (JC-189838-K), 01 May 91.

Paid Acting Subedar P K Devasia (JC-189839-M), 01 May 91.

PRAKASH CHAND,
Under Secy.

REGULAR ARMY

Army Ordnance Corps

To be Naib Subedar Clk AOC

No. 74, dated 10th January 1992.—The President is pleased to make the following promotions :—

Hav Clk S Prov Marianus Baa (6902792L now JC-212332 A), 12-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay and allces).

Hav Clk S Cont NC Philipose (6902802K now JC-212333-H), 11-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Gurmit Singh (6902903X now JC-212334-L), 01-02-91.

Hav Clk S Prov Nem Singh (6903231H now JC-212335N), 01-02-91.

Hav Clk S Cont Ved Pal Katter (6902990W now JC-212336W), 21-02-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Kashi Nath Dubey (6903479M now JC-212337Y), 01-02-91.

C Hav Clk GD Rajeshwar Dayal Shrivastava (4052477H now JC-212338F), 01-03-91.

Hav Clk GD Sasidharan Nair B (6904269Y now JC-212339 K), 01-03-91.

Hav Clk S Cont Ram Gopal Jat (6902700N now JC-212340 Y), 14-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk GD Roshan Lal Sharma (6904336Y now JC-212341 F), 01-03-91.

Hav Clk S Cont Ram Kanwar Yadav (6904668H now JC-212342K), 01-03-91.

Hav Clk S Cont Asit Kumar Ghosh (6904535M now JC-212343M), 10-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Gopal Dutt Sanwal (6905236A now JC-212344P), 14-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Damu KV (6905246K now JC-212345X), 11-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Prov Chandra Prakash (6905523K now JC-212346A), 01-04-91.

Hav Clk GD Radhe Shyam Sharma (6905530A now JC-212347H), 12-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk GD Gamanga Chanda (6905555M now JC-212348L), 01-04-91.

Hav Clk GD Ismael TS (6905589A now JC-212349N), 01-04-91.

Hav Clk GD Ram Naresh Prasad (6905601W now JC-212350H), 24-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay & allces).

Army Ordnance Corps

To be Naib Subedar Amn Tech

Hav Amn Tech Charan Dass (6904941M now JC-212351 L), 12-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay and allces).

Hav Amn Tech Mrinal Kanti Chakrabarti (6905132Y now JC-212352N), 01-03-91.

To be Naib Subedar Store Keeper Technical

Hav SKT Amn Tarlok Chand (6902287H now JC-212353 W), 27-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay and allces).

Hav SKT Amn Mathai Chacko (6902502H now JC-212354 Y), 22-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay and allces).

Hav SKT Amn G Ramanjulu (6902310L now JC-212355 A), 01-01-91.

Hav SKT MT Udai Pratap Singh (6902671K now JC-212356 K), 08-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay and allces).

Hav SKT GS&C Purna Chandra Raya (6902714N now JC-212357M), 21-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay and allces).

Hav SKT Wep Kariampata Madam Venugopalan (6902894 F now JC-212358P), 01-02-91.

Hav SKT GS&C Vijay Kumar (6902970H now JC-212359-X), 30-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay and allces).

Hav SKT GS&C Dogar Raj (6903058K now JC-212360M), 01-02-91.

Hav SKT GS&C Shiv Shanker Singh (6903209X now JC-212361P), 01-02-91.

Hav SKT GS&C Sushil Kumar Jha (6903645P now JC-212362X), 14-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay and allces).

Hav SKT GS&C Sambhu Nath Pal (6903649L now JC-212363A), 02-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay and allces).

Hav SKT MT Jaldip Kumar (6903617H now JC-212364H), 01-03-91.

Hav SKT GS&C Shankar Singh Nasseer (6904088N now JC-212365L), 27-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay and allces).

Hav SKT Amn Surinder Kumar (6904358X now JC-212366N), 27-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay and allces).

Hav SKT MT Awadhesh Prasad Singh (6904441P now JC-212367W), 29-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay and allces).

Hav SKT MT Lakshman Vir Yadava (6904773Y now JC-212368Y), 28-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay and allces).

To be Naib Subedar SH GD

Hav SH GD Mohd Rafiq (6899901Y now JC-212369F), 01-02-91.

Army Ordnance Corps

To be Naib Subedar Clk AOC

Hav Clk S Prov Pagadala Francis Showry (6902228W now JC-212315A), 18-02-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Brij Nath Rai (6901597F now JC-212316H), 01-01-91.

Hav Clk S Cont Binda Roy (6902257L now JC-212317L), 20-02-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay & allces).

Hav S Cont Cheruputhen Veedu Rama Chandran (6902247F now JC-212318N), 18-02-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Raj Pal Singh (6902283M now JC-212319W), 01-01-91.

Hav Clk S Cont Surinder Kumar Singh Doad (6902404H now JC-212320L), 09-02-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Harmesh Singh (6902427K now JC-21232101-01-91.

Hav Clk S Prov Gurusamy Sankra Lingam (6902874M now JC-212322W), 01-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Prov Kali Prasad (6903230A now JC-212323-Y), 01-02-91.

Hav Clk S Cont Bhoj Raj Singh (6903232L now JC-212324F), 07-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Akshay Kumar Saha (6903156K now JC-212325K), 01-02-91.

Hav Clk S Prov Govinda (6902867X now JC-212326M), 08-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Sahadeva Singh Randhi (6903582X now JC-212327P), 19-02-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk GD Hunsila Prasad Mishra (4052579Y now JC-212328X), 01-03-91.

Hav Clk S Cont Raveendran Nair TK (6904158M now JC-212329A), 01-03-91.

Hav Clk GD Anil Chandra Saha (6904518M now JC-212330P), 18-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay and allces).

Hav Clk S Cont Gopala Pillai Arvindakshan Pillai (6904461H now JC-212331X), 18-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay and allces).

Army Ordnance Corps

To be Naib Subedar Store Keeper Technical

Hav Slt Engr Karingattil Madhavan Balachandran Pillai (6902438W now JC-212387K), 16-02-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay & allces).

Hav Slt MT Cheruvellil Kunju Narayana Pillai Balan (6902308N now JC-212388M), 22-02-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay & allces).

Hav Slt MT Ganesh Lal Pareek (6902527P now JC-212389P), 24-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay & allces).

Hav Slt MT Gajanand Verma (6902543M now JC-212390K), 01-01-91.

Hav Slt Sig Krishna Avtar Mishra (6900781A now JC-212391M), 23-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay & allces).

Hav Slt MT Harish Chandra Joshi (6902242H now JC-212392P), 01-01-91.

Hav Slt Wep Malkhan Gir (6902476M now JC-212393X), 01-01-91.

Hav Slt MT Mohd Nasrul Hoda (6900983F now JC-212394A), 01-02-91.

Hav Slt Amn Krishna Bihari Lal (6902825L now JC-212394H), 16-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay & allces).

Hav Slt GS&C Satbir Singh (6903068N now JC-212396L), 01-02-91.

Hav Slt MT Kunwar Dheyan Singh (6903207M now JC-212397N), 29-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay & allces).

Hav Slt MT Shyam Lal Bhatt (6903641X now JC-212398W), 01-02-91.

Hav Slt MT Varghese K (6904050K now JC-212399Y), 01-02-91.

Hav Slt MT Rajendran K (6904291K now JC-212400H), 15-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay and allces).

Hav Slt GS&C Thankachan J (6904093Y now JC-212401L), 09-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay & allces).

Hav Slt MT Chittaranjan Prasad Singh (6903671W now JC-212402N), 09-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay & allces).

Hav Skt Amn Dutt Prasad (6904557L now JC-212403W), 17-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay & allces).

Hav Skt GS&C Shivananda Hallikeri (6904623N now JC-212404Y), 30-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay & allces).

Army Ordnance Corps

To be Naib Subedar Clk AOC

Hav Clk GD Prem Narain Tripathi (6903060F now JC-212370W), 06-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Daya Nand Arya (6903165L now JC-212371Y), 01-02-91.

Hav Clk GD Ranbir Singh Chauhan (6904013W now JC-212372F), 01-03-91.

Hav Clk S Cont Vijayan B (6904083P now JC-212373K), 01-03-91.

Hav Clk S Cont Uttam Kale (6904686K now JC-212374M), 26-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Uma Shankar Singh (6905306N now JC-212375P), 25-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay & allces).

Hav S Cont Tarsem Singh (6905412M now JC-212376X), 29-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Bhupinder Singh Negi (6902235N now JC-212377A), 22-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Jagdish Prakash Kajla (6905450H now JC-212378H), 21-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk GD Simon Chalo Pradhan (6905466N now JC-212379L), 26-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Mohanan KC (6905481H now JC-212380A), 27-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Prov Darshan Singh (6905464H now JC-212381H), 24-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk GD Subhash Chander Sharma (6905490K now JC-212382L), 01-04-91.

Hav Clk S Prov Krapal Singh (6905507M now JC-212383N), 01-04-91.

Hav Clk S Prov Nirmal Singh (6905520W now JC-212384W), 26-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Mali Dattatraya Mahadeo (6905621K now JC-212385Y), 28-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay & allces).

To be Naib Subedar Store Keeper Technical

Hav Skt Amn Balan V (6902978P now JC-212386F), 01-02-91.

To be Naib Subedar Amn Tech

Hav Amn Tech Gopalan K (6904138N now JC-212420W), 01-01-91.

Hav Amn Tech Ram Bhagat (6902929M now JC-212421Y), 22-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay & allces).

Hav Amn Tech Krishna Kutty K (6904694K now JC-212422F), 27-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay & allces).

Hav Amn Tech Krishnaiah Sangi (6904803L now JC-212423K), 05-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay & allces).

Hav Amn Tech Pravat Kumar Balabanta Ray (6903098L now JC-212424M), 20-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay & allces).

To be Naib Subedar Clk AOC

Hav Clk S Con Nakka Satya Narayana (6902475K now JC-212425P), 11-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Prov Karuna Nath (6902750Y now JC-212426X), 18-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Ram Sakal Pendey (6902895K now JC-212427A), 23-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Bhanu Pratap Tiwari (6903135N now JC-212428H), 13-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Budhuwa Jagdev Kerketta (6903895W now JC-212429L), 01-03-91.

Hav Clk S Prov Natesseri Chacko (6904008L now JC-212430A), 01-03-91.

Hav Clk S Cont Ravindran Nair (6905245F now JC-212431H), 01-04-91.

Hav Clk S Cont Apurb Chowdhury (6905373Y now JC-212432L), 26-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay & allces).

To be Naib Subedar Store Keeper Technical

Hav Skt Amn Pradip Kumar Das (6903270F now JC-212433N), 22-02-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay & allces).

To be Naib Subedar SH GD

Hav SH GD Gurmit Singh (6900110W now JC-212434W), 15-02-91.

Hav SH GD SK Bhattacharjee (6900795A now JC-212435Y), 04-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay & allces).

Hav SH GD Dinanath Singh Kushwaha (6902339N now JC-212436F), 01-04-91.

To be Naib Subedar Clk AOC

Hav Clk GD Ram Subhag Singh (6901954Y now JC-212405F), 25-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Oct 90 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Pullaiah Boyidi (6902725A now JC-212406K), 01-01-91.

Hav Clk S Cont Sant Kumar Singh (6902745N now JC-212407M), 18-02-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Prov Ram Niwas Yadav (6903039Y now JC-212408P), 05-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Prov Vananda Biddappa Ganesh (690980M now JC-212409X), 01-02-91.

Hav Clk S Cont Koshy Kunju M (6904091N now JC-212410M), 01-02-91.

Hav Clk S Prov Mohanan Nath Kunju Krishna Pillai (6902819L now JC-212411P), 27-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk GD Shailendra Kumar Chaudhary (6904011L now JC-212412X), 24-04-91*.

*(Gtd eniority wef 01 Mar 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk GD Kollan Thara Kutty Sreenivasan (6904253N now JC-212413A), 01-03-91.

Hav Clk GD Jadhav Mahadev Laxman (6904255Y now JC-212414H), 23-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Govinda Krishnan PP (6904677K now JC-212415L), 01-03-91.

Hav Clk S Cont Ramagya Chaudhary (6905215K now JC-212416N), 01-05-91*.

*(Gtd senioriy wef 01 Mar 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Satish Chandra Choudhary (6905291W now JC-212417W), 30-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk GD Manohar Singh (6905487K now JC-212418Y), 01-04-91.

Hav Clk GD Balwant Singh Bajju (6905566Y now JC-212419F), 26-04-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay & allces).

Hav Clk S Cont Uma Shanker Shukla (6902212L now JC-212282A), 19-02-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Dec 90 without effect on pay and allces).

Hav Clk S Cont Babu R (6902234K now JC-212283H), 02-01-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay and allces).

Hav Clk S Cont Shamsher Singh Ahluwalia (6902799P now JC-212284L), 01-02-91.

Hav Clk S Cont Hari Narayan Rai (6903044K now JC-212285N), 01-02-91.

Hav Clk S Cont Ram Upadhya Singh (6902906L now JC-212286W), 01-02-91.

Hav Clk S Cont Kishan Singh (6902962K now JC-212287Y), 09-02-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay and allces).

Hav Clk S Prov Kamal Kishore Shrivastava (6902975F now JC-212288F), 27-02-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay and allces).

Hav Clk S Cont Prasanta Kumar Panda (6903267P now JC-212289K), 18-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay and allces).

Hav Clk S Cont Sampuran Singh (6903163A now JC-212290Y), 01-02-91.

Hav Clk S Cont Pitram Singh Jhajharia (6903211P now JC-212291F), 01-02-91.

Hav Clk S Cont Manvar Singh Chauhan (6903638Y now JC-212292K), 01-02-91.

Hav Clk S Cont Attar Singh Dhayal (6903401F now JC-212293M), 01-02-91.

Hav Clk S Cont Joseph VG (6903607Y now JC-212294P), 11-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay and allces).

Hav Clk S Cont Venu Gopalan P (6904090L now JC-212295X), 07-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay and allces).

Hav Clk GD Gokul Singh Gaur (4052476A now JC-212296A), 01-03-91.

Hav Clk S Cont Jeewan Singh Rawat (6904313X now JC-212297H), 01-03-91.

Hav Clk S Cont Karnail Singh (6905002W now JC-212298L), 07-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Mar 91 without effect on pay and allces).

To be Naib Subedar Store Keeper Technical

Hav SKT MT Bal Kishan (6901812F Now JC-212265A), 19-02-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay and allces).

Hav SK Amn Bhagwan Dass (6902262W now JC-212266H), 28-02-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay and allces).

Hav SKT Amn Jai Singh (6902265K now JC-212267L), 01-01-91.

Hav SKT MT Madhu Sudan Tiwari (6902501A now JC-212268N), 16-01-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay and allces).

Hav SKT GS&C Dharam Chand (6902443F now JC-212269W), 19-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay and allces).

Hav SKT GS&C Ramachandran Nair Perumpara Veettil (6902458K now JC-212270L), 01-01-91.

Hav SKT Engr Radha Krishna Pillai Vechhoothra Narayani Amma (6902618Y now JC-212271N), 22-02-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay and allces).

Hav SKT Engr Joginder Singh (6902673P now JC-212272W), 14-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay and allces).

Hav SKT GS&C Ruben Deva Raj Kumbham (6902740P now JC-212273Y), 01-01-91.

Hav SKT Wep Dhan Raj (6902793N now JC-212274F), 14-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay and allces).

Hav SKT Wep Vir Prakash Singh Shekhawat (6902847K now JC-212275K), 01-02-91.

Hav SKT Wep Hoshiar Singh Premi (6902849P now JC-212276M), 08-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay and allces).

Hav SKT GS&C Harsinga Ram (6902857N now JC-212277P), 19-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay and allces).

Hav SKT GS&C Parkash Ram (6903224M now JC-212278X), 18-03-91*.

*(Gtd seniority wef 01 Feb 91 without effect on pay and allces).

Hav SKT GS&C Likhma Ram (6902904A now JC-212279A), 01-02-91.

Hav SKT MT Ramasamy Gurusamy Gurusamy (6903300N), now JC-212280P), 01-02-91.

Hav SKT MT Koshy KG (6903407H now JC-212281X), 01-02-91.

S. K. RAY, Under Secy.

No. 75, dated 3rd January 1992.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

J S Gill (IC 38264) AC, Surinder Singh (IC 38266), R S Yadav (IC 38268) Inf, K S Rathore (IC 38269) AC, V Pande (IC 38271) Mech Inf, D S Ahlawat (IC 38273) Inf, S Bhattacharya (IC 38275) EME, R P S Brar (IC 38276) AC, H S GEL (IC 38277) AC, Ajai Shukla (IC 38278) AC, I Narayana (IC 38280), Sujan Singh (IC 38281), Deepak Dhanda (IC 38282) Arty, J S Sahi (IC 38283) AC, D K Badola (IC 38286), B K Yadav (IC 38287) Inf, S J S Sehgal (IC 38288) Arty, S S Jakhar (IC 13—464 GI/91

38289) Inf, R B Suhag (IC 38290) AC, SK Singh (IC 38291), L C Patnaik (IC 38292), O S Yadav (IC 38293), B B Rana (IC 38295), V K Sharma (IC 38296) Inf, 22 Dec 90.

Arjan Singh (IC 38395) Arty, N K Mehta (IC 38397) AOC, M S Mangat (IC 38398) Mech Inf, Mukhtiar Singh (IC 38401) Arty, S Chauhan (IC 38403) Inf, D N Singh (IC 38405), K K Seal (IC 38406) Arty, Jaideep Singh (IC 38407) AC, Vivek Sehgal (IC 38408), HS Sharma (IC 38409) Inf, Rakesh Bhalla (IC 38410) AC, R N Deka (IC 38411) Arty, P P Singh (IC 38412) Inf, D N Khadse (IC 38413), H S Virk (IC 38414) Arty, V K Sharma (IC 38415), C K Babu (IC 38417) Inf, O P Mahto (IC 38418) Engrs, Anil Joshi (IC 38420) AC, K S Gahlawat (IC 38421), S R Maranabasari (IC 38422) Arty, Kuldip Singh (IC 38423), Om Parkash (IC 38424) Inf, Dharam Pal (IC 38399) Inf, 22 Dec 90.

P K Gupta (IC 27738) Inf, 31 Jul 84.

T. K. Jaganathan (IC 17501) Arty, 4 Feb 85.

Hari Singh Thakur (IC 32223) Inf, 03 May 84.

RAGHUBIR SINGH, CSO
DAMS 8C

No. 76, dated 22nd January 1992.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Majors to be Substantive Cols by Selection

L K Goel (IC 26445), Sigs, 01st Mar 1990.
A G Datar (IC 26450) Inf, 01st Mar 1990.
S K Sinha Ray (IC 26451) Engrs, 01st Mar 1990.
Mohan Roy (IC 26456) Arty, 01st Mar 1990.
K M Muhammad Basheer (IC 24163) EME, 01st Mar 1990.
Ranvir Singh (IC 28302) AC, 01st Mar 1990.
V K Joshi (IC 28342) Int Corps, 01st Mar 1990.
J B Srivastava (IC 28491) Inf, 01st Mar 1990.
D Kapur (IC 28590) AC, 01st Mar 1990.
S C Mohan (IC 28636) ASC, 01st Mar 1990.
P B Thapa (IC 26471) Inf, 01st Mar 1990.
Charanjit Singh (IC 26474) AC, 01st Mar 1990.
A K Kochhar (IC 26480) Inf, 01st Mar 1990.
B B S Bali (IC 26481) Inf, 01st Mar 1990.
G C Sharma (IC 26487) Sigs, 01st Mar 1990.
M S Bahl (IC 26488) Inf, 01st Mar 1990.
Onkar Singh (IC 26490) Inf, 01st Mar 1990.
B V Ramachandra (IC 26491) Engrs, 01st Mar 1990.
Mohinder Singh (IC 26496) ASC, 01st Mar 1990.
A K Bhargava (IC 26504) Sigs, 01st Mar 1990.
Gurdial Singh (IC 26505) Arty, 01st Mar 1990.
M A Rasheed (IC 26510) Sigs, 01st Mar 1990.
S K Mehta (IC 26513) EME, 01st Mar 1990.
J K Hasija (IC 26520) AC, 01st Mar 1990.
Janak Raj (IC 26523) AOC, 01st Mar 1990.
S N Lele (IC 26525) ASC, 01st Mar 1990.
B G Muthanna (IC 26527) Engrs, 01st Mar 1990.
M S Kapoor (IC 26529) Engrs, 01st Mar 1990.

S P S Narang (IC 26531) Engrs, 01st Mar 1990.
 S C Kanjilal (IC 26532) Sigs, 01st Mar 1990.
 Onkar Singh (IC 17682) AC, 01st Jul 1988.
 V K N Venugopalan (IC 26352P) Engrs, 01st Feb 1990.
 K R Kanwal (IC 26354A) Arty, 01st Feb 1990.
 R V Akokar (IC 26358W) Inf, 01st Feb 1990.
 G S Kohli (IC 26359Y) Arty, 01st Feb 1990.
 D P Merchant (IC 26360N) Inf, 01st Feb 1990.
 A Kochhar (IC 26361W) AC, 01st Feb 1990.
 Rajender Singh (IC 26363F) ASC, 01st Feb 1990.
 G S Khetarpal (IC 26366P) Inf, 01st Feb 1990.
 P A Desai (IC 26367X) Arty, 01st Feb 1990.
 P T Monnappa (IC 26368A) Int Corps, 01st Feb 1990.
 B S Sindhu (IC 26373L) AOC, 01st Feb 1990.
 B K Singh (IC 26374N) Inf, 01st Mar 1990.
 V K Saraf (IC 26379M) EME, 01st Mar 1990.
 A V Divay (IC 26380F) Inf, 01st Mar 1990.
 R K Manan (IC 26386H) Arty, 01st Mar 1990.
 A K Bhatia (IC 26388N) AC, 01st Mar 1990.
 R S Chhikara (IC 26396M) Arty, 01st Mar 1990.
 Bharat Prakash (IC 26399A) Sigs, 01st Mar 1990.
 O P Kohli (IC 26400K) Inf, 01st Mar 1990.
 H W Martin (IC 26402P) Inf, 01st Mar 1990.
 P K Singh (IC 26405H) AC, 01st Mar 1990.
 A K Suri (IC 26419H) Inf, 01st Mar 1990.
 G P Soman (IC 26420X) Sigs, 01st Mar 1990.
 R S Malik (IC 26427R) Engrs, 01st Mar 1990.
 Ramvir Singh (IC 26428K) EME, 01st Mar 1990.
 S K Bhatt (IC 26433P) AC, 01st Mar 1990.
 P S Dutta (IC 26434X) AC, 01st Mar 1990.
 G S Garcha (IC 26440L) Engrs, 01st Mar 1990.
 G R Adwani (IC 26441N) AOC, 01st Mar 1990.
 V K Kochhar (IC 14928) EME, 9 May 89 but with seniority from 01st Jun 1988 without effect on pay and pension.

N N Swamy (IC 17949) EME, 03rd Jun 1988 but with seniority from 01st Jun 1988 without effect on pay & pension.

K S Paur (IC 22478) EME, 01st Jul 1988.
 R Krishnamunni (IC 23561) EME, 01st Jul 1988.
 H D Misra (IC 23640) EME, 01st Jul 1988.
 Narendra Kumar (IC 26059) AC, 01st Jul 1988.
 H S Bali (IC 26147) EME, 01st Jul 1988.
 A I Nomani (IC 21470) EME, 01st Aug 1988.
 R P Kanar (IC 23628) EME, 01st Aug 1988.
 E Ravindranathan (IC 23657) EME, 01st Aug 1988.
 P K Roy (IC 24063) EME, 01st Aug 1988.
 R N Sehgal (IC 26709) EME, 01st Aug 1988.
 Gaganiit Singh (IC 26878) EME, 01st Aug 1988.
 K D S Shekhawat (IC 19393) AC, 01st Aug 1988.
 P Basu (IC 19412) AC, 01st Aug 1988.
 R S Sandhu (IC 19416) EME, 01st Aug 1988.
 V S Gill (IC 19484) EME, 01st Oct 1988.
 P S Guindal (IC 19500) EME, 01st Nov 1988.
 A K Myne (IC 19501) EME, 01st Nov 1988.
 A S Peri (IC 19585) EME, 01st Mar 1989.

V K Khosla (IC 19602) EME, 01st Mar 1990.
 R Venkatraman (IC 19654) AC, 01st May 1989.
 S K Kulia (IC 24451) EME, 01st May 1989.
 A K Abhilashi (IC 24452) EME, 01st Jun 1989.
 B K Attai (IC 24458) EME, 01st Jun 1989.
 A K Basu (IC 24473) EME, 01st Jul 1989.
 A S Hanspal (IC 24498) EME, 01st Aug 1989.
 Satish Chandra (IC 24500) EME, 01st Aug 1989.
 S Bhardwaj (IC 24509) EME, 01st Sep 1989.
 P P Gandhi (IC 24527) EME, 01st Sep 1989.
 N K Rao (IC 24535) EME, 01st Oct 1989.
 A K P Dave (IC 24543) EME, 01st Oct 1989.
 K L S Murthy (IC 24547) EME, 01st Oct 1989.

Majors to be substantive Lt Col (By Time Scale)

R K Sharma (IC 23999X) ARTY, 21st Dec 1990.
 N K Mandal (IC 24008L) ACS, 21st Dec 1990.
 Rampal (IC 24009N) ARTY, 21st Dec 1990.
 Rautela Hira Singh (IC 24015F) INF, 21st Dec 1990.
 Sisodia JPS SM (IC 24017M) INF, 21st Dec 1990.
 Jamloki Lakshmi Dat (IC 24022X) AOC, 21st Dec 1990.
 Pathania Sunil Singh (IC 24023A) INF, 21st Dec 1990.
 R S Ahlawat (IC 24024H) ASC, 21st Dec 1990.
 Varghese P John (IC 24025L) INF, 21st Dec 1990.
 Sucha Singh (IC 24028Y) INF, 21st Dec 1990.
 A S R Kumar (IC 24029F) INF, 21st Dec 1990.
 Bhide Viswanath (IC 24031Y) ASC, 21st Dec 1990.
 B K Bora (IC 24034M) ARTY, 21st Dec 1990.
 Hari Ramdas Sri (IC 24035P) INF, 21st Dec 1990.
 A S Blaggan (IC 24037A) ASC, 21st Dec 1990.
 Bhagwan Singh (IC 24040A) ASC, 21st Dec 1990.
 Rao Ivaturi Surya (IC 24044W) AOC, 21st Dec 1990.
 Shiv Nath Singh (IC 24050K) ARTY, 21st Dec 1990.
 G S Jolly (IC 24051M) INF, 21st Dec 1990.
 Dudeja S S (IC 24074N) AEC, 21st Dec 1990.
 Daulat Ram (IC 24078K) AEC, 21st Dec 1990.
 S S Katarva (IC 24115M) AEC, 21st Dec 1990.
 D I. Sachdeva (IC 24133P) AEC, 21st Dec 1990.
 Sikander Singh (IC 23900W) SIGS, 21st Dec 1990.
 M S Sayana (IC 23901Y) ARTY, 21st Dec 1990.
 Gurmeet Singh (IC 23905P) INF, 21st Dec 1990.
 N K S M Vyas (IC 23925H) INF, 21st Dec 1990.
 A K Datta (IC 23931W) INF, 21st Dec 1990.
 Manorianian Singh (IC 23932Y) INF, 21st Dec 1990.
 Anant Rao (IC 23937X) ARTY, 21st Dec 1990.
 S B Roy (IC 23938A) ARTY, 21st Dec 1990.
 Raina Madan Lal (IC 23945W) INF, 21st Dec 1990.
 Bhar Sarbjit Singh (IC 23948K) INF, 21st Dec 1990.
 A K Dutta (IC 23950F) ARTY, 21st Dec 1990.
 Gurtej Singh (IC 23951K) ASC, 21st Dec 1990.
 H S Bhaishora (IC 23952M) AOC, 21st Dec 1990.
 G S Dhaliwal (IC 23953P) ASC, 21st Dec 1990.
 Prem Sagar (IC 23954X) ARTY, 21st Dec 1990.
 Thapa Deoman Singh (IC 23956H) INF, 21st Dec 1990.
 Mukhia Himangshu (IC 23957I) INF, 21st Dec 1990.

P M Mishra (IC 23958N) ARTY, 21st Dec 1990.
 R K Kochhar (IC 23963Y) INF, 21st Dec 1990.
 Bharat Singh (IC 23964F) INF, 21st Dec 1990.
 Joseph Arulraj (IC 23965K) ARTY, 21st Dec 1990.
 B S Raikhy (IC 23969A) ARTY, 21st Dec 1990.
 K R Waryam Singh (IC 23973H) INF, 21st Dec 1990.
 V K Chibber (IC 23974L) ARTY, 21st Dec 1990.
 Sant Parkash Singh (IC 23975N) ARTY, 21st Dec 1990.
 Rattan Chand (IC 23976W) INF, 21st Dec 1990.
 Sandhu Jugraj Singh (IC 23977Y) INF, 21st Dec 1990.
 Saxena Swadhin (IC 23980Y) INF, 21st Dec 1990.
 P K Jain (IC 23982K) ARTY, 21st Dec 1990.
 Janak Raj (IC 23990H) ASC, 21st Dec 1990.
 Subba Prem Bahadur (IC 23992N) INF, 21st Dec 1990.
 Gurung Ghan Bahadur (IC 23997M) INF, 21st Dec 1990.

Lt. Col. D. C. KATOCH
 Offg Col MS-8

No. 77, dated 21st January 1992.—The following appointments are made :—

RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

S/Shri Ranuak Raj, Assistant and Hari Chand, Assistant, have been promoted as Officiating Assistant Civilian Staff Officers (Op B Gazetted) in the pay scale of Rs. 2000-60-2300-FB-7-3200-100-3500 in the AFHQ Civil Service with effect from 11-10-1991 (F/N) and taken on the strength of R & D from the same date.

2. The above appointments are purely provisional and subject to revision of seniority based on the judgment of Honourable Supreme Court in Writ Petition No. 439 of 1990 in Shri R K Khosla and others vs Union of India and also subject to directions of Supreme Court and CAT on related cases.

S LOGANATHAN
 Dy Chief Administrative Officer

No. 78, dated 8th January 1992.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

2/Lt to be Lt

Bashir Ahmed (IC-47311) Inf, Varinder Singh (IC-47312) EME, P Raghu Raman (IC-47313) Mech/Inf, Sunil Kumar Sharma (IC-47314) Arty, Kanwaljit Singh Ralhi (IC-47315) Arty, Deepak Ranjan Sinha (IC-47316) Engrs, Ravinder Kumar Pathak (IC-47317) Sigs, Sanjay Kadian (IC-47318) Inf, Yash Bhatnagar (IC-47320) AC, Parmanderjit Singh (IC-47322) Inf, Rajeev Sharma (IC-47323) Inf, Vinod Ghadu (IC-47324) Inf, Sunil Parmar (IC-47325) Inf, Kunga Tshering Sherpa (IC-47327) Arty, Raj Kumar Jasaiwal (IC-47328) Inf, Ashutosh Ahluwalia (IC-47329) Arty, Ujjwal Prakasa (IC-47330) Sigs, Devender Kumar Yadav (IC-47332) Engrs, Sandeep Chaudhary (IC-47333) Sigs, Harish Katoch (IC-47334) AC, Alankar Bhardwaj (IC-47335) ASC, T Thomas (IC-47336) ASC, Dadhanla Sanjay Kumar Gopaldas (IC-47337) Arty, Gautam Nandy (IC-47338) Inf, Aseem Kukerja (IC-47339) AC, Vikram Heble (IC-47340) Inf, 19 Dec 1989.

Vijaykumaran Nair VS (IC-43895) Arty, Rajesh Kumar Sharma (IC-43906) Arty, Sanjay Kapur (IC-43911) Arty, Ravindra Kothari (IC-43925) Inf, Sanjive Bhandari (IC-43928) Arty, Bhupal Kumar (IC-43932) Arty, Ajit Kapoor (IC-43934) Arty, Deepak Agarwal (IC-43940) Arty, Vinod Kumar Bahree (IC-43944) Arty, Rajiv Chauhan (IC-43945)

AOC, Amrit Pal Gupta (IC-43957) Arty, Makarand Vasant Prabhu (IC-43960) Arty, Kishore D Athlay (IC-43967) Arty, Bhupesh Kumar (IC-43968) Inf, Rajnaya Singh (IC-43970) AC, Sandeep Mehrotra (IC-43975) Arty, V Srinivasa Sharma (IC-43983) Arty, Pratap Singh (IC-43985) Mech/Inf, 14 Jun 88.

Tarun Prashar (IC-44209) Inf, Praveen Kumar Verma (IC-44212) Sigs, Naresh Kumar Sarotra (IC-44222) Inf, Amit Sinha (IC-44229) Inf, Kuldip Singh Bhadwal (IC-44234) Mech/Inf, Rajeev Bhatia (IC-44268) EME, Shaji CV (IC-44291) Arty, A Ayyappan Samy (IC-44307) Inf, Satyen Anand (IC-44326) Arty, Debabrata Mohapatra (IC-44329) Mech/Inf, Yashvir Chaudhary (IC-44390) Inf, Shakti Kumar Gautam (IC-44405) Mech/Inf, 20 Dec 88.

Karminder Singh Kang (IC-44536) Inf—13 Jun 89.

Sandeep Nagrath (IC-47282) AC, Jasmeet Singh Mahendru (IC-47283) Sigs, Jasbir Singh Boparai (IC-47284) Arty, Kaushik Sirchar (IC-47285) Inf, Vineet Nehra (IC-47287) Arty, Saurabh Kala (IC-47288) Engrs, Govind Singh Verma (IC-47289) ASC, Chaudhry Rajinder Kumar Sajwal (IC-47291) Inf, Rajeev Sethi (IC-47292) Arty, Baljeet Singh Bajwa (IC-47293) Arty, Rajeev Singh (IC-47294) Inf, Prem Singh Kharwal (IC-47295) ASC, Dinesh Kumar Sharma (IC-47296) Mech/Inf, Aditya Bhagwat (IC-47297) Sigs, Gurinder Jit Singh Gill (IC-47299) Inf, Sushobit Kamra (IC-47300) EME, Nagender Singh Thakur (IC-47302) Inf, Naresh Singh Chavhan (IC-47303) Inf, Ram Dhan Singh (IC-47304) ASC, Sanjay Jethi (IC-47305) AOC, Sabhuji Kumar Panda (IC-47306) AC, Sunder Gopal Ravi Chander (IC-47307) AC, Ranbir Singh Yadav (IC-47308) ASC, Jagdish Singh (IC-47309) AOC, Manoj Jain (IC-47310) EME, 19 Dec 1989.

Sharidhar B Kulkarni (IC-47256) EME, Kanwarjit Singh Mayal (IC-47257) Arty, Avinash Rawat (IC-47258) AOC, Harsh Verdhana Singh (IC-47259) Inf, Anuragh Asthana (IC-47260) Sigs, Amar Deep Singh Auja (IC-47261) Inf, Prasanta Kumar Ray (IC-47262) Arty, Rajeev Thakur (IC-47263) Inf, Karan Deep Singh (IC-47264) Inf, Ganpat Maruti Chaudhari (IC-47265) Engrs, Vijay Kumar MG (IC-47266) Engrs, Bibhash Chandra Singh (IC-47267) Arty, Braj Raj Tiwari (IC-47268) ASC, Gurjiwan Singh Bhatti (IC-47269) Inf, Shiva Nandan Sharma (IC-47270) Arty, Harjinder Singh (IC-47271) Inf, Rajbir Singh Virk (IC-47272) Arty, Bhupinder Singh Handa (IC-47274) AC, Navdeep Singh Sangha (IC-47275) Inf, Vivek Kaul (IC-47276) Mech/Inf, Sanjeevan Singh Guleria (IC-47277) Inf, Surya Pal Singh Rawat (IC-47278) Inf, Hemant Kumar (IC-47279) EME, Harmanjit Singh Chopra (IC-47280) Inf, Jaswant Singh (IC-47281) Sigs, 19 Dec 89.

Rajesh Kamal Sharma (IC-47087) Arty, Patrayya G Subbapurmath (IC-47088) Arty, Surendra Singh (IC-47089) Arty, Deepak Thapa (IC-47090) Inf, Om Prakash Rana (IC-47092) Inf, Ushnisha Jaitly (IC-47093) Inf, Sandeep Sudhere Vidyarthi (IC-47094) Engrs, Atul Ajmani (IC-47095) Sigs, Sanjay Kumar (IC-47096) Engrs, Jagroop Singh (IC-47097) Arty, Kevin Augustine Desouza (IC-47098) EME, Rajesh Kisanrao Gaikwad (IC-47099) Inf, Sanjay Kumar Kaushal (IC-47100) AC, Maneesh Gesain (IC-47101) ASC, Suchiter Sharma (IC-47102) Inf, Sarpreet Singh Benipal (IC-47103) ASC, Sanjay Kumar Karwal (IC-47104) EME, Umesh Chandra Rai (IC-47106) EME, Ratandeep Datta (IC-47107) Inf, Deepak Kohli (IC-47108) Arty, Vineet Bhatia (IC-47109) Sigs, Vishal Mehta (IC-47110) Arty, Mahendra K Joshi (IC-47111) Inf, Jitendra Singh Shekhawat (IC-47112) Inf, Narendra Singh Yadav (IC-47113) Inf, 19 Dec 1989.

Bhagat Parkash Kamal (IC-47029) Inf, Vikram M Date (IC-47030) Inf, Arun Pratap Singh Rajura (IC-47031)

Inf, Pratik Sharma (IC-47032) Inf, Sanjay Thakur (IC-47033) Inf, Dipendar Singh Rawat (IC-47034) Engrs, Pravin P Shinde (IC-47035) Inf, Deepak Garg (IC-47036) Inf, Brahm Prakash Yadav (IC-47037) AOC, Surendra Nath Tiwari (IC-47038) Inf, Sarwan Singh (IC-47039) ASC, Gattu Venkata Hari Prasad (IC-47042) Inf, Ashok Kumar Bhuyan (IC-47045) Arty, Shailendra Malik (IC-47046) EME, Jai Singh Yadav (IC-47047) Inf, Rajesh Kharb (IC-47048) Inf, Jeetender Sharma (IC-47049) Sigs, Gurbir Singh Sarna (IC-47050) Inf, Krishna Raj (IC-47051) Arty, Dharmender Singh Yadav (IC-47052) Inf, Mohan Singh (IC-47053) Inf, Hardeep Singh (IC-47054) Arty, Ashish Sharma (IC-47055) Arty, Mukesh Aggarwal (IC-47057) Arty, Satbir Singh (IC-47058) Inf, 19 Dec 1989.

Dinesh Singh Yadav (IC-47001) Mech/Inf, Jagjit Singh Mangat (IC-47002) AC, Devendra Sharma (IC-47003) AC, Padam Singh Shekhawat (IC-47004) Mech/Inf, Chander Vijay Singh (IC-47005) AC, R Nathawat (IC-47006) Mech/Inf, Ashwani Kumar Yadav (IC-47007) AC, Rajesh Kumar Uniyal (IC-47009) Engrs, Anurag Kumar (IC-47010) EME, Tejvir Singh Mundi (IC-47012) AC, Deepak Mehra (IC-47013) Inf, Tapan Kumar Das (IC-47014) EME, Rajeev Arora (IC-47015) Inf, Deepankar Chaudhary (IC-47017) Inf, Rajinder Singh (IC-47018) Arty, Sandip Ghai (IC-47019) Inf, Dinesh Singh Rana (IC-47020) Inf, Rajadhyaksha Yogesh Balkrishna (IC-47021) Inf, Navneet Singh Sarna (IC-47023) Arty, Ram Gopal Shukla (IC-47024) Arty, Sandeep Sehgal (IC-47025) Inf, Vikas Grover (IC-47026) Arty, Ajay Kalia (IC-47027) Arty, Raj Mohan (IC-47028) Sigs, 19 Dec 1989.

Anuj Chaturvedi (IC-47406) Sigs, Birbal Singh (IC-47407) Inf, Vijay Dhawan (IC-47408) AOC, Vivek Kumar Sharma (IC-47409) Mech/Inf, Sanjay Baweja (IC-47410) Inf, Jagjit Singh Sandhu (IC-47411) Inf, Prabhakar Singh Gautam (IC-47412) Arty, Atul Bhandari (IC-47413) ASC, Kailash Prakash Malik (IC-47414) Engrs, Yogesh Chandra Lohumi (IC-47415) Inf, Charanjit Singh Mander (IC-47416) Arty, Utlam Kumar Saha (IC-47417) Arty, Jewel Anthony (IC-47418) AOC, Vikash Ranjan (IC-47419) Arty, Shivraj Singh Rathore (IC-47420) Inf, Khem Prasad (IC-47421) Arty, Alok Singh (IC-47422) Inf, Shevade Nand Kumar Janardan (IC-47423) Inf, Dinesh Soni (IC-47425) AOC, Anil Kumar Pathania (IC-47426) Inf, Surender Kumar Mathur (IC-47427) Arty, Shushil S Kulkarni (IC-47429) AOC, Ashish Moulik (IC-47430) AC, Hemant Saroch (IC-47431) Inf, Bhagwan Singh Shekhawat (IC-47433) Arty, 19 Dec 89.

Ajay Bhatia (IC-47059) EME, Nikesh Nandan (IC-47060) Arty, Vikash Sharma (IC-47061) Arty, Alex Jacob (IC-47062) Inf, Sanjay Sharma (IC-47063) Arty, Manoj Natrajan (IC-47064) Inf, Arvinder Singh Bhullar (IC-47065) ASC, Sanjay Sharma (IC-47066) Sigs, Pawan Singh Samyal (IC-47067) Sigs, Yogendra Kumar (IC-47068) AC, Sukhvinder Singh Khara (IC-47069) Engrs, Abhijit Madhav Bapat (IC-47070) Inf, Kamal Singh Bhadwal (IC-47071) ASC, Ravindra Pratap Singh (IC-47072) Inf, Kulwant Singh (IC-47074) Arty, Vanteru Siva Kota Reddy (IC-47075) Arty, Rakesh Kapoor (IC-47076) AC, Varinder Singh (IC-47077) Inf, Maneesh Chandra (IC-47078) Engrs, Sanjay Sethi (IC-47079) AOC, Vikram Jeet Singh (IC-47080) Inf, Deepinder Singh Saini (IC-47082) Inf, Sharad Kaku (IC-47085) Arty, Avadhut Deshpande (IC-47086) Sigs, 19 Dec 1989.

Kurra Sreenivasa Rao (IC-47466) Inf, R Arun (IC-47468) Arty, Dinkar Hiteshi (IC-47469) EME, Pavan Raj Singh Sirohi (IC-47470) AC, Vivek Jhanji (IC-47471) ASC, Anant Niranjana (IC-47472) EME, Surinder Singh (IC-47473) Inf, Kulbir Singh Rathee (IC-47474) Inf, S Vijayanand Balaji (IC-47475) Arty, Rajnish Mathur (IC-47476) Inf, M Julius George (IC-47477) Engrs, Sunil Thomas (IC-47478) Inf, Avinash Mullick (IC-47479) Inf, Vemuru Ravindra Kumar (IC-47493) AEC, Srinivasulu Somanchi (IC-47517) AEC, 19 Dec 89.

Jitendra Avinash Sahasrabude (IC-47198) Arty, Alok Joshi (IC-47199) Inf, Harish Barthwar (IC-47201) AC, Rama

Kanta Barman (IC-47202) Arty, PM Brindavan Lal (IC-47203) Inf, Venkatesh M Naik (IC-47204) ASC, Gajendra Singh Sareen (IC-47205) Inf, Anil Negi (IC-47207) Engrs, Ranjan Mahajan (IC-47208) Inf, Ajay Joshi (IC-47209) Inf, Suneet Malik (IC-47210) Sigs, Tejinder Kumar Thapar (IC-47211) EME, Ranjit Singh Malik (IC-47212) Arty, Ashok Kumar (IC-47213) Engrs, R Srinivas (IC-47214) Arty, Sanjay Kumar Jain (IC-47215) AOC, Humayun Mirza (IC-47216) Inf, Pramod Kumar Rawat (IC-47217) Inf, Ajay Singh Beri (IC-47218) Inf, Narendra Singh Panwar (IC-47219) Arty, G. Mathialagan (IC-47221) Arty, Anajan Kumar Mukhopadhyaya (IC-47222) Sigs, Sanjeev Chauhan (IC-47223) Inf, Parmesh Sharma (IC-47224) Inf, Rahul Singh (IC-47226) Mech/Inf, 19 Dec 1989.

Pramod Kaushik (IC-47227) Inf, Pravin Kumar G Sathvara (IC-47228) Engrs, Dalwinder Singh (IC-47229) Inf, Bhupinder Singh Dhillon (IC-47230) Inf, Manjeet Singh (IC-47231) Sigs, Manmohan Singh Bajwa (IC-47234) Arty, K Ramesh Kumar (IC-47235) EME, Harpreet Singh (IC-47236) Arty, Verendra Kumar Sharma (IC-47237) ASC, Shailendra P Bhalekar (IC-47238) Arty, Vijay Kumar Parshuram Adsul (IC-47240) Inf, Lal Vivek Raj Singh (IC-47241) Inf, Jogender Singh Lakra (IC-47242) AC, Baby CM (IC-47243) AC, Prakash Kumar Rukhaiyar (IC-47244) Arty, Ajai Gautam (IC-47245) AOC, Kanwar Bir Singh (IC-47246) Arty, Peeyush Pandey (IC-47247) Inf, Sandesh Sharma (IC-47248) Sigs, Mannu Chopra (IC-47249) AOC, P Keshavadasan (IC-47250) Inf, Shashikant Yashwant Jadhav (IC-47251) Inf, Randeep Pal Singh Waraich (IC-47252) Inf, Gajendra Joshi (IC-47253) Inf, Kuldeep Singh Bidhan (IC-47254) Arty, 19 Dec 1989.

Rakesh Kumar (IC-47169) Sigs, Joydeep Chatterjee (IC-47170) Inf, Ajay Pal Singh Randhawa (IC-47171) Arty, Balveen Singh Dhillon (IC-47172) Sigs, Nikunj Goel (IC-47174) M/Inf, Rajesh Sharma (IC-47175) AOC, MR Raveendran Nair (IC-47176) Engrs, Alok Beri (IC-47177) Arty, Suresh Kumar Yadav (IC-47178) Inf, Vijay Pal Singh (IC-47179) AOC, Dheeraj Singh Raghuwanshi (IC-47180) Inf, Sanjay Prasad Gupta (IC-47181) Inf, Anil Kumar Gulia (IC-47182) Inf, Bhupat Singh Latwal (IC-47183) Inf, Phansalkar Devdutta Shrikant (IC-47184) AC, Mohan Singh (IC-47185) Inf, Santonu Roy (IC-47186) EME, Piyush Bisht (IC-47187) ASC, Surinder Pal Singh (IC-47188) Inf, Mrutyunjay S Yarnal (IC-47191) Arty, Rakesh Kumar Singh (IC-47192) Inf, Dinesh Kumar Malhotra (IC-47193) Inf, Joginder Singh Tanwar (IC-47194) Inf, Sanjay Dayal Mathur (IC-47195) EME, RPS Gill (IC-47196) Arty, 19 Dec 1989.

Jatinder Kumar Gera (IC-47143) Inf, Sumit Talwar (IC-47144) Arty, Tamal Kumar Mukherjee (IC-47145) Inf, Mandip Singh Gill (IC-47146) Arty, Shireesh Bhatia (IC-47147) EME, Shubha Mitra (IC-47149) ASC, Pankaj Singh (IC-47150) Inf, Vikram Yadav (IC-47151) Arty, Iqbal Singh (IC-47152) Inf, Ranjeeb Sanyal (IC-47153) Sigs, Khandekar Sanjiv B (IC-47154) Inf, Umesh Chandra Bhatt (IC-47155) AOC, Devinder Pal Singh (IC-47156) Inf, G Sree Rama Rao (IC-47157) Inf, Jaya Kumar S (IC-47158) Arty, Joginder Kumar (IC-47159) Inf, Praveesh Kumar Sharma (IC-47160) Arty, Kunal Kashyap (IC-47161) Arty, Subhankar Roy (IC-47162) Arty, Shahzad Salim Durrani (IC-47163) Arty, Ajay Kadian (IC-47164) Inf, Saket Anand Jha (IC-47165) AC, Sanjay Sharma (IC-47166) Engrs, Vijay Kumar Sharma (IC-47167) Sigs, Niroop Chandran (IC-47168) Arty, 19 Dec 1989.

Subhash Kumar Sharma (IC-47342) Sigs, Vijay Bikram Singh Bora (IC-47343) Inf, Amarjit Singh Oberoi (IC-47344) Arty, Brijesh Kumar Dhankar (IC-47345) Inf, Gurpreet Mohan Singh Bindra (IC-47346) Arty, Vikram Uppal (IC-47347) Arty, Anurag Gupta (IC-47348) Inf, Rajesh Tyagi (IC-47351) Inf, SS Anjaria (IC-47352) Inf, Debasis Mukhopadhyay (IC-47353) Engrs, Gurbaksh Singh Sandhu (IC-47354) AOC, Harminder Preet Singh (IC-47356) Sigs, Navind Rai Maggo (IC-47357) EME, Rahul Roy (IC-47358) Arty, Sunil Seth (IC-47361) AC, Inder Mohan Singh (IC-47362) Inf, Manish Kapoor (IC-47364) Engrs, Sanjay Srivastava (IC-47365) Arty, Samir Singh (IC-47367) Arty, Shri Bhagwan Sharma (IC-47368) Sigs, Ravi Prakash (IC-47369) AOC, Kanwaljeet Singh Talwar (IC-47370) Inf, Balbir Singh (IC-47371) Inf, Raj Rishi Sharma (IC-47372) Arty, Panicker Thomas PG (IC-47373) AC, 19 Dec 1989.

Rakesh Ahuja (IC-39685) Inf, Pradeep Kumar Roy (IC-39735) Arty, Vijay Kumar Ramachandra Rao Pimple (IC-39776) Arty, 13 Jun 83.

Harinder Dal Singh Sandhu (IC-43475) Inf, Anil Guliana (IC-43498) Arty, Sanjeev Vij (IC-43506) AC, Mohinder Singh (IC-43510) Arty, Pankaj Kaushik (IC-43529), Arty Arvinder Singh (IC-43532) AOC, Sanjay Joshi (IC-43548) Arty UC Mehta (IC-43561) Arty BS Bajwa (IC-43567) Arty, Pergat Singh (IC-43570) Arty, Amarjyoti Roy (IC-43587) Arty, KN Sreekumar (IC-43595) AC, Vikrant Singh (IC-43596) Arty, AK Parashar (IC-43599) Arty, SK Saksena (IC-43601) Inf, Ajit Kumar Jha (IC-43603) ASC, 14 Dec 87.

Ranjit Singh Natt (IC-47114) ASC, Prabir Barik (IC-47115) Inf, Kasirajan Sankarapandian Kumaresan (IC-47117) Inf, Ravi Shah (IC-47118) Inf, Anil Kumar BK (IC-47119) AC, Bhushan Lal (IC-47120) Inf, Anmol Sood (IC-47121) Inf, Sanjay Mukherjee (IC-47122) Sigs, Jalsankar Prasad (IC-47124) EME, Arvind P Mulimani (IC-47125) Arty, Praveen Mathur (IC-47126) Engrs, Ajay Tomar (IC-47127) ASC, Arun Yadav (IC-47128) Inf, Anupam Jain (IC-47129) Arty, Dinesh Bhandari (IC-47130) AOC, Deepak Kundra (IC-47131) Arty, Amit Sood (IC-47132) EME, Avinash Singh Brar (IC-47133) Inf, Vikram Singh (IC-47134) ASC, Sandeep Kumar Ghosh (IC-47136) AOC, Ajay Kakshi (IC-47138) Inf, Pushpendra Pal Singh (IC-47139) Inf, Sahaj Kumar Sah (IC-47140) Engrs, Raj Kumar Attri (IC-47141) AOC, Ravinder Dhankar (IC-47142) EME, 19 Dec 1989.

Prahalad Kishan Jetley (IC-47374) Inf, Shanker Singh (IC-47375) Inf, Rahul Chandra (IC-47377) Arty, Sanjay Bhushan (IC-47378) Inf, Umesh Kumar Pant (IC-47379) EME, Pushkar Prasad (IC-47380) Engrs, Rajender Kumar Zarabi (IC-47382) Sigs, Jagnar Singh (IC-47383) Arty, Arun Malhotra (IC-47384) ASC, Rajender Singh Sheoran (IC-47385) ASC, Santhosh KM (IC-47386) AOC, Surinder Kumar Sharma (IC-47387) Inf, Mandeep Randhawa (IC-47388) Inf, Amitava Mukherjee (IC-47389) Arty, Arvind Tomar (IC-47390) Inf, Anand Mehrotra (IC-47392) Inf, Sanjay Langch (IC-47393) ASC, Ranjit Singh (IC-47394) AC, Rohit Singhal (IC-47395) Inf, Dilip Kumar Acharya (IC-47396) Inf, Vinay Kumar Gupta (IC-47397) Inf, Kuldeep Yadav (IC-47400) EME, Kiran Deep Singh (IC-47401) EME, Rakesh Bhutani (IC-47403) Arty, Kikram Anilwalia (IC-47404) ASC, 19 Dec 89.

Aran Narain Mathur (IC-47434) Arty, Rajesh Jagtap (IC-47435) Sigs, Gautam Majumdar (IC-47436) AC, Rajeev Kumar Choudhary (IC-47437) ASC, Krishna Kumar Singh (IC-47438) Inf, Ravi Kant Joshi (IC-47432) EME, Deepak Chaturvedi (IC-47443) ASC, Dharam Pal (IC-47444) Inf, Sanjay Ghildiyal (IC-47446) AC, Ajay Shah (IC-47447) Mech, Inf, Chandni Prasad Sharma (IC-47450) Sigs, Gian Singh Sidhu (IC-47451) Inf, Abhijit Mitra (IC-47452) Sigs, Harendra Singh (IC-47454) Inf, Yash Pal Banwait (IC-47455) Sigs, Om Prakash Choubey (IC-47456) ASC, Vishal Rai (IC-47457) AOC, Manjeet Singh Brar (IC-47458) Arty, Ajay Dhawan (IC-47459) Arty, Praveen Singh (IC-47460) Inf, Puneet Pasricha (IC-47461) Arty, Arvind S Gill (IC-47462) Inf, Rajit Singh Babbal (IC-47463) Arty, Vimal Kapoor (IC-47464) Mech/Inf, Sanjeev Singh (IC-47465) Inf, 19 Dec 89.

Narender Kumar (SS-31339) Inf, Abraham Alex (SS-31428) AC, 12 Mar 85.

Rajesh Kumar Shrivastava (IC-42036) Arty, Ravindra Palsule (IC-42002) Mech/Inf, 15 Dec 86.

Mohan Singh (IC-43217) Mech/Inf, SK Kurelay (IC-43246) Sigs, Sumer Sobti (IC-43279) AC, Jagdeep Singh (IC-43306) Arty, Dilbagh Singh (IC-43329) Arty, Yash Pal (IC-43335) Arty, Amarjit Singh Parmar (IC-43366) Inf, Kamble Ramchandra Maruti (IC-43375) Arty, OP Pandey (IC-43385) Arty, AKS Rathor (IC-43386) Arty, Dilip Ajwani (IC-43405) Arty, Surender Pavamani (IC-43407) Arty, Birendra Kumar Singh (IC-43408) Engrs, Vikram Singh Yadav (IC-43428) Inf, Kawaljeet Singh (IC-43436) Arty, 14 Dec 87.

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

K Rajendran (SL-2400), 25 Jul 90.

RAOHUBIR SINGH
CSO
DAMS 8C

No. 79, dated 19th December 1991.—The President is pleased to make the following promotions :—

(Short Service Commission)

Army Medical Corps

Capt to Q/S Major

(MRS) GEETHA. J. (MS-11938N)—21 SEP 91.

TANMAY SARKAR (MS-11943Y)—21 SEP 91.

PURNENDU SEKHAR SARANGI (MS-11945K)—21 SEP 91.

(MRS) POONAM BHAGAT (MS-11946M)—21 SEP 91.

SUDHIR GARG (MS-11975F)—21 SEP 91.

PRADEEP KUMAR CHANDEL (MS-12101A)—21 SEP 91.

OM PRAKASH ATMARAM BEDEKAR (MS-11957Y)—07 OCT 91.

BHUPENDRA PRASAD SINGH (MS-11963M)—20 OCT 91.

SANTOSH KUMAR JENA (MS-11983A)—04 OCT 91.

KADABA CHANDRASEKHARIAH ARVIND (MS-11990W)—23 OCT 91.

SUNIL KUMAR (MS-12005L)—04 OCT 91.

MOSHEWAR REGON (MS-12020A)—22 OCT 91.

BIPIL KUMAR (MS-12022L)—29 OCT 91.

BASUJIT GANGOPADHYAY (MS-12028M)—24 OCT 91.

OM PRAKASH MOHESWARI (MS-12040N)—01 OCT 91.

(MRS) ANANDMAYEE SINHA (MS-12189P)—06 OCT 91.

Lt to Capt (On Probn)

S. SUDALAI MUTHU (MS-12345N), AMC—01 SEP 1991.

Flt Lt to Q/S Sqn Ldr

Rajasekhara Adiga HR (MS-12209X) (18847), AMC—21 Sep 1991.

Surg Lt to Q/s Surg Lt Cdr (On probn.)

Pravinder Singh Ahluwalia (MS-12238M) (75444N), AMC—10 Nov 1991.

Air Comde to be AVM

D P Sarkar (5491) (MR-996) AMC/PC—16-5-1990.

(Notional seniority with effect on pay and pension from 14-12-1989).

Air Cmde to be AVM

V K Singhal (5535) (MR-1422) AMC/PC—30-11-1990.

(Notional seniority without effect on pay and promotion from 01-10-1990).

Brig to be Maj Gen

DJ Mukherjee (MR-1002) AMC/PC—01-5-1990

(Notional seniority without effect on pay and pension from 16-12-1989).

(Gazette No. 582 dated 27-3-1991 published on 1-6-1991 in so far as it relates to this officer may be treated as cancelled).

M K Seth (MR-1001) AMC/PC—16-5-1990

(National seniority without effect on pay and pension from 15-12-1989).

(Gazette No. 1115 dated 5-7-1991 published on 28-9-1991 in so far as it relates to this officer may be treated as cancelled).

S Chakraborty (MR-1317) AMC/PC—28-6-1990

(Notional seniority without effect on pay and pension from 17-12-1989).

(Gazette No. 88 dated 7-1-1991 published on 2-3-1991 in so far as it relates to this officer may be treated as cancelled).

Gp Capt to be Air Cmde

S K Adaval (6486) MR-1784) AMC/PC—7-3-1990

(Notional seniority without effect on pay and pension from—

S P Verma (6466) (MR-1787) AMC/PC—01-4-1991

(Notional seniority without effect on pay and pension from 4-10-1990).

K N Prabhakar (6159) (MR-1642) AMC/PC—17-12-1990

(Notional seniority without effect on pay and pension from 4-10-1990).

Col to be Brig

P L Ghosh (MR-1439) AMC/PC—29-11-1990.

(Notional seniority without effect on pay and pension from 4-10-1990).

(Gazette No. 582 dated 27-3-1991 published on 1-6-1991 in so far as it relates to this officer may be treated as cancelled).

S P Chattopadhyay (MR-1770) AMC/PC—28-2-1990

(Notional seniority without effect on pay and pension from 17-1-1990).

(Gazette No. 582 dated 27-3-1991 published on 1-6-1991 in so far as it relates to this officer may please be treated as cancelled).

P K Sarkar (MR-1622) AMC/PC—1-11-1990

(Notional seniority without effect on pay and pension from 4-10-1990).

(Gazette No. 1115 dated 5-7-1991 published on 28-9-1991 in so far as it relates to this officer may be treated as cancelled).

N K Thunja (MR-1374) AMC/PC—8-2-1991

(Notional seniority without effect on pay and pension from 4-10-1990).

(Gazette No. 1115 dated 5-7-1991 published on 28-9-1991 in so far as it relates to this officer may be treated as cancelled).

B Singh (MR-1828) AMC/PC—8-3-1991

(Notional seniority without effect on pay and pension from 4-10-1990).

(Gazette No. 1115 dated 5-7-1991 published on 28-9-1991 in so far as it relates to this officer may be treated as cancelled).

P K Dutta (MR-1449) AMC/PC—17-10-1990

(Notional seniority without effect on pay and pension from 4-10-1990).

(Gazette No. 1115 dated 5-7-1991 published on 28-9-1991 in so far as it relates to this officer may be treated as cancelled).

Wing Cdr to be Gp Captain

M G Goswami (7280) (MR-1584) AMC/PC—19-12-1988

(Notional seniority without effect on pay and pension from 2-12-1988).

K P Das (8933) (MR-2410) AMC/PC—5-1-1989

(Notional seniority without effect on pay and pension from—

Lt Col to be Col

MJ Shamsi (MR-2289) AMC/PC—31-3-1989.

(Notional seniority without effect on pay and pension from 15-2-1989).

(Gazette No. 87 dated 27-1-1991 published on 2-3-1991 in so far as it relates to this officer may be treated as cancelled).

K V V A Sharma (MR-2296) AMC/PC—28-12-1988

(Notional seniority without effect on pay and pension from 17-2-1988).

(Gazette No. 1417 dated 26-9-1990 published on 10-11-90 in so far as it relates to this officer may be treated as cancelled).

M Mohapatra (MR-1922) AMC/PC—6-10-1988

(Notional seniority without effect on pay and pension from 14-12-1987).

D C Borua (MR-2035) AMC/PC—w.e.f. 23-5-1988

(Notional seniority without effect on pay and pension from 5-12-1986).

K B Nair (MR-2714) AMC/PC—1-6-1991.

D J MUKHERJEE,
Maj Gen
Offg. Dy DGAFMS

TEMPORARY COMMISSION

No. 80, dated 24-1-1992—The President is pleased to permit the undermentioned officers of the Army Postal Service Corps to relinquish their commission with effect from the dates noted against each and to retain the rank after relinquishment of commission as shown against the name of the officer :—

Particulars of the officer	Permitted relinquishment of commission on	Retain the rank of
TC-31221N Brig Keshavbhai Premchandru Mehwal	31 Aug 91 (AN)	Brig
TC-31220L Col Ram Swaroop Kareer	11 Nov 91 (AN)	Col
TC-31390P Col Shekhar Kumar Sen	28 Oct 91 (AN)	Col
TC-31284W Major Avanasbiappam Rangaswamy	01 Nov 91 (FN)	Major
TC-31335Y Major Chinta Obulesu	30 Sep 91 (AN)	Major

PRAKASHC HAND
Under Secy.

(G. S. BRANCH)

No. 81, dated 15th January 1992.—The following Stenographers Grade 'C' (PA) are promoted as Stenographers Gde 'B' (PS) on the basis of result of Limited Departmental Competitive Examination w.e.f. the date shown against their names in Armed Forces Headquarters Stenographers' Service :—

Smt S Lalita Devi—17-12-1991 (FN)

Shri Raj Kumar—24-12-1991 (FN).

S. LOGANATHAN,
Dy. Chief Administrative Officer (A)

(ARMY BRANCH)

No. 82, dated 8th January 1992.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Corps of Signals

To be Subedar (Y of S)

Nb Sub Lal Bahadur Tripathi (JC-133083L), 1st July 1991.

Nb Sub Gurdial Singh Nangra (JC-133100A), 1st Aug 1991.

Nb Sub Amar Nath (JC-133103N), 1st Aug 1991.

Nb Sub Dina Nath (JC-133106F), 1st Sep 1991.

Nb Sub Virendra Kumar Sharma (JC-133108M), 1st Sep 1991.

Nb Sub Ram Ratan Singh (JC-135208W), 1st Dec 1991.

To be Subedar (F of S)

Nb Sub Mallikarjuna Rao Baloju (JC-145936K), 1st Aug 1991.

Nb Sub Avtar Singh (JC-145948Y), 1st Nov 1991.

Nb Sub Jakaria Mandal (JC-145949F), 1st Nov 1991.

Nb Sub Gopal Saran Prasad (JC-145950W), 1st Nov 1991.

Nb Sub Kali Charan Tripathi (JC-145952F), 1st Nov 1991.

Nb Sub Jag Roshan (JC-145953K), 1st Nov 1991.

Nb Sub Toshander Kumar Sharma (JC-145955P), 1st Nov 1991.

Nb Sub Ram Chander Shivan (JC-149700M), 1st Dec 1991.

To be Subedar (O P Ciph)

Nb Sub Damodaran Pillai Raveendran Pillai (JC-153909P), 1st Dec 1990.

Nb Sub P Sree Krishnan (JC-162511P), 1st Mar 1991.

Nb Sub Nitya Nanda Lenka (JC-166550X), 1st June 1991.

Nb Sub Ram Autar Singh Tyagi (JC-168145Y), 1st Nov 1991.

Nb Sub Surat Singh (JC-172862K), 1st Nov 1991.

Nb Sub Narayan Ram (JC-168146F), 1st Nov 1991.

Nb Sub Prem Singh (JC-168148M), 1st Dec 1991.

Nb Sub Raghvir Singh (JC-168149P), 1st Dec 1991.

Nb Sub Kewal Singh (JC-172863M), 1st Dec 1991.

Nb Sub Amar Singh (JC-168151M), 1st Dec 1991.

Nb Sub Shubh Ram (JC-172864P), 1st Dec 1991.

To be Subedar (O P Spec)

Nb Sub Mam Chand Kaushik (JC-172251P), 1st July 1991.

Nb Sub Pura Singh (JC-173649W), 1st Nov 1991.

Nb Sub K P Sinha (JC-177635N), 1st Nov 1991.

Nb Sub Hari Singh Chauhan (JC-173650L), 1st Nov 1991.

Nb Sub Hari Narain Singh (JC-177636W), 1st Nov 1991.

Nb Sub Shankaran Nair A (JC-172268H), 1st Dec 1991.

Nb Sub Surya Narayana (JC-173653Y), 1st Dec 1991.

Nb Sub Srinivas Sarma (JC-173654F), 1st Dec 1991.

Nb Sub Jaswant Singh Rajput (JC-172269L), 1st Dec 1991.

Nb Sub Tak Chand (JC-173655K), 1st Dec 1991.

Nb Sub Tara Chand (JC-173656M), 1st Dec 1991.

To be Subedar (Cik GD)

Nb Sub Ajab Singh (JC-161162W), 1st July 1991.

Nb Sub Khem Chand (JC-162516A), 1st July 1991.

Nb Sub Kant Ram Yadav (JC-163341P), 1st Aug 1991.

Nb Sub Prem Singh (JC-166563P), 1st Nov 1991.

Nb Sub Paras Nath Singh (JC-166564X), 1st Nov 1991.

Nb Sub Chanan Singh Thakur (JC-168165M), 1st Nov 1991.

Nb Sub Santokh Singh (JC-168166P), 1st Nov 1991.

Nb Sub C M Suman (JC-168167X), 1st Nov 1991.

Nb Sub K C Rana (JC-168168A), 1st Nov 1991.

Nb Sub Mangal Singh (JC-168169H), 1st Nov 1991.

Nb Sub Joginder Ram Jaria (JC-168170X), 1st Nov 1991.

Nb Sub Krishnan Kutty Nair J (JC-172886N), 1st Nov 1991.

Nb Sub Nand Ram Sherawat (JC-172887W), 1st Nov 1991.

Nb Sub Amrit Lal (JC-172888X), 1st Nov 1991.

Nb Sub K Sivaraman (JC-172894M), 1st Nov 1991.

Nb Sub Subhash Chandra Hazra (JC-173659A), 1st Nov 1991.

Nb Sub Nand Kishore Saini (JC-173660P), 1st Nov 1991.

Nb Sub Basavanneppa Madanbhavi (JC-173661X), 1st Nov 1991.

Nb Sub Kartar Singh (JC-180970H), 1st Nov 1991.

Nb Sub Beeram Lal (JC-173662A), 1st Nov 1991.

Nb Sub Vasu C (JC-173664L), 1st Nov 1991.

Nb Sub Sukh Deo Prasad (JC-173665N), 1st Nov 1991.

Nb Sub Mukhtiar Singh (JC-172273N), 1st Nov 1991.

Nb Sub Kishori Mohan Singh (JC-177608K), 1st Nov 1991.

Nb Sub Hari Lal Singh Yadav (JC-177609M), 1st Nov 1991.

Nb Sub Sukh Deo Kore (JC-177610F), 1st Dec 1991.

Nb Sub Shambhoo Ram (JC-177612M), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Narottam Singh (JC-177613P), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Jagphul Singh (JC-177614X), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Bhargavan C D (JC-177616H), 1st Dec 1991.
 Nb Sub S Subbu Raman (JC-180971L), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Vakeel Pandey (JC-177617L), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Oommen K T (JC-177618N), 1st Dec 1991.
 Nb Sub M Seethapathi (JC-177619W), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Kail Singh (JC-177620L), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Durga Ram (JC-177621H), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Ram Swarath Mahto (JC-180973W), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Jagdish Prasad (JC-177623Y), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Satish Kumar (JC-177624H), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Shrawan Kumar (JC-180975F), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Mukhram Singh (JC-180972M), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Jarnail Singh (JC-180976K), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Dbirendra Kumar Singh (JC-180978P), 1st Dec 1991.
 Nb Sub M Viswambharam (JC-177628X), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Dayeni Bhagirathi Patro (JC-180979X), 1st Dec 1991.
 Nb Sub P K Ramanujan Nair (JC-180980M), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Ram Lal (JC-180982X), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Balan Valiya Parambath (JC-180983A), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Kalp Nath Shukla (JC-180984H), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Thankappan N (JC-180986N), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Gajendra Nath Borah (JC-180989F), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Ram Phal Rashmia (JC-180991Y), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Rajendra Singh Rawat (JC-180992F), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Raj Kumar Sharma (JC-180993K), 1st Dec 1991.
 Nb Sub Hasan Bashya Hukki (JC-180994M), 1st Dec 1991.

To be Subedar (SKT)

Nb Sub Chandra Mohan Jha (JC-166328W), 1st Nov 1991.

G. D. NANGAL, Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 83, dated 8th January 1992.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Corps of Signals

To be Subedar (GD)

Nb Sub Ram Gopal (JC-162592N), 1st Mar 1991.

Nb Sub Sudesh Kumar (JC-162622Y), 1st Mar 1991.

Nb Sub Sarwan Singh (JC-162623F), 1st Mar 1991.
 Nb Sub Asok Kumar Hor (JC-162828W), 1st May 1991.
 Nb Sub Gurdev Singh (JC-163514F), 1st Aug 1991.
 Nb Sub Subha Chand (JC-165136M), 1st Aug 1991.
 Nb Sub Puthusseri Veetil Ravindran (JC-165137P), 1st Aug 1991.
 Nb Sub Razi Ullah (JC-165140P), 1st Aug 1991.
 Nb Sub Nand Lal (JC-165143H), 1st Aug 1991.
 Nb Sub Dharam Singh (JC-165148F), 1st Aug 1991.
 Nb Sub Raghunathan (JC-165149K), 1st Aug 1991.
 Nb Sub Om Parkash (JC-165150Y), 1st Aug 1991.
 Nb Sub Rattan Singh (JC-165151F), 1st Aug 1991.
 Nb Sub Awadh Narayan Singh (JC-165152K), 1st Aug 1991.
 Nb Sub Shivanappa Alagawadi (JC-165154P), 1st Aug 1991.
 Nb Sub Parmanand Rai (JC-165156A), 1st Aug 1991.
 Nb Sub Parashu Ram Tiwary (JC-165158I), 1st Aug 1991.
 Nb Sub Ajmer Singh (JC-165159N), 1st Sep 1991.
 Nb Sub Braj Mohan Choudhary (JC-165160H), 1st Sep 1991.
 Nb Sub Biju Nath Jha (JC-165161L), 1st Sep 1991.
 Nb Sub Ronki Ram (JC-165163W), 1st Sep 1991.
 Nb Sub Dhan Singh SM (JC-165167M), 1st Sep 1991.
 Nb Sub Kesar Singh (JC-165168P), 1st Sep 1991.
 Nb Sub Nand Kumar (JC-165170M), 1st Sep 1991.
 Nb Sub Prithivi Singh (JC-165172X), 1st Sep 1991.
 Nb Sub Om Perakash (JC-165173A), 1st Oct 1991.
 Nb Sub Tarsem Singh (JC-165175L), 1st Oct 1991.
 Nb Sub Partap Singh (JC-165178Y), 1st Oct 1991.
 Nb Sub Kelambeth Divakaran (JC-165179F), 1st Oct 1991.
 Nb Sub Rudra Nath Mishra (JC-165181Y), 1st Oct 1991.
 Nb Sub Sadhu Ram (JC-165182F), 1st Oct 1991.
 Nb Sub Raghubir Singh (JC-165183K), 1st Oct 1991.
 Nb Sub Ram Karan Bhardwaj (JC-165184M), 1st Oct 1991.
 Nb Sub Pan Singh Rautela (JC-165185P), 1st Oct 1991.
 Nb Sub Ram Swaroop (JC-165186X), 1st Oct 1991.
 Nb Sub Gurmit Singh (JC-165187A), 1st Oct 1991.
 Nb Sub Ram Deo Singh Yadav (JC-165189I), 1st Nov 1991.
 Nb Sub Jambulingam Nagalingam (JC-165190A), 1st Nov 1991.
 Nb Sub Sita Ram (JC-165191H), 1st Nov 1991.
 Nb Sub Adarsh Kumar (JC-165192L), 1st Nov 1991.
 Nb Sub Shyam Sundar Sharma (JC-165193N), 1st Nov 1991.
 Nb Sub Balister Singh Tyagi (JC-165195Y), 1st Nov 1991.
 Nb Sub Surya Mani Pandey (JC-165197K), 1st Nov 1991.
 Nb Sub Pritam Singh Gandhi (JC-165198M), 1st Nov 1991.

Nb Sub Saheb Rao Tukaram Avhale (JC-165211L), 1st Nov 1991.

Nb Sub Nafe Singh (JC-165212N), 1st Nov 1991.

Nb Sub Dhyan Singh Negi (JC-165214Y), 1st Nov 1991.

Nb Sub Hanuman Singh (JC-165217M), 1st Nov 1991.

Nb Sub Kaushal Kumar Singh (JC-166338A), 1st Nov 1991.

Nb Sub Dev Raj Sharma (JC-166339H), 1st Nov 1991.

Nb Sub Amar Singh (JC-166340X), 1st Nov 1991.

Nb Sub Hari Ram (JC-166341A), 1st Dec 1991.

Nb Sub Govindan Viswanathan (JC-166343L), 1st Dec 1991.

Nb Sub Bishnu Kumar Rai (JC-166344N), 1st Dec 1991.

Nb Sub Jaspal Singh (JC-166345W), 1st Dec 1991.

Nb Sub Kanhaiya Seth (JC-166346Y), 1st Dec 1991.

Nb Sub Munshi Lal (JC-166347F), 1st Dec 1991.

Nb Sub Chaitnya Paramanik (JC-166348K), 1st Dec 1991.

Nb Sub Rattan Chand (JC-166349M), 1st Dec 1991.

Nb Sub Deo Datt Sharma (JC-166351K), 1st Dec 1991.

Nb Sub Brij Lal Parmar (JC-166355A), 1st Dec 1991.

Nb Sub Nager Singh (JC-166363Y), 1st Dec 1991.

Nb Sub Krishna Samy Gurusamy (JC-166369A), 1st Dec 1991.

Nb Sub Mast Ram (JC-166370P), 1st Dec 1991.

Nb Sub Sahab Singh (JC-166371X), 1st Dec 1991.

Nb Sub Narain Chand Sharma (JC-165766M), 1st Dec 1991.

Nb Sub Chand Ram Jumbagi (JC-166374L), 1st Dec 1991.

G. D. NANGAL, Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 84, dated 21st January 1992.—The Pre-ident is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Corps of Military Police

To be Naib Subedar

Hav Diwan Singh (No. 7765939X now JC-210110M), 20th May 1991.*

Hav Jasbir Singh (No. 7766066K now JC-210111P), 10th May 1991.*

Hav Dalbir Singh (No. 7766116K now JC-210112X), 27th Mar 1991.*

Hav Rama Krishna Muniyandi (No. 7766199A now JC-210113A), 2nd May 1991.*

Hav Radhe Shyam (No. 7766852H now JC-210114H), 2nd May 1991.*

Hav Milap Chand (No. 7766924F now JC-210115I), 27th Apr 1991.*

Hav Kailash Dan (No. 7766459A now JC-210116N), 3rd May 1991.*

Hav Jainail Singh (No. 7767076A now JC-210117W), 17th May 1991.*

Hav Raj Mani (No. 2964498P now JC-210118Y), 3rd May 1991.*

Hav Inder Singh (No. 3966588A now JC-210119F), 27th Mar 1991.*

Hav Raj Kumar (No. 7766245K now JC-210120W), 1st May 1991.*

Hav Suraj Bhan (No. 7766135P now JC-210121Y), 2nd May 1991.*

Hav Baldev Singh (No. 7767491F now JC-210122F), 1st Apr 1991.

Hav Prabhū Ram (No. 7767499N now JC-210123K), 1st May 1991.

Hav Krishnan Anchanapuzha (No. 7767513P now JC-210124M), 1st May 1991.

Hav Ratti Ram (No. 1245555Y now JC-210125P), 1st May 1991.

Hav Hari Nath Singh (No. 7767282K now JC-210126X), 1st May 1991.

Hav Suryawanshi Aoudumbar (No. 7766374K now JC-210127A), 1st May 1991.

Hav Baghawan Ram (No. 7766461X now JC-210128H), 1st May 1991.

Hav Edathum Kandial Mohanan Nambiar (No. 7766546N now JC-210129L), 1st May 1991.

Hav Baleshwar Thakur (No. 7766838W now JC-210120A), 1st May 1991.

Hav Murkute Shri Hari (No. 7767466H now JC-210131H), 1st May 1991.

Hav Prem Singh Rawat (No. 7767416L now JC-210132L), 1st May 1991.

*(Granted seniority with effect from 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

@ (Granted seniority with effect from 1st Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Singh Negi (No. 8019197N now JC-210133N), 1st May 1991.

Hav Prithvi Singh (No. 8020221L now JC-210134W), 1st May 1991.

Hav Bala Ram Singha (No. 8020351N now JC-210135Y), 1st May 1991.

Hav Vijay Pratap Singh (No. 7765967K now JC-210136F), 1st May 1991.

Hav Basudeb Singha (No. 7766945H now JC-210137K), 1st May 1991.

Hav Tej Pal Singh (No. 7767470L now JC-210138M), 1st May 1991.

Hav Gurnam Singh (No. 7767390N now JC-210139P), 1st May 1991.

Hav Nand Kumar Pathak (No. 7766644N now JC-210140K), 1st May 1991.

Hav Gama Prasad Yadav (No. 7767481X now JC-21041-M), 16th June 1991.£

Hav Laln Prasad (No. 7766290W now JC-210142P), 31st May 1991.

£ (Granted seniority with effect from 1st May 1991 without effect on pay and allowances).

Infantry

The Mechanised Infantry Regiment

To be Substantive Subedar Major

Sub Balwant Singh (JC-127228P), 01st Jun 1991.

Sub Kirit Kumar Pandya (JC-120426X), 01st Jun 1991.

To be Substantive Subedar

Nb Sub Gabar Singh (JC-168722A), 01st Feb 1991.

Nb Sub Kuldip Singh Rawat (JC-168723H), 01st Feb 1991.

Nb Sub Narinder Singh (JC-151540W), 01st Mar 1991.

Nb Sub Mohinder Singh (JC-151541Y), 01st Apr 1991.

Nb Sub Chiranjee Lal (JC-140630X), 01st May 1991.

Nb Sub Khilap Singh Rawat (JC-168725N), 01st Jun 1991.

Nb Sub Gurdip Singh (JC-151548H), 01st Jan 1991.

Nb Sub Jant Singh (JC-154916X), 01st Jan 1991.

Nb Sub Balwinder Singh (JC-154924W), 01st Jan 1991.

Nb Sub Shangara Singh (JC-168731F), 01st Jan 1991.

Nb Sub Goverdhan Ram (JC-157210N), 01st May 1991.

Nb Sub Kishori Lal (JC-164918W), 29th Jun 1991.

Nb Sub Yudhbir Singh (JC-167128M), 01st Jul 1991.

To be Substantive Subedar Clerk

Nb Sub Ck Ramjit Singh (JC-141155A), 01st June 1991.

To be Substantive Subedar

Nb Sub Padam Parsad Gurung (JC-157222H), 01st Dec 1990.

Nb Sub Purna Prasad Gurung (JC-157223L), 19th Jan 1991.

Nb Sub Chhabi Lal Rana (JC-166845X), 01st Feb 1991.

Nb Sub Sher Jang Rana (JC-160846A), 01st Feb 1991.

Nb Sub Ram Singh Gurung (JC-160847H), 01st Feb 1991.

Nb Sub Basanta Bahadur Thapa (JC-160848L), 01st Mar 1991.

Nb Sub Shur Singh (JC-170327L), 01st Jul 1991.

Nb Sub Nar Singh (JC-157214K), 01st Mar 1991.

Nb Sub Arjan Singh (JC-157215M), 01st Jun 1991.

Nb Sub Parkash Chand (JC-157216P), 01st Jun 1991.

Nb Sub Hardeo Singh (JC-140632H), 01st Jul 1991.

Nb Sub Ram Milan Pandey (JC-164479W), 01st Jul 1991.

To be Substantive Subedar Major Clerk

Subedar Clerk Rameshwar Dayal (JC-105825K), 01st August 1991.

To be Substantive Subedar Major

Sub Sangey Tamang (JC-101256K), 01st Jul 1991.

Sub Padam Singh (JC-101927H), 01st Jul 1991.

Sub Sher Bahadur Thapa (JC-105908P), 01st Jul 1991.

Sub Desh Raj Singh (JC-116439X), 01st Jul 1991.

Sub Umed Singh (JC-115937X), 01st Aug 1991.

To be Substantive Subedar Clerk

Nb Sub Ck Kailash Chand Randev (JC-141456H), 01st Aug 1991.

Nb Sub Ck Gurcharan Kumar Sharma (JC-143519Y), 01st Aug 1991.

Nb Sub Ck Banshi Dhar Sirawata (JC-143522Y), 01st Aug 1991.

To be Substantive Subedar

Nb Sub Bhanudas Sarant (JC-154905L), 20th Jul 1991.

Nb Sub Chavan Sarjeto Shankar (JC-154906N), 20th Jul 1991.

Nb Sub Bhoite Rangarao Ganapati (JC-152364W), 01st Aug 1991.

Nb Sub Balkrishna Akoba Bhosale (JC-158967H), 18th Aug 1991.

Nb Sub Mohan Singh (JC-145304Y), 01st May 1990.

Nb Sub Kulwant Singh (JC-142892M), 01st Sep 1990.

Nb Sub Mohan Singh (JC-144824X), 01st Dec 1990.

Nb Sub Bharat Singh (JC-151094A), 01st Dec 1990.

Nb Sub Trilok Singh (JC-157768H), 01st Jan 1991.

Nb Sub Manbar Singh (JC-174054L), 20th Apr 1991.

Nb Sub Mohinder Singh (JC-157769L), 23rd Apr 1991.

Nb Sub Ram Phul (JC-174055N), 23rd Apr 1991.

Nb Sub Hanuman Singh (JC-157221A), 01st Jun 1991.

Nb Sub Bhim Bahadur Thapa (JC-174056W), 15th Jun 1991.

Nb Sub Gahar Singh (JC-147287H), 01st Jul 1991.

Nb Sub Chandra Singh (JC-157771H), 01st Jul 1991.

To be Substantive Subedar Major

Sub Narayanan (JC-116442X), 01st Sep 1991.

Sub Narayan Singh (JC-126510N), 01st Oct 1991.

To be Substantive Subedar Clerk

Nb Sub Ck Ghamanda Ram (JC-144535H), 01st September 1991.

Nb Sub Ck Gopal Datt Neolia (JC-144539Y), 01st October 1991.

Nb Sub Ck Sushil Kumar (JC-144540N), 01st October 1991.

Nb Sub Ck Rohtas Singh Chauhan (JC-154929P), 01st October 1991.

To be Substantive Subedar

Nb Sub Rup Singh (JC-144962P), 01st Jul 1991.

Nb Sub Parkash Chand (JC-174057X), 19th Jul 1991.

Nb Sub Chandran K (JC-174058F), 21st Aug 1991.

Nb Sub Raghubir Singh (JC-175859P), 01st Sep 1991.

Nb Sub Buti Ram (JC-177493P), 01st Oct 1991.

The Punjab Regiment

To be Nb Sub

Hav Tarlok Singh (No. 24645391 Now JC-212815X), 01 Aug 90.

Hav Jarnail Singh (No. 2466415P Now JC-212816A), 14 Jan 91.

(Granted ante date of seniority wef 20 Sep 90 without effect on pay and allowances).

Hav Sukhdev Singh (No. 2466160A Now JC-212817H), 17 Oct 90.

Hav Sulig Ram (No. 2464437P Now JC-212818L), 18 Oct 90.

Hav Janak Chand (No. 2465321L Now JC-212819N), 18 Oct 90.

Hav Darshan Singh (No. 2465965L Now JC-212820H), 09 Jan 91.

(Granted ante date of seniority wef 01 Nov 90 without effect on pay and allowances).

Hav Sunder Lal (No. 2463143P Now JC-212821L), 26 Nov 90.

Hav Dewan Chand (No. 2465224N Now JC-212822N), 26 Nov 90.

Hav Purn Chandra Rana (No. 2464567X Now JC-212823W), 01 Dec 90.

Hav Naunihal Singh Bhullar (No. 2464425A Now JC-212824Y), 06 Jan 91.

(Granted ante date of seniority wef 01 Dec 90 without effect on pay and allowances).

Hav Krishan Kumar Barwal (No. 2464515F Now JC-212825F), 10 Jan 91.

(Granted ante date of seniority wef 01 Dec 90 without effect on pay and allowances).

Hav Man Singh (No. 2463376W Now JC-212826K), 01 Dec 90.

Hav Gurcharan Singh (No. 2466196Y Now JC-212827M), 01 Dec 90.

Hav Bihari Lal (No. 2463985A Now JC-212828P), 01 Dec 90.

Hav Lakha Singh (No. 2465875K Now JC-212829X), 03 Dec 90.

Hav Jagdish Singh (No. 2467220W Now JC-212830M), 03 Dec 90.

Hav Manjit Singh (No. 2467482M Now JC-212831P), 03 Dec 90.

Hav Gopi Nand Verma (No. 2464753N Now JC-212832X), 16 Dec 90.

Hav Bidhi Singh (No. 2460368M Now JC-212833A), 27 Jan 91.

(Granted ante date of seniority of 01 Jan 91 without effect on pay and allowances).

Hav Nasib Singh (No. 2466889W Now JC-212834H), 01 Jan 91.

Hav Birbal (No. 2458156H Now JC-212835L), 01 Jan 91.

Hav Tarlochan Singh (No. 2464452K Now JC-212836N), 11 Jan 91.

(Granted ante date of seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay and allowances).

Hav Harbhajan Singh (No. 2464993W Now JC-212837W), 01 Jan 91.

Hav Sowaran Singh (No. 2464467M Now JC-212838Y), 01 Jan 91.

Hav Parkash Singh (No. 2465109N Now JC-212839F), 01 Jan 91.

Hav Nandha Ram (No. 2457737N Now JC-212840W), 01 Feb 91.

Hav Balkar Singh (No. 13857398A Now JC-212841Y), 01 Feb 91.

To be Nb Sub (Clerks)

Hav Clk Kishan Chand Goswami (No. 2459882K Now JC-212842F), 01 Jan 91.

Hav Clk Mewa Singh (No. 2459881F Now JC-212843K), 01 Jan 91.

Hav Clk Parkash Chand Sharma (No. 2459960W Now JC-212844M), 01 Jan 91.

Hav Clk Roshan Singh (No. 2460278L Now JC-212845P), 01 Feb 91.

Hav Clk Surinder Nath Sharma (No. 2460409L Now JC-212846X), 01 Feb 91.

Hav Clk Ram Dayal Singh (No. 2460627K Now JC-212847-A), 01 Feb 91.

Hav Clk Parmodh Singh (No. 2460644K Now JC-212848-H), 01 Feb 91.

Hav Clk Parkash Chand (No. 2460657F Now JC-212849-L), 01 Feb 91.

Hav Clk Balvir Singh (No. 2460838M Now JC-212850A), 01 Mar 91.

Hav Clk Jagdev Singh (No. 2460855M Now JC-212851H), 01 Mar 91.

Hav Clk Kulwant Singh (No. 2460875A Now JC-212852-L), 01 Mar 91.

To be Nb Sub (Bandsmen)

Hav Bdsn Babu Singh (No. 2463555P Now JC-212853N), 22 Nov 90.

The Madras Regiment

To be Nb Sub

Hav Prabhakara Rao (No. 2574655W now JC-212854W), 19th Jan 1991.

Hav Chandran K. (No. 2576899H now JC-212855Y), 1st Mar 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Suraj Bhan (No. 2867629I now JC-212856F), 1st Feb 1991.

The Marathi LI

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Sagar Janardhan Sadashiva (No. 2765683L now JC-212857K), 1st Feb 1991.

Hav Clk Pol Adhikrao Jagannath (No. 2765714A now JC-212858M), 04th Mar 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 1st Mar 1991 without effect on Pay and allowances).

Hav Clk Patil Hindurao Bhiva (No. 2766008L now JC-212859P), 1st Mar 1991.

To be Nb Sub

Hav Bhagwan (No. 2766601K now JC-212860K), 1st Jan 1991.

Hav Ramdas Laxman Atole (No. 2771952H now JC-212861M), 1st Jan 1991.

Hav Patil Pradeepkumar Subrao (No. 2771195Y now JC-212862P), 1st Jan 1991.

Hav Kumar Ayare Manaji Atmanam (No. 2771660A now JC-212863X), 14th Feb 1991.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Jan 1991 without effect on Pay and allowances).

Hav Vijay Appaso Suryawanshi (No. 2772287X now JC-212864A), 1st Jan 1991.

Hav Dagadu More (No. 2763786L now JC-212865H), 16th Jan 1991.

Hav Pandurang Dnyanu More (No. 2772618N now JC-212866L), 16th Jan 1991.

Hav Raghunath Subbarao Sawant (No. 2772678H now JC-212867N), 16th Jan 1991.

Hav Suresh (No. 2774111L now JC-212868W), 16th Jan 1991.

Hav Fakcerappa Managutti (No. 2772822M JC-212869Y), 16th Jan 1991.

Hav Waman Sonu Ghanekar (No. 2763815P now JC-212870N), 6th Feb 1991.

Hav Karale Sambaji Dnondi (No. 2767624X now JC-212871W), 6th Feb 1991.

The Parachute Regiment

To be Nb Sub

Hav Anand Singh (No. 13608534X Now JC-212872Y), 1st Apr 1990.

THM Devi Singh (No. 13603071N Now JC-212873F), 1st May 1990.

Hav Ram Ugrah Yadav (No. 13606729K Now JC-212874-K), 1st Jun 1990.

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Amar Singh (No. 13606584K Now JC-212875-M), 1st Aug 1990.

The Raj Rif

To be Nb Sub

Hav Shokat Ali (No. 2869046F JC-212876P), 1st Sep 1990.

Hav Gyan Singh (No. 2867857N now JC-212877X), 9th Nov 1990.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Oct 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Raghu Nath Prasad Mahla (No. 2865162M now JC-212878A), 13th Jan 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Singh (No. 2871055F now JC-212879H), 1st Feb 1991.

Hav Wajid Ali (No. 2869006A now JC-212880X), 1st Feb 1991.

Hav Shamshad Ali (No. 2869215X now JC-212881A), 1st Feb 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Gulwant Rai (No. 2863716H now JC-212882H), 18th Jan 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 1st Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Mahabir Singh (No. 2863769A now JC-212883L), 1st Jan 1991.

Hav Clk Ajit Kumar Sharma (No. 2863895M now JC-212884N), 1st Jan 1991.

Hav Clk Bishamber Singh Shishodia (No. 2863876F now JC-212885W), 1st Jan 1991.

Hav Clk Dal Chand Sharma (No. 2863929P now JC-212886Y), 1st Jan 1991.

Hav Clk Bharat Singh (No. 2863372N now JC-212887F), 1st Jan 1991.

Hav Clk Burender Singh Jangu (No. 2864106F now JC-212888K), 1st Jan 1991.

Hav Clk Tejpal Singh (No. 2864353P now JC-212889M), 1st Feb 1991.

Hav Clk Bhanwar Singh (No. 2864358N now JC-212890F), 1st Feb 1991.

The Sikh Regiment

To be Nb Sub

Hav Amoliak Singh (3375474K now JC-212891K), 2nd Oct 90.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Oct 90 without effect on pay and allowances).

CHM Rajinder Singh (3373244X now JC-212892M), 15th Nov 90.

Hav Gursharan Singh (3370149A now JC-212893P), 24th Nov 90.

Hav Slinder Singh (3372000X now JC-212894X), 1st Dec 90.

Hav Surinder Singh (3370684A now JC-212895A), 1st Jan 91.

Hav Angrej Singh (3371700Y now JC-212896H), 1st Jan 91.

Hav Balkar Singh (3371810N now JC-212897L), 1st Jan 91.

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Santokh Singh (3369997M now JC-212898), 1st Feb 91.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 1st Jan 91 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Dilbag Singh (3370521M now JC-212899W), 1st Mar 91.

Hav Clk Sukhwant Singh (3370523X now JC-212900A), 1st Mar 91.

The Garhwal Rifles

To be Nb Sub

Hav Abal Singh (No. 4048553M Now JC-212901H), 7th Dec 1990.

Hav Shiv Kumar (No. 4052130W Now JC-212902L), 1st Jan 1991.

Hav Keshwa Nand (No. 4051770N Now JC-212903N), 1st Jan 1991.

Hav Lakhi Ram Bhatt (No. 4051222W Now JC-212904W), 1st Jan 1991.

Hav Trilok Singh (No. 4052313M Now JC-212905Y), 1st Jan 1991.

Hav Badar Singh (No. 4052115F Now JC-212906F), 1st Jan 1991.

Hav Basakh Singh (No. 4052789Y Now JC-212907K), 1st Jan 1991.

Hav Damodhar Prasad Joshi (No. 4055941M Now JC-212908M), 1st Jan 1991.

Hav Bijay Singh (No. 4054233M Now JC-212909P), 1st Jan 1991.

Hav Satish Chander (No. 4052369Y Now JC-212910K), 10th Jan 1991.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Santokh Raj (No. 13733330L Now JC-212911M), 15th Jan 1991.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Pan Singh (No. 4053108X Now JC-212912P), 25th Feb 1991.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Sita Ram (No. 13734644Y Now JC-212913X), 2nd Jan 1991.

Hav Hukam Singh (No. 4052808Y Now JC-212914A), 18th Feb 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 5th Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Neta Jaxubai Singh (No. 4053976K Now JC-212915-11), 1st Feb 1991.

Hav Kunwar Singh Rawat (No. 4054463F Now JC-212916L), 1st Feb 1991.

Hav Randhir Singh Chaudhri (No. 4050931Y Now JC-212917N), 1st Feb 1991.

Hav Mohan Singh Kandari (No. 4054549A Now JC-212918W), 1st Feb 1991.

Hav Jai Prakash Naithani (No. 4054097H Now JC-212919Y), 1st Feb 1991.

Hav Jagdish Prasad (No. 4057244L Now JC-212920N), 1st Feb 1991.

The Kumaon Regiment

To be Nb Sub

Hav Ramai Yadav (No. 4170055P now JC-212921W), 10th Oct 1990.

CHM Raghuvir Singh (No. 4160688P now JC-212922Y), 23rd Nov 1990.*

*(Granted ante date seniority wef 28 Oct 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Bhuvan Singh (No. 4163408F now JC-212923F), 1st Jan 1991.£

£(Granted ante date seniority wef 30 Nov 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Khim Singh Rawat (No. 4163216K now JC-212924-K), 20th Feb 1991.£

£(Granted ante date seniority wef 01 Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Nathu Ram (No. 4166496N now JC-212925M), 1st Sep 1990.

Hav Umed Singh (No. 4164190M now JC-212926P), 30th Nov 1990.

Hav Puran Singh (No. 4164771K now JC-212927X), 30th Nov 1990.

Hav Chander Singh (No. 4169058A now JC-212928A), 1st Dec 1990.

Hav Nandan Singh (No. 4163995W now JC-212929II), 1st Dec 1990.

Hav Himmat Singh Rawal (No. 4168160M now JC-212930X), 1st Dec 1990.

Hav Jaman Singh (No. 4164638F now JC-212931A), 1st Dec 1990.

Hav Anup Singh (No. 4166128Y now JC-212932H), 1st Dec 1990.

Hav Khushal Singh (No. 4165996Y now JC-212933L), 1st Dec 1990.

Hav Bahadur Singh (No. 4167412F now JC-212934N), 16th Dec 1990.*

*(Granted ante date seniority wef 01 Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Pramod Kumar (No. 4166453Y now JC-212935W), 1st Dec 1990.

Hav Raghbir Singh (No. 4168194A now JC-212936Y), 2nd Jan 1991.£

£(Granted ante date seniority wef 01 Dec 1990 without effect on pay and allowances).

CHM Bachi Ram (No. 4164565A now JC-212937F), 1st Jan 1991.

Hav Balwant Singh (No. 4167035W now JC-212938K), 1st Jan 1991.

Hav Maha Singh (No. 4167230N now JC-212939M), 20th Jan 1991.@

@(Granted ante date seniority wef 01 Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Dhanpal Singh (No. 4168042Y now JC-212940F), 6th Jan 1991.&

&(Granted ante date seniority wef 01 Jan 1991 without effect on pay and allowances).

The Jat Regt

To be Nb Sub

Hav Kartar Singh (No. 3167363N now JC-212941K), 1st Sep 1990.

Hav Mange Ram (No. 3160562Y now JC-212942M), 1st Sep 1990.

Hav Shri Ram (No. 3160678P now JC-212943P), 1st Sep 1990.

Hav Bharat Singh (No. 3162062A now JC-212944X), 1st Sep 1990.

Hav Mahavir Singh (No. 3162504N now JC-212945A), 1st Nov 1990.

Hav Sajjan Singh (No. 3163325A now JC-212946H), 1st Dec 1990.

Hav Suraj Mal (No. 3162419L now JC-212947L), 11th Dec 1990.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Subh Ram (No. 3160710Y now JC-212948N), 1st Jan 1991.

The Bihar Regt

To be Naib Subedar

Hav Laxkhana Murmu (No. 4254714K now JC-212949-W), 25th November 1990.

CHM Sadananda Rout (No. 4256802Y Now JC-212950L), 25th November 1990.

Hav Silas Topno (No. 4253743M Now JC-212951N), 10th March 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 91 without effect on pay and allowances).

Hav Albinus Lakra (No. 4253508N Now JC-212952W), 15th February 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 91 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Ram Pujan Pandey (No. 4250942P Now JC-212953Y), 1st December 1990.

Hav (Clk) Kamal Narain Thakur (No. 4251043A Now JC-212954F), 1st January 1991.

Hav (Clk) Shri Chand (No. 2968330Y Now JC-212955-K), 1st January 1991.

Hav (Clk) Rangadhar Jena (No. 4251057A Now JC-212956M), 1st February 1991.

Hav (Clk) Sawna Hassa (No. 4250980L Now JC-212957-P), 1st February 1991.

Hav (Clk) Nanda Lal Kundu (No. 4251067K Now JC-212958X), 1st February 1991.

Hav (Clk) Uma Kanta Behura (No. 4251058H Now JC-212959A), 1st February 1991.

Hav (Clk) Miliyanus Tigga (No. 4249473L Now JC-212960P), 1st February 1991.

Hav (Clk) Gulab Jha (No. 4251062L Now JC-212961X), 7th February 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 91 without effect on pay and allowances).

CHM Damburdhar Mahali (No. 4255689H Now JC-212962A), 17th July 1990.

Hav Ram Swarth Thakur (No. 4248082N Now JC-212963H), 24th August 1990.

Hav Elesius Kujur (No. 4255139A Now JC-212964L), 24th October 1990.

Hav Dharam Deo Singh (No. 4249588Y Now JC-212965-N), 01st December 1990.

Hav Nirmal Khalkho (No. 4253807M Now JC-212966-W), 01st December 1990.

CHM Bishwa Nath Majhi (No. 4248729W Now JC-212967Y), 01st January 1991.

CHM Lal Mohan Manjhi (No. 4252706M Now JC-212968F), 01st January 1991.

Hav Ram Deo Singh (No. 4248905H N. 01st February 1991.

CHM Shri Krisan Singh (No. 4248961F Now JC-212970-Y), 01st February 1991.

CHM Pramod Kumar Singh Ghayal (No. 4249245H Now JC-212971F), 01st February 1991.

The Mahar Regiment

To be Nb Sub

Hav Jagtar Singh (No. 4544287K now JC-212972K), 01 Dec 90.

Hav/Clk Ram Phal Singh Boora (No. 9212604H now JC-212973M), 01 Feb 91.

Hav Bhim Dutt (No. 9214983H now JC-212974P), 01 Mar 91.

Hav Gaikwad Hanamant Ram Chandra (No. 4545835H now JC-212975X), 01 Apr 91.

INFANTRY

JAK RIF

To be Naib Subedar Clerk(GD)

Hav Clk Sampuran Singh Kalmotia (13733271K Now JC-212976A), 1st Feb 1991.

Hav Clk Om Parkash Chilyal (13733343H Now JC-212977H), 1st Feb 1991.

To be Naib Subedar (GD)

Hav Lal Singh (13735746F Now JC-212978L), 1st Oct 1990.

Hav Hoshier Singh (13733385P Now JC-212979N), 1st Dec 1990.

Hav Braham Dass Thakur (13734635X Now JC-12980-H), 1st Dec 1990.

Hav Rajinder Singh Rana (13734706N Now JC-212981-L), 12th Dec 1990.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Kallash Chand (13731350A Now JC-212982N), 1st Jan 1991.

Hav Bir Singh (13731610A Now JC-212983W), 1st Jan 1991.

Hav Mast Ram (13731788W Now JC-212984Y), 1st Jan 1991.

Hav Kuldip Singh (13732102W Now JC-212985F), 1st Jan 1991.

Hav Sham Lal Sharma (13732109A Now JC-212986K), 1st Jan 1991.

Hav Onkar Singh (13732178W Now JC-212987M), 1st Jan 1991.

Hav Gurcharan Singh (13732533H Now JC-212988P), 1st Jan 1991.

Hav Wishan Dass (13732579L Now JC-212989X), 1st Jan 1991.

Hav Asa Ram (13733038W Now JC-212990M), 1st Jan 1991.

Hav Resham Chand (13733400Y Now JC-212991P), 1st Jan 1991.

Hav Lachhman Das (13733402K Now JC-212992X), 1st Jan 1991.

Hav Hukam Chand (13733685W Now JC-212993A), 1st Jan 1991.

Hav Dev Raj (13733740F Now JC-212994H), 1st Jan 1991.

Hav Baldev Singh (13733751N Now JC-212995L), 1st Jan 1991.

Hav Prabhat Singh (13733851Y Now JC-212996N), 1st Jan 1991.

Hav Swarn Singh (13734004P Now JC-212997W), 1st Jan 1991.

Hav Sewa Dass (13734056L Now JC-212998Y), 1st Jan 1991.

Hav Malkir Singh (13734212K Now JC-212999F), 1st Jan 1991.

Hav Harbans Lal (13734267N Now JC-213000H), 1st Jan 1991.

Hav Rattan Lal (13734279H Now JC-213001L), 9th Jan 1991.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Lal Singh (13734281A Now JC-213002N), 1st Jan 1991.

Hav Amria Ram (13734307K Now JC-213003W), 1st Jan 1991.

Hav Ramesh Kumar (13734413H Now JC-213004Y), 1st Jan 1991.

Hav Kuldip Kumar Sharma (13734428L Now JC-213005-F), 1st Jan 1991.

Hav Ashok Kumar (13735266X Now JC-213006K), 1st Jan 1991.

Hav Vijay Singh (13735510M Now JC-213007M), 1st Jan 1991.

Hav Kali Dass (13735597Y Now JC-213008P), 1st Jan 1991.

Hav Ravinder Singh (13737029M Now JC-213009X), 1st Jan 1991.

Hav Vijay Kumar (13734364L Now JC-213010M), 6th Jan 1991.

INFANTRY

JAK LI

To be Naib Subedars

Hav Chagar Mal (No. 9077054P Now JC-213011P), wef 14 Dec 90.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Oct 90).

Hav Surjit Singh (No. 9078370A Now JC-213012X), wef 10 Feb 91.**

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Nov 90).

11 GR

To be Nb Sub

Hav Sanehaman Rai (9413392Y now JC-213013A), 04 Jan 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances w.e.f. 01 Dec 1990).

Hav Dilip Subba (9413508K now JC-213014H), 01 Dec 1990.

Hav Khem Bahadur Gurung (9413523Y now JC-213015-L), 14 Jan 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances w.e.f. 01 Dec 1990).

Hav Nima Tamang 9412527H now JC-213016N), 01 Jan 1991.

Hav Gyan Bahadur Rai (9412889K now JC-213017W), 01 Jan 1991.

Hav Man Bahadur Phaudar (9413716Y now JC-213018Y), 01 Jan 1991.

Hav Dal Bahadur Rai (9413443F now JC-213019F), 22 Mar 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances w.e.f. 01 Jan 1991).

Hav Dhan Bahadur Gurung (9413872H now JC-213020-W), 01 Jan 1991.

Hav Biraj Kumar Subba (9414197N now JC-213021Y), 02 Feb 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 91).

Hav Kishor Kumar Rai (9413422L now JC-213022F), 01 Jan 1991.

Hav Pradeep Kumar Subba (9414495K now JC-213023-K), 22 Feb 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances w.e.f. 01 Jan 1991).

Hav Ram Limbu (9414472H now JC-213024M), 01 Jan 1991.

Hav Suka Deb Rai (9414689M now JC-213025P), 20 Feb 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances w.e.f. 01 Jan 1991).

3 GR

To be Nb Sub

Hav Kishor Jung Chhatri (524J251X now JC-213026X), 1st Nov 1990.

Hav Lek Bahadur Thapa (524I253H now JC-213027A), 26th Nov 1990.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Nov 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Prem Bahadur Gurung (5240791K now JC-213028-H), 1st Nov 1990.

Hav Dhan Bahadur Thapa (5240539I. now JC-213029I.), 1st Dec 1990.

Hav Chutra Bahadur Rana (5240306K now JC-213030-A), 15th Dec 1990.

To be Nb Sub(Clk)

Hav(Clk) Swaran Kumar Jaggi (5240087N now JC-213031H), 9th Jan 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Sep 1990 without effect on pay and allowances).

Hav(Clk) Debasish Acharya (5241152F now JC-213032-L), 1st Jan 1991.

8 GR

To be Nb Sub(GD)

Hav Naresh Kumar Gurung (No. 5746459M now JC-213033N), 27 Dec 1990.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Lok Bahadur Pun (No. 5746506Y now JC-213034W), 11th Dec 1990.

Hav Bal Bahadur Rana (No. 5744743K now JC-213035-Y), 1st Jan 1991.

Hav Hira Bahadur Thapa (No. 5746934K now JC-213036-F), 15th Jan 1991.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Ek Bahadur Gurung (No. 5744970K now JC-213037-K), 1st Jan 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav(Clk) C G Prabhakaran Nair (No. 5745757W now JC-213038M), 1st Feb 1991.

5 GR(FF)

To be Nb Sub

Hav Pur Bahadur Gurung (No. 5444560P now JC-213039-P), 1st Jan 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Nov 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Shamsher Bahadur Thapa (No. 5443912P now JC-213040K), 1st Dec 1990.

Hav Dal Bahadur Chhetri (No. 5445665I. now JC-213041-M), 19th Feb 1991.**

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Him Bahadur Thapa (No. 5443703X now JC-213042-P), 1st Feb 1991.

Hav Hamendra Dewan (No. 5445330N now JC-213043-X), 1st Feb 1991.

Hav Jiwan Kumar Tamang (No. 5445464M now JC-213044A), 19th Feb 1991.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Bishnu Paisad Rana (No. 5443847A now JC-213045-H), 20th Oct 1990.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 15th Sep 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Dal Bahadur Pun (No. 5444301M now JC-213046-L), 17th Mar 1991.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Tek Bahadur Thapa (No. 5444309Y now JC-213047-N), 1st Dec 1990.

Hav Tuk Bahadur Ale (No. 5443642F now JC-213048W), 1st Jan 1991.

Hav Lekh Bahadur Thapa (No. 5443712Y now JC-213049Y), 1st Feb 1991.

Hav Dhan Bahadur Gurung (No. 5444335A now JC-213050N), 1st Feb 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav(Clk) Chandra Bhan Pasi (No. 5443754L now JC-213051W), 13th Feb 1991%.

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub(Clk) w.e.f. 1st Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Special List

The Rajput Regt

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Krishan Gopal Sharma (JC-212466Y), 13th Apr 1991.

Ashwani Kumar Sharma (JC-212467F), 13th Apr 1991.

The Naga Regiment

To be Nb Sub Religious Teacher (Padre)

John Livingstone (JC-212468K), 13th Apr 1991.

The Kumaon Regiment

To be Nb Sub Religious Teacher (Pandit)

Laxmi Datt Bhatt (JC-212469M), 22nd June 1991.

The Mahar Regiment

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Bharat Kumar (now JC-212470F), 22 June 1991.

JAK Rif

To be Nb Sub [Religious Teacher (Granthi)]

Gurmeet Singh (JC-212471K), 13th Apr 1991.

1 GR

To be Nb Sub (Religious Teacher)

Nb Sub (Religious Teacher) Kanwar Singh (No. 5346878-W now JC-212472M), 22nd June 1991.

The Grenadiers

To be Sub Maj (Religious Teacher)

Sub (RT) Kiteswar Nath Upadhyia (JC-33544P), 01 Jan 1991.

To be Sub (Religious Teacher)

Nb Sub(RT) Sadanand Sharma (JC-72548F), 01 Jan 1991.

Nb Sub(RT) Ghanshyam Sharma Vedpathi (JC-73856N), 01 Jan 1991.

Nb Sub (RT) Kewal Ram Bhatt (JC-76915A), 01 Jan 1991.

Nb Sub(RT) Murari Lal Sharma (JC-76347A), 01 Jan 1991.

The Raj Rif

To be Sub (Religious Teacher)

Nb Sub Pandit Bhanwar Lal Dadhich (JC-76545L), 01 Jan 1991

Nb Sub Pandit Kunj Lal Sharma (JC-77727L), 01 Jan 1991.

Infantry

The Rajput Regiment

To be Sub (RT)

Nb Sub (RT) Indu Nath Dwivedi (JC-74719F), 1st Jan 1991.

The Jat Regt

To be Sub (Religious Teacher)

Nb Sub (Religious Teacher) Ram Chander (JC-73064N), 1st Jan 1991.

Nb Sub (Religious Teacher) Som Datt Sharma (JC-75880H), 1st Jan 1991.

The Sikh I.I

To be Subedar (Religious Teacher)

Nb Sub (RT) Virsa Singh (JC-77729W), 1st Jan 1991.

Nb Sub (RT) Jagrup Singh (JC-72162F), 1st Jan 1991.

The Dogra Regt

To be Sub Maj (Religious Teacher)

Sub (RT) Harnam Dass Sharma (JC-36046N), 1st Jan 1991.

The Garhwal Rifles

To be Sub Maj (Religious Teacher)

Sub (RT) Deen Dayal Joshi (JC-35860M), 1st Jan 1991.

The Assam Regiment

To be Sub Maj (Religious Teacher)

Sub (Padre) L. Kungliana (JC-32970W), 01st Jan 1991.

Sub (Pandit) Tek Raj Sharma Gautam Sharma (JC-37040Y), 01st Jan 1991.

To be Subedar (Religious Teacher)

Nb Sub (Padre) J. Rouro Hmar (JC-62502L), 01st Jan 1991.

Nb Sub (Pandit) Bhola Nath Sharma Gautam (JC-74879F), 01st Jan 1991.

The Bihar Regt

To be Sub Maj (RT)

Sub (RT) Umesh Mishra (JC-35047K), 01st Jan 1991.

To be Sub (RT)

Nb/Sub (RT) Prafulla Chandra Thakur (JC-78061K), 01st Jan 1991.

The Mahar Regiment

To be Sub (Religious Teacher)

Nb Sub RT (Granthi) Arjan Singh (JC-66169P), 01 Jan 1991.

Nb Sub RT (Pandit) Jagdish Narayan Sharma (JC-73847-M), 01 Jan 1991.

Nb Sub RT (Pandit) Narmada Prasad Mishra (JC-73848-P), 01 Jan 1991.

Nb Sub RT (Pandit) Gajraj Upadhya (JC-74479P), 01 Jan 1991.

Nb Sub RT (Pandit) Dharam Nath Thakur (JC-79208-F), 01 Jan 1991.

Nb Sub RT (Granthi) Hardip Singh (JC-84861Y) 01 Jan 1991.

JAK I.I

To be Sub (Religious Teacher)

Nb Sub (RT) Om Parkash (JC-193625N), w.e.f. 01 Jan 1991

11 GR

To be Subedar Major (Religious Teacher)

Sub Chinta Mani Sharma (JC-39775F), 01st Jan 1991.

To be Subedar (Religious Teacher)

Nb Sub Keshav Prasad Upadhya (JC-76348H), 01st Jan 1991.

Special List

1 GR

To be Sub (Religious Teacher)

Nb Sub Umakant Sharma Ghimire (JC-76547W), 1st Jan 1991.

Infantry

The Parachute Regiment

To be Nb Sub

Hav Anand Singh (No. 13608534X now JC-212473P), 1st Apr 1990.

T H M Devi Singh (No. 13608071N now JC-212474X), 1st May 1990.

Hav Ram Ugrah Yadav (No. 13606729K now JC-212475-A), 1st Jun 1990.

To be Nb Sub (Clk)

Hav(ClK) Amar Singh (No. 13606584K now JC-212476-H), 1st Aug 1990.

The Punjab Regiment

To be Nb Sub

Hav Hardial Singh (No. 2460732A now JC-212477L), 06 Feb 1991.

(Granted ante date of seniority w.e.f. 01 Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Kuldeep Singh (No. 2467433K now JC-212478N), 02 May 1991.

(Granted ante date of seniority w.e.f. 01 Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Amrik Singh (No. 13858052H now JC-212479W), 01 Mar 1991.

Hav Jaspal Singh (No. 2462615N now JC-212480L), 01 Mar 1991.

Hav Kuldeep Singh (No. 2464857P now JC-212481N), 29 May 1991.

(Granted ante date of seniority w.e.f. 01 Mar 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Mohinder Singh (No. 2466332K now JC-212482W), 01 Mar 1991.

Hav Gurnam Singh (No. 2462392F now JC-212483Y), 01 Apr 1991.

Hav Tarsem Singh (No. 2462401X now JC-212484F), 01 Apr 1991.

Hav Mani Ram Bhagoti (No. 2461926P now JC-212485-K), 09 Apr 1991.

Hav Jarnail Singh (No. 2468352W now JC-212486M), 07 May 1991.

Hav Krishan Kumar (No. 2468368F now JC-212487P), 21 May 1991.

Hav Mala Singh Rai Sikh (No. 13850782Y now JC-212488X), 21 May 1991.

Hav Pashminder Singh (No. 2462353H now JC-212489-A), 01 Jun 1991.

Hav Jagat Singh (No. 2460894L now JC-212490P), 01 Jun 1991.

Hav Harminder Singh (No. 2464671L now JC-212491X), 01 Jun 1991.

The Madras Regiment

To be Nb Sub

Hav Williams P (No. 2572863M now JC-212492A), 15th Apr 1991.

Hav Krishne Gowda (No. 2575185H now JC-212493H), 28th June 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st June 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Surendran Nair G (No. 2574962N now JC-212494L), 1st June 1991.

Hav Raveendran PV (No. 2578671L now JC-212495N), 9th June 1991.

Hav S Rajamoorthy (No. 2575591H now JC-212496W), 1st Feb 1991.

Hav Madhavan A (No. 2571949Y now JC-212497Y), 1st Mar 1991.

Hav P Pandidhurai (No. 2573851K now JC-212498F), 1st Mar 1991.

Hav R Krishnamoorthy (No. 2575188W now JC-212499-K), 11th Apr 1991.

Hav Kumaran (No. 8019894N now JC-212500N), 13th May 1991.

Hav M G Nalluveerappan (No. 2576072M now JC-212501W), 13th May 1991.

Hav Lakshmanan Sethu (No. 2571254W now JC-212502-Y), 13th May 1991.

Hav K Sasidran (No. 2576106P now JC-212503F), 13th May 1991.

Hav S R Pandi (No. 2576241H now JC-212504K), 13th May 1991.

Hav Ramchandra Hanumant (No. 14521775X now JC-212505M), 13th May 1991.

Hav Mahadev Ningappa Tigadi (No. 2576712L now JC-212506P), 13th May 1991.

Hav Ravunni I (No. 2576932P now JC-212507X), 13th May 1991.

Hav Shankareppa Gudagappa Navar (No. 2577594P now JC-212508A), 13th May 1991.

Hav A Chandralah Naidu (No. 2575628F now JC-212509-H), 1st June 1991.

Hav Govindaraju R (No. 2575355F now JC-212510X), 1st June 1991.

To be Nb Sub(Clk)

Hav(Clk) N Thiagarajan (No. 6648439Y now JC-212511-A), 13th May 1991.

Hav(Clk) Joginder Singh (No. 6648483H now JC-212512-H), 12th June 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st June 1991 without effect on pay and allowances).

Hav(Clk) Andhale Bhau Saheb Babu Rao (No. 6648487-Y now JC-212513L), 1st July 1991.

Hav(Clk) Raghuveer Singh Ranawat (No. 6648488F now JC-212514N), 1st July 1991.

To be Nb Sub

Hav Dasari Paidayya (No. 2569226L now JC-212515-W), 20th Sep 1990.

Hav K Anthony (No. 2575621P now JC-212516Y), 26th May 1991.

Hav K Arunachalam (No. 2576673X now JC-212517F), 26th May 1991.

Hav Pavithran N (No. 2578836Y now JC-212518K), 26th May 1991.

Hav M Kulandai (No. 2577174P now JC-212519M), 26th May 1991.

15—464 GI/91

Hav Gopinathan Nair KR (No. 2575981L now JC-212520F), 26th May 1991.

To be Nb Sub(Clk)

Hav(Clk) Joginder Singh (No. 6648489K now JC-212521K), 1st Aug 1991.

The Grenadiers

To be Nb Sub

Hav Balraj Singh (No. 2666126K now JC-212522M), 1st Feb 1990.

Hav Meh Ram Jat (No. 2663211F now JC-212523P), 1st Feb 1991.

Hav Phul Singh (No. 2663330X now JC-212524X), 1st Feb 1991.

Hav Faqir Chand (No. 2663123L now JC-212525A), 17th Feb 1991.

Hav Hira Lal Singh Yadav (No. 2661473Y now JC-212526H), 1st Apr 1991.

Hav Rewail Singh (No. 2664337M now JC-212527L), 12th Apr 1991.

Hav Duli Chand (No. 2661158H now JC-212528N), 25th Apr 1991.

Hav Ram Chander (No. 2663628F now JC-212529W), 1st May 1991.

Hav Hanuman Singh (No. 2664981A now JC-212530L), 1st May 1991.

Hav Raj Kumar Singh Tanwar (No. 2665065L now JC-212531N), 1st Jun 1991.

Hav Bajrang Singh (No. 2665386H now JC-212532W), 1st Jul 1991.

Hav Surat Singh (No. 2665383P now JC-212533Y), 2nd Jul 1991.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Jul 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Jaipal (No. 2665371A now JC-212534F), 10th Jul 1991.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st Jul 1991 without effect on pay and allowances).

THE MARATHA LI

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Samuel Verghese (No. 2765862L now JC-212535-K), 1st Mar 91.

Hav Clk Salunkhe Chandrakant Sarjerao (No. 2766046F now JC-212536M) 1st Mar 91.

To be Nb Sub

Hav Manamode Satyappa Balkrishna (No. 2768561M now JC-212537P), 16th Dec 1990.

Hav Dhaktu Dhonde Akhade (No. 2769005H now JC-212538X), 16th Dec 1990.

Hav Ashok Patil (No. 2769159P now JC-212539A), 16th Dec 1990.

Hav Chavan Ramchandra Ganpat (No. 13857660X now JC-212540P), 16th Dec 1990.

Hav Jadhav Sadashiv Dattu (No. 2769587N now JC-212541X), 16th Dec 1990.

Hav Jallinder Ramchandra Bhogade (No. 2769487H now JC-212542A), 16th Dec 1990.

Hav Sadashiv Kamate (No. 2777472L now JC-212543H), 16th Dec 1990.

Hav Itape Shivaji Rangnath (No. 2772187M now JC-212544L), 16th Dec 1990.

Hav Babu Dagadu Jadhav (No. 2772519L now JC-212545 N), 16th Dec 1990.

Hav Kisan Jairam Sonune (No. 2767637P now JC-212546 W), 17th Feb 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Jun 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Deshmukh Shrimant Dnyandeo (No. 2769333W now JC-212547Y), 1st Jun 1991.

Hav Mane Kamlakar Ram (No. 2774114Y now JC-212548 F), 9th Mar 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 16th Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Salunkhe Prakash Ramchandra (No. 2771908Y now JC-212549K), 7th Mar 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 16th Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Vijendra Singh (No. 3166996P now JC-212550Y), 6th Feb 1991.

Hav Nagappa Chapaganvi (No. 2774030L now JC-212551 F), 6th Feb 1991.

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Thilakan VM (No. 2766809M now JC-212552K), 1st July 1991.

To be Nb Sub

Hav Randive Narayan Ramu (No. 2766383W now JC-212553M), 1st Jan 1991.

Hav Appasaheb Kotwal (No. 2770157W now JC-212554 P), 1st Mar 1991.

Hav Vijay Laxman Jambhalekar (No. 2774904N now JC-212555X), 1st Mar 1991.

Hav Majeed KA (No. 2773443H now JC-212556A), 1st Mar 1991.

Hav Patil Suryakant Balaram (No. 2769318F now JC-212557H), 1st May 1991.

Hav Bhosale Madhukar Sopan (No. 2764966A now JC-212558L), 3rd July 1991.*

Hav Ananda Subrao Jadhav (No. 2767474M now JC-212559N), 1st July 1991.

Hav Kolate Pandurang Narayan (No. 2764006F now JC-212560H), 15th July 1991.

Hav Patil Shankar Bharamu (No. 2767546L now JC-212561L), 15th July 1991.

Hav Purushottam Deshpande (No. 2767004F now JC-212562N), 15th July 1991.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19th June 1991 without effect on pay and allowances).

The Raj Rif

To be Nb Sub

Hav Mansa Ram (No. 2868953P now JC-212563W), 22nd Jan 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 21st Nov 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Ashok Pal Singh (No. 2869860M now JC-212564Y), 5th Jan 1991.

Hav Sher Singh (No. 2869888M now JC-212565F), 7th Jan 1991.

Hav Malkhan Singh (No. 2866514L now JC-212566K), 6th Feb 1991.

Hav Ram Kishan (No. 2868335K now JC-212567K), 1st Mar 1991.

Hav Nihal Singh (No. 2871447P now JC-212568P), 4th Mar 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Bal Ram Singh (No. 2868288X now JC-212569X), 26th Apr 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20th Mar 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Shri Ram Jat (No. 2867164W now JC-212570M), 13th Apr 1991.

Hav Bhanwar Singh (No. 2867858W now JC-212571P), 12th July 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 2nd June 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Zile Singh (No. 2866936W now JC-212572X), 20th June 1991.

Hav Dilbag Singh (No. 283267L now JC-212573A), 1st July 1991.

Hav Dharm Pal (No. 2869596K now JC-212574H), 1st Aug 1991.

Hav Girwar Singh Shekhawat (No. 2871018N now JC-212575L), 1st Aug 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Krishna Bhagwan Sharma (No. 2864202W now JC-212576N), 28th Apr 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Sultan Singh Jat (No. 2862974P now JC-212577 W), 1st July 1991.

Hav Clk Havaladar Singh (No. 2865070A now JC-212578 Y), 1st July 1991.

Hav Clk Ramesh Chand Sharma (No. 2865440P now JC-212579F), 1st July 1991.

To be Nb Sub

Hav Mahendra Singh (No. 2869450W now JC-212580W), 1st May 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Sakhbir Singh (No. 2866501N now JC-212581Y), 1st Dec 1990.

Hav Jaipal Singh (No. 2863505Y now JC-212582F), 28th Dec 1990.

Hav Ram Phal Singh Sahu (No. 2869836W now JC-212583 K), 4th June 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28th Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Jagat Singh (No. 2866065 F now JC-212584M), 1st Jan 1991.

Hav Tulsi Ram (No. 2868238M now JC-212585P), 1st Feb 1991.

Hav Charan Singh Udai Singh (No. 2871678L now JC-212586X), 26th May 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Chander Bhan (No. 2871833F now JC-212587A), 1st May 1991.

Hav Pratap Singh (No. 2867276W now JC-212588H), 6th May 1991.

Hav Sumer Singh Rathor (No. 2869412A now JC-212589 L), 10th May 1991.

Hav Hari Singh (No. 2864208X now JC-212590A), 18th May 1991.

Hav Hardutt Singh (No. 2864047A now JC-212591H), 1st June 1991.

The Rajput Regiment

To be Nb Sub

Hav Ram Niwas (No. 2972822W now JC-212592L), 1st Jan 1991.

Hav Ram Singh (No. 2965922Y now JC-212593N), 9th Jan 1991.

Hav Lila Dhar (No. 2967169K now JC-212594W), 4th Mar 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Dharam Pal (No. 2973244Y now JC-212595Y), 26th Jan 1991.

Hav Mahabir Singh (No. 2966561X now JC-212596F), 1st Feb 1991.

Hav Sarda Ram (No. 2972210Y now JC-212597K), 1st Feb 1991.

Hav Mahesh Chandra Dubey (No. 2972034M now JC-212598M), 1st Feb 1991.

Hav Raj Kumar (No. 2970276W now JC-212599P), 1st Mar 1991.

Hav Kailash Singh (No. 2964175M now JC-212600Y), 1st June 1991.

Hav Suraj Dev Singh (No. 2963442W now JC-212601F), 1st July 1991.

Hav Anand Singh (No. 2968849W now JC-212602K), 1st July 1991.

Hav Mool Singh (No. 2971376N now JC-212603M), 1st July 1991.

Hav Dinesh Pal Singh (No. 2969125L now JC-212604P), 1st Apr 1991.

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Dharm Nath Tripathi (No. 2971621L now JC-212605X), 27th June 1991.*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 June 91 without effect on pay and allowances).

The Jat Regt

To be Nb Sub

Hav Mansa Ram (No. 3162609X now JC-212606A), 1st Oct 1990.

Hav Subhash Chandra (No. 3162661A no wJC-212607H), 1st Oct 1990.

Hav Kashi Ram Saharan (No. 3162665W now JC-212608L), 26th Nov 1990.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Oct 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Mohar Singh (No. 3163401F now JC-212609N), 1st Mar 1991.*

*(Granted notional seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Oct 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Jawahar Singh (No. 3163620H now JC-212610H), 7th Nov 1990.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Oct 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Prithvi Singh (No. 3164499H now JC-212611L), 1st Oct 1990.

Hav Bhoj Raj Singh (No. 3164502F now JC-212612N), 10th May 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Nov 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Sahab Singh (No. 3164375X now JC-212613W), 1st Nov 1990.

Hav Rukambir Singh (No. 3159976 Y now JC-212614Y), 17th Apr 1991.

Hav Raghubir Singh (No. 3164055H now JC-212615F), 17th May 1991.

Hav Hoshar Singh (No. 3164691W now JC-212616K), 1st June 1991.

Hav Rameshwar Singh Kulhari (No. 3164294X now JC-212617M), 24th June 1991.

Hav Sube Singh (No. 3163613M now JC-212618P), 1st July 1991.

The Sikh Regiment

To be Nb Sub

CHM Tirath Singh (3369850W now JC-212619X), 1st Jan 91.

CHM Jagir Singh (3373247L now JC-212620M), 30th Jan 91.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 91 without effect on pay and allowances).

CHM Harjinder Singh (3373343A now JC-212621P), 1st Feb 91.

Hav Didar Singh (3372906H now JC-212622X), 1st Mar 91.

CHM Baldev Singh (3370727K now JC-212623A), 6th Mar 91.

Hav Sunder Singh (3372479X now JC-212624H), 3rd Apr 91.

Hav Makhan Singh (3376049L now JC-212625L), 3rd Apr 91.

Hav Gurbachan Singh (3375835X now JC-212626N), 3rd Apr 91.

Hav Harbhajan Singh (3367916H now JC-212627W), 1st Mar 91.

Hav Kashmir Singh (3371904L now JC-212628Y), 1st Apr 91.

CHM Gurnam Singh (3372942N now JC-212629F), 7th Apr 91.

Hav Nirwair Singh (3372338H now JC-212630W), 21st Apr 91.

Hav Gurmej Singh (3370997Y now JC-212631Y), 1st May 91.

Hav Balbir Singh (3370425X now JC-212632F), 28th Jun 91.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jun 91 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Diljit Singh (3370838F now JC-212633K), 1st Aug 91.

To be Nb Sub

Hav Surjit Singh (3374415L now JC-212634M), 3rd Apr 91.

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Surjit Singh (3370497F now JC-212635P), 1st May 91.

Hav Clk Ramesh Chand (3370576W now JC-212636X), 1st Jul 91.

Hav Clk Balkar Singh (3370765A now JC-212637A), 1st Jul 91.

Hav Clk Kewal Singh (3370197A now JC-212638H), 1st Aug 91.

The Sikh LI

To be Nb Sub(GD)

Hav Darshan Singh (No. 4454794W now JC-212639L), 28th Oct 1990.

Hav Surjit Singh (No. 4455544F now JC-212640A), 28th Oct 1990.

Hav Pritam Singh (No. 4452818W now JC-212641H), 1st Jan 1991.

Hav Surinder Singh (No. 4452485P now JC-212642L), 1st Jan 1991.

Hav Jagir Singh (No. 4453744Y now JC-212643N), 21st Jan 1991.

Hav Mangal Singh (No. 4452020P now JC-212644W), 1st Mar 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub(GD) with effect from 1st Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Balbir Singh (No. 4454117Y now JC-212645Y), 6th Jul 1991.&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub(GD) with effect from 12th May 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Bahadur Singh (No. 4453522K now JC-212646F), 16th Jul 1991.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub(GD) with effect from 20th May 1991 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub(Clk) (GD)

Hav(Clk) Nachhattar Singh (No. 4452279L now JC-212647K), 1st Jun 1991.

Hav(Clk) Jit Singh (No. 4452661F now JC-212648M), 1st Jul 1991.

Hav(Clk) Joginder Singh (No. 4449978L now JC-212649-P), 17th Jul 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub(Clk) (GD) with effect from 1st May 1991 without effect on pay and allowances).

Infantry

The Dogra Regiment

To be Naib Subedars

Hav Balwant Singh, VSM (No. 3969902Y now JC-212650-K), 1st Jan 1991.

Hav Ramesh Chand (No. 3968746N now JC-212651M), 24th Mar 1991.

Hav Om Prakash (No. 3968447P now JC-212652P), 24th Mar 1991.

Hav Puran Chand (No. 3970885W now JC-212653X), 30th Mar 1991.

Hav Jagdish Kumar (No. 3971629N now JC-212654A), 30th Mar 1991.

Hav Ramesh Chand (No. 3968794N now JC-212655H), 1st May 1991.

Hav Kanhya Lal Verma (No. 3972492L now JC-212656-L), 1st May 1991.

Hav Hukam Chand (No. 3967312F now JC-212657N), 12th May 1991.

Hav Bishan Dass (No. 3964668K now JC-212658W), 1st Aug 1991.

Hav Harbans Lal (No. 3970382L now JC-212659X), 6th May 1991.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 09 Apr 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Sansar Chand (No. 3971598Y now JC-212660N), 1st July 1991.

To be Nb Sub Clk

Hav/Clk Jaswant Singh Rana (No. 3970656L now JC-212661W), 1st Aug 1991.

The Garhwal Rifles

To be Nb Sub

Hav Surendar Prasad Gaur (No. 4051990X) now JC-212662Y), 06th July 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1st June 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Kedar Singh Chaudhri (No. 4051840F now JC-212663F), 10th June 1991.

Hav Dhan Singh (No. 4051423P now JC-212664K), 17th June 1991.

Hav Surendra Prasad Sharma (No. 4054823M now JC-212665M), 17th June 1991.

The Kumaon Regt

To be Nb Sub

Hav Girish Chandra Upreti (No. 4166209Y now JC-212666-P), 26th June 1991.*

*(Granted ante date seniority w.e.f. 01 Mar 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Rameshwar Dayal (No. 4163162N now JC-212667-X), 14 Nov 1990.

Hav Dalip Singh (No. 4171923H now JC-212668A), 01 Jan 1991.

Hav Anand Mohan Pandey (No. 4171264Y now JC-212669H), 01 Jan 1991.

Hav Harash Singh, SM (No. 4169498K now JC-212670X), 07 Jan 1991.

Hav Tej Singh Bora (No. 4170514H now JC-212671A), 01 Feb 1991.

Hav Madan Singh (No. 4166868N now JC-212672H), 01 Mar 1991.

Hav Birju Mohan (No. 4170263K now JC-212673L), 17 Mar 1991.*

*(Granted ante date seniority w.e.f. 01 Mar 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Jai Singh (No. 4166221A now JC-212674N), 01 Mar 1991.

CHM Raj Kishor Ram (No. 4160279F now JC-212675W), 22 May 1991.*

*(Granted ante date seniority w.e.f. 19 May 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Shiotaj Singh (No. 4163985N now JC-212676Y), 10 June 1991.

Hav Balbir Singh (No. 4163805A now JC-212677F), 01 July 1991.

Hav Balbir Singh (No. 4163839N now JC-212678K), 01 July 1991.

Hav Boshiar Singh (No. 4169382N now JC-212679M), 01 July 1991.

Hav Munshi Ram Yadava (No. 4167588M now JC-212680F), 01 July 1991.

Hav Chandgi Ram (No. 4163986W now JC-212681K), 01 July 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Prem Singh (No. 4162725W now JC-212682M), 1st July 1991.

Hav Clk Raghu Bir Singh (No. 4162759K now JC-212683P), 1st July 1991.

Hav Clk Hukum Singh Dana (No. 4162911M now JC-212684X), 1st July 1991.

The Naga Regiment

To be Nb Sub

Hav N Lohrii Mao (No. 14700895M now JC-212685A), 29 May 1991.

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Uday Narayan Singh (No. 4162130Y now JC-212686H), 04 Apr 1991.

The Kumaon Regiment

To be Nb Sub

Hav Ram Singh Rawat (No. 4167551L now JC-212687L), 13th Apr 1991.

Hav Bhagwan Singh (No. 4166212Y now JC-212688N), 23rd Apr 1991.

CHM Maha Singh (No. 4165015K now JC-212689W), 1st Aug 1991.

CHM Sher Singh (No. 4165832H now JC-212690L), 2nd Aug 1991.*

*(Granted ante date seniority wef 01 Aug 91 without effect on pay and allowances).

Hav Jagdish Parsad (No. 4160453H now JC-212691N), 1st Aug 1991.

Hav Kanwar Singh (No. 4167267P now JC-212692W), 30th Nov 1990.

Hav Gambhir Singh (No. 4169070X now JC-212693Y), 1st Dec 1990.

Hav Krishan Singh (No. 4168398M now JC-212694F), 1st Dec 1990.

Hav Dhyan Singh (No. 4168141F now JC-212695K), 1st Jan 1991.

Hav Janak Singh (No. 4166318L now JC-212696M), 1st Jan 1991.

Hav Prem Singh (No. 4167814Y now JC-212697P), 11th Jan 1991.

The Naga Regt

To be Nb Sub

CHM Khim Singh (No. 4161803W now JC-212698X), 1st May 1991.

The Kumaon Regiment

To be Nb Sub

Hav Dharambir Singh (No. 4167781Y now JC-212699A), 8th Jan 1991.

Hav Bhawan Singh (No. 4166878X now JC-212700K), 12th Mar 1991.

Hav Kharak Nath (No. 4167503L now JC-212701M), 12th Mar 1991.

Hav Tilog Singh (No. 4163580H now JC-212702P), 11th June 1991.

Hav Nem Singh (No. 4163807L now JC-212703X), 1st July 1991.

Hav Jai Ram Yadav (No. 4163916X now JC-212704A), 1st July 1991.

RPHM Madan Singh (No. 4161968P now JC-212705H), 1st Aug 1991.

Hav Maharwan Singh (No. 4164071W now JC-212706L), 15th Aug 1991.*

*(Granted ante date seniority wef 01 Aug 1991 without effect on pay and allowances).

CHM Kishen Singh (No. 4165430L now JC-212707N), 5th Aug 1991.*

*(Granted ante date seniority wef 01 Aug 1991 without effect on pay and allowances).

The Assam Regiment

To be Nb Sub

Hav Dayanidhi Swain (4349555H now JC-212708W), 17th May 90.

Hav Dil Bahadur Chettri (4348311H now JC-212709Y), 13th Nov 90.

Hav Jiblal Lamshal (4346655H now JC-212710N), 01st Dec 90.

Hav Hriemhoithang (4344345Y now JC-212711W), 01st Jan 91.

Hav Lalkholam (4347345K now JC-212712Y), 16th Jan 91.*

Hav Reveendran Vazhayil (2569802K now JC-212713F), 01st Jan 91.

Hav Nar Bahadur (4348120N now JC-212714K), 01st Jan 91.

Hav Siekkholal Gangte (4347816M now JC-212715M), 01st Jan 91.

Hav Dandeswar Rava (4348391L now JC-212716P), 03rd Feb 91.

Hav Chaba Angami (4346750P now JC-212717X), 03rd Feb 91.

Hav Atul Ch Barman (4349108Y now JC-212718A), 03rd Feb 91.

Hav Parshuram Kar (4349468P now JC-212719H), 03rd Feb 91.

Hav Lalpianmawia (4347675H now JC-212720X), 24th Mar 91.%

Hav Umesh Chandra Das (4348570L now JC-212721A), 16th Mar 91.

Hav K Kannan ((2575853N now JC-212722H), 01st Mar 91.

Hav Jiban Ch Rajkhowa (4348063X now JC-212723L), 16th Mar 91.

Hav Babu M. SM (13855286F now JC-212724N), 03rd Apr 91.@

Hav Tirthanath Sharma (4348881Y now JC-212725W), 01st May 91.

Hav Ranjit Kumar Das (4350139L now JC-212726Y), 01st Jun 91.

*(Granted ante-date seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 91).

%(Granted ante-date seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 91).

@(Granted ante-date seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Apr 91).

The Bihar Regt

To be Naib Subedar

Hav Banshi Yadav (No. 4253457L now JC-212727F), 01st January 1991.

Hav Shri Krishna Singh (No. 4250089W now JC-212728K), 04th June 1991.

To be Naib Subedar (Clerk)

Hav (Clk) Rajendra Ray (No. 4249067L now JC-212729M), 01st June 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 21 Oct 90 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Bishnu Pada Chakravarty (No. 4251068M now JC-212730F), 01st July 1991.

To be Naib Subedar

CHM Laxmi Mishra (No. 4255990Y now JC-212731K), 18th October 1990.

Hav Nawal Kishor Giri (No. 4251349H now JC-212732M), 22nd May 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 90 without effect on pay and allowances).

Hav Indrajit Bahadur Roy (No. 4251728Y now JC-212733P), 18th January 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 90 without effect on pay and allowances).

CHM Mahanta Kisku (No. 4253806K now JC-212734X), 1st January 1991.

CHM Shivdani Sharma (No. 4250411X now JC-212735A), 2nd January 1991.

Hav Om Prakash Rajbhar (No. 4250200P now JC-212736H), 2nd January 1991.

Hav Prem Singh Rawat (No. 4051689F now JC-212737L), 1st February 1991.

CHM Krishna Nand Singh (No. 4249493Y now JC-212738N), 1st February 1991.

Hav Sukairam Yadav (No. 4250569A now JC-212739N), 1st April 1991.

Hav Ghura Oraon (No. 4255483L now JC-212740L), 30th April 1991.

Hav Ram Karan Roy (No. 4252886A now JC-212741N), 1st June 1991.

Hav Bhisham Singh (No. 4254143W now JC-212742W), 1st June 1991.

Hav Mansidh Samad (No. 4251531H now JC-212743Y), 1st June 1991.

Hav Lalan Prasad (No. 4252415M now JC-212744F), 1st July 1991.

Hav Gore Lal Prasad Singh (No. 4252911N now JC-212745K), 1st July 1991.

CHM Birender Singh (No. 4249148L now JC-212746M), 1st July 1991.

Hav Lakshman Yadav (No. 4254614Y now JC-212747P), 5th July 1991.

CHM Rajeshwar Thakur (No. 4249847W now JC-212748X), 5th July 1991.

To be Naib Subedar (Clerk)

Hav (Clk) Ram Kumar Das (No. 4251955Y now JC-212749A), 01st August 1991.

Hav (Clk) Raj Narain Sharma (No. 4251972Y now JC-212750P), 01st August 1991.

Hav (Clk) Sardar Ranjit Singh (No. 4251997L now JC-212751X), 01st August 1991.

The Mahar Regiment

To be Nb Sub

Hav Payal Dnyandeo Kerba (No. 4544788K now JC-212752A), 01 Jul 91.

Hav Kengar Prabhu Santa (No. 4543282Y now JC-212753H), 01 Jul 91.

Hav Fance Tanaji Shrawan (No. 4544131M now JC-212754L), 01 Jul 91.

Hav Madhukar Pandurang Khandare (No. 4544894H now JC-212755N), 01 Jul 91.

Hav Pawar Gulab Ganpati (No. 4543577P now JC-212756W), 01 Jul 91.

Hav Nirmal Singh (No. 3378426P now JC-212757Y), 01 Jul 91.

Hav Nanavare Ramchandra Shankar (No. 4544190Y now JC-212758F), 01 Jul 91.

Hav Makhan Dass (No. 9215198Y now JC-212759K), 31 Jul 91.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 91 without effect on pay and allowances).

Hav Mohd Shrif (No. 9212710F now JC-212760Y), 25 Apr 91.

To be Nb Sub Clk

Hav Clk (GD) Bidhi Chand (No. 9212674F now JC-212761F), 20 Aug 91.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Jun 91 without effect on pay and allowances).

Hav Clk (GD) Narendra Prasad Rai (No. 9212712M now JC-212762K), 01 Aug 91.

JAK Rif

To be Naib Subedar Clerk (GD)

Hav Clk Dalbir Singh (13733494F Now JC-212763M), 4th May 1991.

Hav Clk Hazara Singh Jasrotia (13733642F Now JC-212764P), 1st Jul 1991.

Hav Clk Ramesh Chand (13733701H Now JC-212765X), 1st Jul 1991.

To be Naib Subedar Clerk (GD)

Hav Milap Chand (13735692L Now JC-212766A), 1st Jan 1991.

Hav Sat Paul Chambial (13733480F Now JC-212767H), 17 Mar 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1990 without effect on pay & allowances).

Hav Kamar Singh (13735500H Now JC-212768L), 29th Apr 1991.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1991 without effect on pay & allowances).

Hav Kushal Singh (13734663K Now JC-212769N), 1st Jun 1991.@

Hav Raj Kumar (13731970W Now JC-212770H), 24th Jun 1991.@

@(Granted seniority without effect on pay & allowances wef 24th Jan 1991).

Hav Baldev Singh (13733520X Now JC-212771L), 1st Jul 1991.

Hav Charanjit Singh (13733539W Now JC-212772N), 1st Jul 1991.

Hav Baldev Singh Dhadwal (13734069H Now JC-212773-W), 1st Jul 1991.

JAK LI

To be Naib Subedar

Hav Shankar Dass (No. 3968692Y Now JC-212774Y), wef 28 May 91.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 90).

Hav Sham Parshad (No. 9079595P Now JC-212775F), wef 12 Jun 91.**

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Jan 91).

Hav Sat Pal (No. 9080840Y now JC-212776K), wef 12 Jun 91.***

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Jan 91).

Hav Raghunath Singh (No. 9080671H Now JC-212777M), wef 12 Jun 91.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 91).

Hav Mohd Hanif (No. 9080803L Now JC-212778P), wef 12 Jun 91.@@

@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 91).

Hav Babu Ram (No. 9079615X Now JC-212779X), wef 01 Apr 91.

Hav Paras Ram (No. 3970125X Now JC-212780M), wef 07 Jan 91.

Hav Ramesh Lal (No. 2461179P Now JC-212781P), wef 13 Jul 91.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 91).

Hav Jagdev Singh (No. 3969079P Now JC-212782X), wef 13 Jul 91.**

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Jun 91).

11 GR

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Nand Ram (9412039A now JC-212783A), 16 Jun 91.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jun 91).

1 GR

To be Nb Sub

Hav Man Bahadur Rana (No. 5039323N Now JC-212784-H), 12th May 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances with effect from 1st Mar 1991).

Hav Dal Bahadur Thapa (No. 5039185X Now JC-212785-L), 21st June 1991.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances with effect from 11th Apr 1991).

Hav Dhan Bahadur Gurung (No. 5039223H Now JC-212786N), 4th July 1991.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances with effect from 11th Apr 1991).

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Ravinder Singh (No. 5039465L Now JC-212787-W), 1st Aug 1991.

Hav Clk Tarsem Singh (No. 5039611A Now JC-212788Y), 1st Aug 1991.

Hav Clk Ram Harsh (No. 5039719X Now JC-212789F), 1st Aug 1991.

4 GR

To be Nb Sub

Hav Chandra Bahadur Magar (No. 5340315A now JC-212790W), 13 Jul 1991.

3 GR

To be Nb Sub

Hav Hemanta Kumar Gurung (5241371W now JC-212791-Y), 29th Dec 1990.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 90 without effect on pay and allowances).

Hav Bhupal Sing Thapa (5240867Y now JC-212792F), 1st Jan 1991.

Hav Top Bahadur Thapa (5240905K now JC-212793K), 7th Jan 1991.

Hav Bhim Bahadur Thapa (5240708F now JC-212794M), 1st Jul 1991.

8 GR

To be Nb Sub (GD)

Hav Krishna Bahadur Thapa (No. 5744579M now JC-212795P), 1st Jul 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 90 without effect on pay and allowances).

Hav Ruk Bahadur Singjapati (No. 5745416L now JC-212796-X), 1st Jan 1991.

Hav Kehar Sing Dhenga (No. 5745422Y Now JC-212797-A), 1st Jan 1991.

Hav Khet Bahadur Bhalami (No. 5745433L now JC-212798-H), 17th Jan 1991.£

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Harka Bahadur Pun (No. 5745582Y now JC-212799-L), 1st Jan 1991.

Hav Hum Bahadur Thapa (No. 5745590X now JC-212800-P), 4th Feb 1991.&

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Jas Bahadur Gurung (No. 5746202F now JC-212801-X), 21st May 1991. @

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 27th Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Mangal Bahadur Gurung (No. 5746798M now JC-212802A), 1st Jul 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Hari Singh (No. 5745739N now JC-212803H), 1st Jul 1991.

5 GR (FF)

To be Nb Sub

Hav Suk Bahadur Gurung (No. 5444279M now JC-212804-L), 1st Jan 1991.

Hav Ram Prasad Gurung (No. 5444339W now JC-212805-N), 1st Jan 1991.

Hav Jag Bahadur Gurung (No. 5444465H now JC-212806-W), 1st Jan 1991.

Hav Man Mahadur Pun (No. 5443396L now JC-212807-Y), 1st Mar 1991.

Hav Hari Krishna Khattri (No. 5444154P now JC-212808-F), 1st May 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Rajinder Singh Thakur (No. 5443778P now JC-212809K), 1st Jun 1991.

To be Nb Sub

Hav Sum Bahadur Gurung (No. 5445470A now JC-212810-Y), 18th Apr 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Dhan Bahadur Gurung (No. 5445697N now JC-212811F), 1st Feb 1991.

Hav Pradip Gurung (No. 5445815W now JC-212812K), 1st Mar 1991.

Hav Chitra Bahadur Gurung (No. 5445765W now JC-212813M), 1st Mar 1991.

Hav Anand Bahadur Chand (No. 5445875L now JC-212814P), 1st Mar 1991.

Brigade of The Guards

To be Nb Sub

Hav Bal Bahadur Bhandari (No. 336668596F now JC-210866M), 11th July 1990.

Hav Ghasi Ram (No. 13666903P now JC-210867P), 01st Nov 1990.

Hav Mohan Singh (No. 13667707F now JC-210868X), 20th Nov 1990.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01st Nov 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Saty Pal (No. 13671148A now JC-210869A), 01st Dec 1990.

Hav Lakhmi Chand (No. 13667845K now JC-210870P), 01st Jan 1991.

Hav Sis Ram (No. 13667844A now JC-210871X), 05th Mar 1991.**

**(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 09 Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Raj Bir Singh (No. 13667879W now JC-210872A), 16th Jan 1991.

Hav Ram Partap Verma (No. 13850148W now JC-210873-H), 01st Feb 1991.

Hav Baldev Singh (No. 13668093W now JC-210874I), 01st Feb 1991.

Hav Gabar Singh (No. 13668649P now JC-210875N), 01st Mar 1991.

Hav Narayan Singh (No. 13669057X now JC-210876W), 01st Mar 1991.

Hav Hoshiar Singh (No. 13667071L now JC-210877Y), 01st Apr 1991.

Hav Babu Lal (No. 14291612H now JC-210878F), 01st Apr 1991.

The Parachute Regiment

To be Nb Sub

CHM Satvir Singh (No. 13610590A Now JC-210879K), 5th July 1990.

Hav Hem Raj Singh (No. 13610721P Now JC-210880Y), 1st Aug 1990.

Hav Pish Bahadur Thapa (No. 13609455P Now JC-210881-F), 21st Jan 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Sep 90 without effect on pay and allowances).

Hav Bhawani Singh (No. 13608059M Now JC-210882K), 17th Apr 1991.**

**(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 90 without effect on pay and allowances).

Hav Dhondi Ram Methe (No. 13610017Y Now JC-210883-M), 1st Nov 1990.

Hav Basti Ram Yadava (No. 13609813P Now JC-210884-P), 11th Nov 1990 .

Hav Bishan Das (No. 13609792K Now JC-210885X), 23rd Nov 1990.***

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Nov 90 without effect on pay and allowances).

Hav Devi Das Ram Chander Belkunde (No. 13609838F Now JC-210886A), 17th Nov 1990.

Hav Dalpat Singh Gurjar (No. 13608482M Now JC-210887-H), 24th Jan 1991.****

**** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 90 without effect on pay and allowances).

Hav Bhanwar Singh (No. 13609657W Now JC-210888L), 1st Dec 1990.

Hav Ramesh Chaudhary (No. 13610056X Now JC-210889-N), 1st Dec 1990.

CHM Laxmi Narain (No. 13610822H Now JC-210890H), 1st Dec 1990.

Hav Bhakti Prasad Pun (No. 13607323H Now JC-210891-L), 14th Mar 1991.*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 90 without effect on pay and allowances).

Hav Inderjit Singh (No. 13610833P Now JC-210892N), 1st Dec 1990.

Hav Sohan Singh (No 13608031M now 210893W) 14th Apr 1991.*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 90 without effect on pay and allowances).

Hav Birpal Singh (No 13608060F now JC-210894Y) 18th Jan 1991.*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 90 without effect on pay and allowances).

Hav Mahipal Singh (No 13609074N now JC-210895F) 5th May 1991.*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 90 without effect on pay and allowances).

Hav Badan Singh (No 13608813H now JC-210896K) 14th Dec 1990.

Hav Shinde Balu Maruti (No 13609295A now JC-210897M) 10th Jan 1991.*****

***** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14th Dec 90 without effect on pay and allowances).

CHM Phool Singh (No 13608440A now JC-210898P) 14th Dec 1990.

Hav Rajpal Singh (No 13608042Y now JC-210899X) 8th Mar 1991.@

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14th Dec 90 without effect on pay and allowances).

Hav Gopal Ram (No 13609023A now JC-210900F) 14th Dec 1990.

Hav Gajraj Singh (No 13608501M now JC-210901K) 24th Dec 1990.

Hav Tejpal Khatana (No 13608809A now JC-210902M) 1st Jan 1991.

Hav Ranbir Singh (No 13609758K now JC-210903P) 1st Jan 1991.

THM Parmodh Singh Chauhan (No 13610285H now JC-210904X) 1st Jan 1991.

Hav Amar Singh (No 13610138P now JC-210905A) 4th Mar 1991.@@@

@@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 91 without effect on pay and allowances.)

Hav Trilok Singh (No 13609022X now JC-210906H) 8th Jan 1991.@@@

@@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 91 without effect on pay and allowances.)

Hav Shyam Singh (No 13609032F now JC-210907L) 26th Feb 1991.@@@

@@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 91 without effect on pay and allowances.)

Hav Prakash Chandra Tewari (No 13606732K now JC-210908N) 4th Feb 1991. %

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 91 without effect on pay and allowances.)

Hav Guman Singh (No. 13610434I. now JC-210909W), 1st Jan 1991.

Hav Amarjit Singh (No 13607897P now JC-210910L) 1st Jan 1991.

Hav Hadi Bandhu Parida (No. 13608843A now JC-210911N), 27th Feb 1991. £

£ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 91 without effect on pay and allowances.)

Hav Kishan Singh (No 13609033K now JC-210912W) 1st Jan 1991.

Hav Pratap Ram (No 13609029F now JC-210913Y) 8th Apr 1991. £ £

£ £ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 91 without effect on pay and allowances.)

THM Balvinder Singh (No 13609782A now JC-210914F) 1st Jan 1991.

Hav Hari Singh (No 13609890K now JC-210915K) 1st Feb 1991.

Hav Ramvir Singh (No 13610350X now JC-210916M) 1st Feb 1991.

Hav Arjun Singh (No 13610557X now JC-210917P) 1st Feb 1991.

Hav Dharma Nand (No 13609051M now JC-210918X) 9th Feb 1991. £ £ £

£ £ £ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 91 without effect on pay and allowances.)

Hav Sadhu Ram (No 13608641Y now JC-210919A) 1st Mar 1991.

Hav Mahendra Singh (No 13609024H now JC-210920P) 1st Apr 1991

CHM Bajendra Singh (No 13608989N now JC-210921X) 1st Apr 1991

Hav Nirmal Singh (No 13610363P now JC-210922A) 1st Apr 1991

THM Sagar Singh (No 13608183N now JC-210923H) 1st May 1991.

The Punjab Regiment

To be Nb Sub

Hav Karam Chand (No 2464606L now JC-210924L) 01st Jan 91.

Hav Nirmal Singh (No 2465578W now JC-210925N) 01st Jan 91.

16—464GI 91

Hav Ram Saran (No 2459904X now JC-210926W) 28th Jan 91.

Hav Kewal Singh (No 2466635Y now JC-210927Y) 01st Feb 91.

Hav Sawaran Singh (No 13853169X now JC-210928F) 28th Feb 91.

Hav Devi Ram (No 2463054W now JC-210929K) 07th May 91.

(Granted ante date seniority wef 01 Mar 91)

Hav Karnail Singh (No 2467667N now JC-210930Y) 01st Mar 91.

Hav Karnail Singh (No 2466689A now JC-210931F) 12th Mar 91.

Hav Kishori Lal (No 2462598Y now JC-210932K) 19th Mar 91.

Hav Sukhdev Singh Bagotra (No 2461022P now JC-210933M) 27th Mar 91.

Hav Mulkh Raj (No 2461032Y now JC-210934P) 27th Mar 91.

Hav Ishwar Dass (No 2462862F now JC-210935X) 27th Mar 91.

Hav Parkash Chand (No 2461737L now JC-210936A) 27th Mar 91.

Hav Pritam Singh (No 2465131Y now JC-210937H) 01st Apr 91.

Hav Jagattar Singh (No 2461136A now JC-210938L) 10th Apr 91.

Hav Kali Dass (No 2463133L now JC-210939N) 10th Apr 91.

Hav Nain Singh (No 2463495M now JC-210940H) 12th Apr 91.

Hav Balwant Singh (No 2466094H now JC-210941L) 01st May 91.

Hav Balbir Singh (No 2463381F now JC-210942N) 01st May 91.

Hav Bramha Singh (No 2465503Y now JC-210943W) 01st May 91.

The Madras Regiment

To be Nb Sub

Hav Rajendra T (No. 2577355A now JC-210944Y), 14th Mar 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1991 without effect on pay and allowances.)

Hav Bijai Shankar Mishra (No 4249639F now JC-210945F), 23rd Mar 1991.

Hav BN Laxminarayana (No 2577708P now JC-210946K) 1st Apr 1991.

Hav Kamachi Murugan (No 2569110P now JC-210947M) 2nd Apr 1991.

Hav Hanumanthu Markandayudu (No 2574886M now JC-210948P) 2nd Apr 1991.

Hav MR Sasidharan Nair (No 2576134F now JC-210949X) 2nd Apr 1991.

Hav Moorthy A (No 2574702H now JC-210950M) 15th Apr 1991.

Hav Sekar N (No 2578754W now JC-210951P) 15th Apr 1991.

Hav Rajan NP (No 2579807W now JC-210952X) 15th Apr 1991.

Hav Gnana Sekharan D (No 2579085P now JC-210953A) 15th Apr 1991

Hav Rajan K (No 2580710X now JC-210954H) 15th Apr 1991.

Hav Anto KK (No 2581242P now JC-210955L) 15th Apr 1991.

The Grenadiers**To be Nb Sub**

Hav Mohender Singh (No. 2661270P now JC-210956N), 1st Dec 90.

Hav Sri Ram Singh (No. 2664050W now JC-210957W), 1st Jan 91.

Hav Jai Bhagwan (No. 2664507M now JC-210958Y), 10th Feb 91.

Hav Jagmal Singh (No. 2662285K now JC-210959F), 14th Feb 91.

Hav Chhaju Singh Tanwar (No. 2664980X now JC-210960W), 1st Mar 91.

Hav Bhawani Parshad (No. 2664107A now JC-210961Y), 17th Mar 91.

Hav Bunti Ram Janu (No. 2668031H now JC-210962F), 24th May 91.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 91 without effect on pay and allowances).

Hav Vijendra Singh (No. 2664939F now JC-210963K), 12th Jun 91.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Feb 91 without effect on pay and allowances).

Hav Shivdhani Singh (No. 2663803L now JC-210964M), 15th Jun 91.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 91 without effect on pay and allowances).

Hav Rajak Ali (No. 2662820Y now JC-210965P), 21st Jun 91.

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Narpal Singh (No. 2661766K now JC-210966X), 1st Feb 91.

To be Nb Sub

Hav Amar Bahadur Singh (No. 2666446Y now JC-210967A), 15 Dec 1990.

Hav Mangal Singh (No. 2666124Y now JC-210968H), 01 Jan 1991.

Hav Girdhari Singh (No. 2666148H now JC-210969L), 22 Jan 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 91 without effect on pay and allowances).

Hav Ajay Pal Singh (No. 2665885X now JC-210970A), 01 Dec 1990.

Hav Anop Khan (No. 2665636Y now JC-210971H), 31 Mar 1991.

Hav Jabar Singh (No. 2666029M now JC-210972L), 27th Nov 1990.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 22nd Nov 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Om Pal Singh (No. 2665580X now JC-210973N), 1st Mar 1991.

Hav Girdhari Singh Rathore (No. 2664933A now JC-210974W), 13th Mar 1991.

Hav Rajender Singh (No. 2665579H now JC-210975Y), 6th Apr 1991.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Parkash Chand Sounkhla (No. 2661763W now JC-210976F), 1st Feb 1991.

Hav/Clk Rattan Chand Chandel (No. 2661925W now JC-210977K), 1st Feb 1991.

Hav/Clk Umed Singh (No. 2659939X now JC-210978M), 1st Apr 1991.

Hav/Clk Kuldip Singh (No. 2662603H now JC-210979P), 1st May 1991.

Hav/Clk Prem Lal (No. 2662607Y now JC-210980K), 1st May 1991.

The Maratha LI**To be Nb Sub Clk**

Hav Clk Bhaskar (No. 2766140L now JC-210981M), 1st Apr 1991.

Hav Clk Jambhale Rajaram Sakharam (No. 2766150P now JC-210982P), 1st Apr 1991.

Hav Clk Gundgal Kaluram Nivrutti (No. 2766192F now JC-210983X), 1st Apr 1991.

Hav Clk Chavan Krishnaji Ganpat (No. 2766655L now JC-210984A), 9th Apr 1991*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 1st Apr 1991 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub

Hav Ambre Vijaykumar Jayram (No. 2768989Y now JC-210985H), 5th May 1991*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Dec 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Dhongade Udhav (No. 2769639Y now JC-210986L), 5th May 1991*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Dec 1989 without effect on pay and allowances).

Hav Mali Ramdas Dagadu (No. 2771340L now JC-210987N), 7th Apr 1991*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Nov 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Bhosale Arun Dhondabarao (No. 2767527A now JC-210988W), 24th Apr 1991*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Burate Aba Ananta (No. 2766932L now JC-210989Y), 1st Jan 1991.

Hav Mahadev Shankar Mohite (No. 2770831P now JC-210990N), 1st Jan 1991.

Hav Balbir Singh (No. 3165531H now JC-210991W), 6th May 1991*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Yadav Jeevan Balkrishna (No. 2770806W now JC-210992Y), 1st Jan 1991.

Hav Birajdar Shrimant Gundaji (No. 2771905L now JC-210993F), 1st Jan 1991.

Hav Samshoddin Nannu Pinjari (No. 13857360P now JC-210994K), 1st Mar 1991.

Hav Kale Dhondibhau Kondiba (No. 2772968A now JC-210995M), 1st Mar 1991.

Hav Mendhule Manohar Ramchandra (No. 2774915A now JC-210996P), 1st Mar 1991.

Hav Tukaram Bharmu More (No. 2766588L now JC-210997X), 2nd Mar 1991.

Hav Shinde Sadanand Yeshwant (No. 2768990N now JC-210998A), 2nd Mar 1991.

Hav Suryaji Jaganath Shedge (No. 2763152P now JC-210999H), 2nd Mar 1991.

Hav Chaudhari Damodhar Rajadhar (No. 2767206H now JC-211000K), 2nd Mar 1991.

Hav Bhagwan Vishvanath Shinde (No. 2768845W now JC-211001M), 2nd Mar 1991.

Hav Savant Sadashiv Nana (No. 2768971H now JC-211002P), 2nd Mar 1991.

Hav Patil Shivaji Appa (No. 2767208N now JC-211003X), 2nd Mar 1991.

Hav Kakade Kakasaheb (No. 2766996W now JC-211004A), 1st Apr 91.

Hav Ashok Laxman Bhoite (No. 2767579W now JC-211005H), 1st May 1991.

Hav Shrikrishna Baburao Patil (No. 2768155M now JC-211006L), 1st May 1991.

Hav Laxman Avaba Nikam (No. 2767602Y now JC-211007N), 1st May 1991.

The Raj Rif

To be Nb Sub

Hav Jai Ram (No. 2867212L now JC-211008W), 21st Dec 1990.

Hav Virender Singh (No. 2869683X now JC-211009Y), 1st Jan 1991.

Hav Rattan Singh (No. 2865121H now JC-211010N), 21st Jan 1991.

Hav Randhir Singh (No. 2866449W now JC-211011W), 21st Jan 1991.

Hav Ajit Singh (No. 2868977Y now JC-211012Y), 4th Apr 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25th Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Mahabir Parshad (No. 2866662W now JC-211013F), 4th Apr 1991.

Hav Rawat Singh (No. 2863977P now JC-211014K), 14th Apr 1991.

Hav Hari Singh Bidawat (No. 2868864W now JC-211015M), 21st Apr 1991.

Hav Madho Singh (No. 2864719F now JC-211016P), 1st June 1991.

Hav Deep Singh (No. 2866962X now JC-211017X), 8th Nov 1990.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Ranjit Singh (No. 2868970P now JC-211018A), 26th Jan 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Prahlad Singh (No. 2863467N now JC-211019H), 8th Apr 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20th Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Jai Singh Bamil (No. 2868189P now JC-211020X), 5th Mar 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Pal Singh Pannu (No. 2867791H now JC-211021A), 16th Jan 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Rathod Laxman Singh Kalyan Singh (No. 2867671K now JC-211022H), 21st Jan 1991.

Hav Mukhtiar Singh (No. 2861860X now JC-211023L), 10th Apr 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26th Mar 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Magan Singh (No. 2862583K now JC-211024N), 28th Apr 1991.

Hav Jan Mohammad (No. 2871457Y now JC-211025W), 1st May 1991.

To be Nb Sub (Musn)

Hav Musn Hari Parsad (No. 2863975K now JC-211026Y), 18th Apr 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub Musn wef 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Surendra Singh Bhadoria (No. 2864454H now JC-211027F), 1st Feb 1991.

Hav Clk Damodar Dass (No. 2863020W now JC-211028K), 1st Apr 1991.

Hav Clk Lakhi Ram (No. 2864611K now JC-211029M), 1st Apr 1991.

Hav Clk Om Parkash (No. 2864713A now JC-211030F), 1st Apr 1991.

The Rajput Regiment

To be Nb Sub

Hav Om Parkash (No. 2966534N now JC-211031K), 1st Aug 1990.

Hav Shri Pal Singh (No. 2970719M now JC-211032M), 1st Oct 1990.

Hav Raj Kumar (No. 2970655M now JC-211033P), 1st Dec 1990.

Hav Dharampal Singh (No. 2968401W now JC-211034Y), 1st Jan 1991.

Hav Phool Singh (No. 2971525W now JC-211035A), 18th Mar 1991.

Hav Mahatam Singh (No. 2971044K now JC-211036H), 1st Apr 1991.

Hav Ram Singh (No. 2972683X now JC-211037L), 1st June 1991.

Hav Sobaran Singh Rana (No. 2969028N now JC-211038N), 1st Jan 1991.*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Narendra Singh Rathore (No. 2970937L now JC-211039W), 14th June 1991.*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Rahim Kumar Das (No. 2970430K now JC-211040L), 20th Mar 1991.

Hav Madan Mohan Saha (No. 2970788H now JC-211041N), 1st May 1991.

Hav Manick Chandra Chandra (No. 2970989I now JC-211042W), 1st May 1991.

Hav Biswanath Halder (No. 13855203L now JC-211043Y), 15th June 1991.*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Kumar (No. 2971889H now JC-211044F), 1st June 1991.

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Nathu Singh (No. 2963792H now JC-211045K), 10th May 1991.*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Mar 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Vikram Singh Parihar (No. 2964384K now JC-211046M), 1st Nov 1987.

Hav Dharam Singh (No. 2966728W now JC-211047P), 15th Dec 1987.

Hav Devi Singh (No. 2964971P now JC-211048X), 15th Dec 1987.

Hav Bhagwan Singh (No. 2964550M now JC-211049A), 15th Dec 1987.

Hav Kartar Singh (No. 2967237X now JC-211050P), 15th Dec 1987.

Hav Darshan Singh (No. 4454112A now JC-211051X), 1st Jan 1988.

Hav Hari Pal Singh Chauhan (No. 2966985N now JC-211052A), 1st Jan 1988.

Hav Mohammed Mustaq (No. 2969802X now JC-211053H), 10th Jan 1988.

Hav Hansa Ram (No. 2970195W now JC-211054L), 31st Jan 1991.*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Apr 90 without effect on pay and allowances).

Hav Hari Singh Gurjar (No. 2970266N now JC-211055N) 2nd June 1991.*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Apr 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Sirmor Singh (No. 2972348N now JC-211056W) 1st Nov 1990.

PA Hav Ram Singh Gurjar (No. 2977266P now JC-211057Y) 9th Feb 1991.*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Shri Ram Singh (No. 2968111Y now JC-211058F) 4th June 1991.*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Ran Singh (No. 2964712M now JC-211059K) 14th Apr 1991.

Hav Sarwan Lal Gujjar (No. 2970385H now JC-211060Y) 14th Apr 1991.

Hav Omkar (No. 2975101X now JC-211061F) 14th Apr 1991.

Hav Satanand (No. 2972540X now JC-211062K) 1st May 1991.

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Partap Sharma (No. 2971269M now JC-211063-M), 12th Mar 1991.*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Mar 1991 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub

Hav Niranjana Singh (No. 2968006H now JC-211064P), 10th June 1990.

Hav Kaptan Singh (No. 2969103M now JC-211065X) 19th March 1991.*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Raj Singh (No. 2973679F now JC-211066A) 18th Jan 1991.*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Mukunda Ram Chakraborty (No. 2976068X now JC-211067H), 5th Jan 1991.

Hav Virendra Narayan Singh (No. 2969031N now JC-211068L) 18th Mar 1991.

Hav Rajendra Singh (No. 2968571A now JC-211069N), 18th Mar 1991.

Hav Kanhaiya Bux (No. 2971168Y now JC-211070H) 18th Mar 1991.

Hav Amar Singh Gujar (No. 2970139X now JC-211071L) 18th Mar 1991.

Hav Girdhari Lal (No. 2970431M now JC-211072N) 18th Mar 1991.

Hav Gaje Singh (No. 2968841K now JC-211073W) 23rd Mar 1991.

Hav Sumer Singh (No. 2967171F now JC-211074Y), 23rd Mar 1991.

Hav Hawa Singh (No. 2967696L now JC-211075F), 23rd Mar 1991.

The Jat Regt

To be Nb Sub

Hav Shiv Narayan Chaudhry (No. 3165524M now JC-211076K) 5th Aug 1990.

Hav Raghuvir Singh (No. 3167651A now JC-211077M) 21st Dec 1990.

Hav Amar Singh (No. 3161690H now JC-211078P) 1st Jan 1991.

Hav Azad Singh Malik (No. 3165604K now JC-211079X) 20th Apr 1991.

Hav Dharamvir Singh (No. 3161938F now JC-211080M) 22nd June 1991.

Hav Bana Ram (No. 3161063W now JC-211081P) 22nd June 1991.

Hav Sardar Singh (No. 3163383K now JC-211082X) 22nd June 1991.

Hav Balbir Singh Shivrain (No. 3164529Y now JC-211083A) 22nd June 1991.

Hav Suraj Bhan (No. 3164781X now JC-211084H) 22nd June 1991.

Hav Ram Partap Verma (No. 3163397K now JC-211085L) 1st July 1991.

Hav Hukam Chand (No. 3162668K now JC-211086N) 29th Jan 1991.

Hav Sher Singh (No. 3159164L now JC-211087W) 1st Feb 1991.

Hav Dalu Ram (No. 3162341L now JC-211088Y) 1st Feb 1991.

Hav Lok Ram (No. 3162526M now JC-211089F) 24th Feb 1991.

Hav Ram Pal (No. 3164775K now JC-211090W) 27th Feb 1991.

Hav Rajinder Singh (No. 3164134X now JC-211091Y) 25th May 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 21st Apr 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Rajinder Singh (No. 3161106A now JC-211092F) 1st Jan 1991.

*(Granted national seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Jan 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Sis Ram (No. 3163738K now JC-211093K) 19th Jan 1991.

Hav Sumer Singh (No. 3166660P now JC-211094M) 1st Feb 1991.

Hav Shiv Narain Singh (No. 3164200P now JC-211095P) 1st Feb 1991.

Hav Mahender Singh (No. 3168048K now JC-211096X) 7th May 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Apr 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Birbal Singh (No. 3163384M now JC-211097A) 1st Apr 1991.

Hav Bajrang Lal (No. 3163615X now JC-211098H) 1st Apr 1991.

Hav Desh Ram (No. 3164222N now JC-211099L) 19th May 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st May 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Bhaboot Ram (No. 3166872A now JC-211100P) 1st June 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Baje Singh (No. 14519706H now JC-211101X) 26th May 1991.

Hav Rohtas Singh (No. 3164202A now JC-211102A) 25th Nov 1990.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Nov 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Amar Singh (No. 3967998N now JC-211103H) 1st Dec 1990.

Hav Ram Kanwar (No. 3162460F now JC-211104L) 1st Jan 1991.

Hav Om Parkash (No. 3166756X now JC-211105N) 1st Feb 1991.

Hav Raj Kumar Singh (No. 3164157Y now JC-211106W) 13th Feb 1991.

Hav Pratap Singh Punair (No. 4050585N now JC-211107Y) 21st Feb 1991.

Hav Pirthi Singh (No. 3164823Y now JC-211108F) 1st Mar 1991.

Hav Omvir Singh (No. 3166642M now JC-211109K) 1st Mar 1991.

Hav Devi Singh (No. 3164945H now JC-211110Y) 1st Apr 1991.

Hav Shri Bhagwan (No. 3163127P now JC-211111F) 1st Apr 1991.

Hav Ishwer Singh (No. 3164618X now JC-211112K) 1st Apr 1991.

Hav Pritam Singh (No. 3968553N now JC-211113M) 1st May 1991.

Hav Rattan Lal (No. 3167193P now JC-211114P) 1st May 1991.

Hav Lekh Raj Singh (No. 3163996K now JC-211115X) 16th May 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Krishan Chander (No. 3161855W now JC-211116A) 1st Apr 1991.

The Sikh Regiment

To be Nb Sub

Hav Balwant Singh (No. 3374366N now JC-211117H) 17th Mar 1991.%

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 91 without effect on pay and allowances).

Hav Surjit Singh (No. 3371725L now JC-211118L) 1st Apr 1991.

Hav Thammiah CK (No. 2578993L now JC-211119N) 1st Dec 1990.

Hav Jaswinder Singh (No. 3372303M now JC-211120H) 7th Mar 1991.%

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 91 without effect on pay and allowances).

Hav Bhagwan Singh (No. 3372389W now JC-211121L) 1st Mar 1991.

Hav Dhian Singh (No. 3373655W now JC-211122N) 1st Mar 1991.

The Sikh L I

To be Nb Sub (GD)

Hav Mangal Singh (No. 4452588N now JC-211123W) 15th Oct 1990

Hav Baikar Singh (No. 4454497H now JC-211124Y) 1st Mar 1991.

Hav Jagan Singh (No. 4455938A now JC-211125F) 10th Mar 1991.

Hav Amar Singh (No. 4455694L now JC-211126K) 15th Mar 1991.

£ (Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 1st Oct 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Mewa Singh (No. 4454303P now 211127M) 8th May 1991.

To be Nb Sub (Clk) (GD)

Hav (Clk) Karam Singh (No. 4450058A now JC-211128P) 1st May 1991.

Hav (Clk) Muktar Singh (No. 4452284W now JC-211129X) 1st Jun 1991.

To be Nb Sub (GD)

Hav Parkash Singh (No. 4449518K now JC 211130M) 16th Feb 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 1st Sep 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Avtar Singh (No. 4455912L now JC-211131P) 1st Jan 1991.

Hav Salwinder Singh (No. 4456638L now JC-211132X) 8th Feb 1991.£

£ (Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Jaskaur Singh (No. 4455934K now JC-211133A) 1st Mar 1991.£

£ (Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 1st Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Gurbachan Singh (No. 4456259P now JC-211134H) 1st Jan 1991.

To be Nb Sub (Clk) (GD)

Hav (Clk) Hari Shanker Mishra (No. 4452248L now JC-211135L) 1st Feb 1991.

To be Nb Sub (GD)

Hav Dasnunda Singh (No. 4449904W now JC-211136N) 1st Oct 1990.

Hav Tarsem Singh (No. 4450576A now JC-211137W) 1st Oct 1990.

Hav Dharam Singh (No. 4456034M now JC-211138Y) 14th Nov. 1990.

Hav Harbans Singh (No. 4456888M now JC-211139F) 14th Nov 1990.

Hav Boota Singh (No. 4456430H now JC-211140W) 1st Dec 1990.

Hav Hans Lal (No. 4456325M now JC-211141Y) 3rd Dec 1990.

Hav Gurpratap Singh (No. 4452420F now JC-211142F) 5th Jan 1991.@

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect 1st Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Dilbagh Singh (No. 4455280L now JC-211143K) 6th Jan 1991.

To be Nb Sub (Clk) (GD)

Hav (Clk) Kulwant Singh (No. 4452241F now JC-211144M) 26th Jan 1991.

Hav (Clk) Nachhattar Singh (No. 4452257M now JC-211145P) 1st Mar 1991.

Hav (Clk) Surat Singh (No. 4452277A now JC-211146X) 1st Mar 1991.

Infantry

The Dogra Regiment

Hav Bidhi Chand Verma (3972439N now JC-211147A), 12th Nov 1990.

Hav Rashpaul Singh (8022203F now JC-211148H), 1st Jan 1991.

Hav Jankar Singh (3972251Y now JC-211149L), 1st Jan 1991.

Hav Negi Ram Mehta (3973007L now JC-211150A), 10th Jan 1991.

Hav Kalyan Chand (3973099H now JC-211151H), 29th Jan 1991.

Hav Harjit Singh (3967935L now JC-211152L), 1st Feb 1991.

Hav Dharam Chand (3966850H now JC-211153N), 23rd June 1991*.

* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Joginder Singh (3969532K now JC-211154W), 25th Feb 1991.

Hav Jagdish Singh (3966641L now JC-211155Y), 29th Mar 1991.

Hav Rachhpal Singh (3967025X now JC-211156F), 1st Apr 1991.

Hav Gian Chand (3967154X now JC-211157K), 1st May 1991.

Hav Hira Singh (3967183M now JC-211158M), 10th Jun 1991**.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 4th May 1991 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub

Hav Brij Lal (3966695M now JC-211159P), 4th Jan 1991.

Hav Bhag Singh (3965566A now JC-211160K), 11th Mar 1991.

Hav Mansa Ram Verma (3967016W now JC-211161M), 1st Feb 1991.

Hav Parkash Chand (3967314M now JC-211162P), 1st May 1991.

Hav Joginder Singh (3970359X now JC-211163X), 8th Apr 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Sat Pal (3968921X now JC-211164A), 1st Jun 1991.

Hav Man Chand (3966604X now JC-211165H), 19th Nov 1990.

Hav Ramesh Singh (3969597X now JC-211166L), 1st Jan 1991.

Hav Ravinder Nath, SM (3967270A now JC-211167N), 8th Jan 1991.

Hav Nellikkunnath Kunju Cherukkan Soman (2569213N now JC-211168W), 16th Jan 1991*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 9th Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Linjo Ram (3968505N now JC-211169Y), 19th Jan 1991.

Hav Mohan Singh (3966476L now JC-211170N), 29th Jan 1991.

Hav Shiv Ram (3969289X now JC-211171W), 1st Feb 1991.

Hav Udham Chand (3967768A now JC-211172Y), 17th Feb 1991.

Hav Vijay Singh (3965703N now JC-211173F), 1st Mar 1991.

Hav Kartar Singh (3965500K now JC-211174K), 1st Mar 1991.

Hav Gandhi Ram (3965661M now JC-211175M), 1st Mar 1991.

Hav Rup Chand (3966438P now JC-211176P), 1st Mar 1991.

Hav Abdesb Singh (3966467K now JC-211177X), 3rd Mar 1991.

Hav Surinder Kumar (3967619M now JC-211178A), 3rd Mar 1991.

Hav Balwan Singh (3970838Y now JC-211179H), 5th Mar 1991.

Hav Hans Raj (3966230M now JC-211180X), 6th Apr 1991**.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Bidhi Singh (3967622M now JC-211181A), 1st Apr 1991.

Hav Parkash Chand (3968659A now JC-211182H), 1st Apr 1991.

Hav Bhim Singh (3972120N now JC-211183L), 1st Apr 1991.

Hav Dev Raj (3968235K now JC-211184N), 1st May 1991.

Hav Kchat Singh (3969740Y now JC-211185W), 29th Apr 1991*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Oct 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Beant Kumar (3966940K now JC-211186Y), 5th Nov 1990.

Hav Sunder Singh (3964903X now JC-211187F), 3rd Jan 1991**.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24th Dec. 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Giau Chand (3970639L now JC-211188K), 1st Jan 1991.

Hav Jaswant Singh (3967377P now JC-211189M), 1st Jan 1991.

Hav Chaggar Singh (3971178Y now JC-211190F), 29th Jan 1991.

Hav Parkash Singh (3968165W now JC-211191K), 1st Feb 1991.

Hav Milap Chand (3966112Y now JC-211192M), 1st Apr 1991.

Hav Jagdish Chand Rathore (3971527X now JC-211193-P), 1st May 1991.

Hav Kailash Raj (3966738W now JC-211194X), 1st May 1991.

To be Nb Sub

Hav Hoshiar Singh (No. 3961257A now JC-211195A), 1st Nov 1987.

Hav Jalam Singh, SM (No. 3965793A now JC-211196H), 1st Nov 1987.

Hav Siri Ram (No. 3962150X now JC-211197L), 1st Dec 1987.

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Guru Dutt Sharma (No. 3963264P now JC-211198N), 22nd Feb 1988*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 1st Jan 1988 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Balwant Singh (No. 3963528L now JC-211199-W), 1st Jan 1988.

Hav Clk Roop Chand (No. 3963530H now JC-211200A), 1st Jan 1988.

The Garhwal Rifles

To be Nb Sub

Hav Hukam Singh (No. 4049796K now JC-211201H), 26th Sep 1990*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Sep 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Baldev Singh Mewar (No. 4051864L now JC-211202 L), 1st Oct 1990.

Hav Rajendra Singh (No. 4052675N now JC-211203N), 1st Oct 1990.

Hav Mangal Singh (No. 4051929N now JC-211204W), 9th Oct 1990.

Hav Balwant Singh (No. 4051768W now JC-211205Y), 16th Feb 1991*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Darmiyan Singh (No. 4052552F now JC-211206F), 24th Mar 1991.

Hav Surendra Singh (No. 4056169A now JC-211207K), 11th Apr 1991.

Hav Lakhpat Singh (No. 4050403P now JC-211208M), 30th Apr 1991.

Hav Raghubir Singh Negi (No. 4054266Y now JC-211209P), 17th May 1991.

Hav Madan Singh (No. 4054285K now JC-211210K), 19th May 1991.

Hav Yogendar Singh (No. 4052715K now JC-211211M),
1st June 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Rewadhar Prasad Jalandhary (No. 4051333N
now JC-211212P, 1st May 1991.

Hav (Clk) Jagadamba Prasad Joshi (No. 4053603W now
JC-211213X), 1st June 1991.

Hav (Clk) Hote Singh Yadav (No. 4053605F now JC-
211214A), 1st June 1991.

Hav (Clk) Anand Singh Bhandari (No. 4053613A now
JC-211215H), 1st June 1991.

Hav (Clk) Khyat Singh Bisht (No. 4053615L now JC-
211216L), 1st June 1991.

To be Nb Sub

Hav Trilok Singh Gusain (No. 4049584Y now JC-211217
N), 1st Oct 1990.

Hav Anand Mani (No. 4049026X now JC-211218W),
1st Jan 1991.

Hav Yaswant Singh (No. 4052051F now JC-211219Y),
20th Apr 1991*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Jan
1991 without effect on pay and allowances).

Hav Kotwal Singh Rawat (No. 4053071F now JC-211220
N), 1st Feb 1991.

Hav Kunwar Singh (No. 4054985X now JC-211221W),
1st Feb 1991.

Hav Birendra Singh Rawat (No. 4052348H now JC-
211222Y), 11th Mar 1991*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb
1991 without effect on pay and allowances).

Hav Govind Singh (No. 4050079H now JC-211223F),
15th Mar 1991*.

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb
1991 without effect on pay and allowances).

Hav Gavar Singh (No. 4052279X now JC-211224K), 1st
Apr 1991.

Hav Raghunath Singh (No. 4055099A now JC-211225M),
1st April 1991.

Hav Tej Singh Kandari (No. 4051160F now JC-211226P),
1st April 1991.

Hav Ramesh Singh (No. 4057212H now JC-211227X),
1st April 1991.

Hav Sankar Singh Negi (No. 4055760F now JC-211228A),
1st Apr 1991.

Hav Mahidhar Prasad Kanti (No. 4053210A now JC-
211229H), 4th Apr 1991.

Hav Bhawan Singh (No. 4054432F now JC-211230X),
1st May 1991.

Hav Ranbir Singh Rawat (No. 4052458X now JC-211231-
A), 1st May 1991.

Hav Sultan Singh Rawat (No. 4050544K now JC-211232-
H), 1st May 1991.

To be Sub (Clk)

Hav (Clk) Subhas Chandra Singh (No. 4049642X now
JC-211233L), 1st May 1991.

Hav (Clk) Virendra Kumar Mewar (No. 4051244P now
JC-211234N), 1st May 1991.

The Kumaon Regiment

To be Nb Sub

Hav Manghe Lal SM (No. 4163929P now JC-211235W),
16th Dec 1990.

Hav Shekhar Chandra (No. 4166469K now JC-211236Y),
27th Jun 1991*.

*(Grante anti date seniority wef 01 Feb 1991 without
effect on pay and allowances).

Hav Rohitashav Yadav (No. 4163691A now JC-211237F),
1st Jul 1991.

Hav Nathu Ram Joshi (No. 4163046L now JC-211238K),
1st Jul 1991.

The Naga Regt

To be Nb Sub

(Hav K L Rung Khan Amal (No. 41700557P now JC-
211239M), 7th Jan 1991.

The Kumaon Regiment

To be Nb Sub

Hav Dhan Singh (No. 4167651H now JC-211240F), 3rd
Dec 1990*.

*(Granted ante date seniority with effect from 30 Nov
1990 without effect on pay and allowances).

Hav Chandan Singh (No. 4167394K now JC-211241K),
12th Dec 1990.

Hav Mathura Singh (No. 4165061Y now JC-211242M),
10th Mar 1991.

Hav Bag Singh (No. 4165170L now JC-211243P), 10th
Mar 1991.

Hav Kunwar Singh Rawat (No. 4162646F now JC-211244
X), 10th Mar 1991.

Hav Jiwan Singh Mehra (No. 4166106A now JC-211245-
A), 1st Feb 1991.

Hav Pratap Singh (No. 4163747F now JC-211246H), 1st
Oct 1990.

Hav Jeevan Singh Dhami (No. 4164007Y now JC-211247-
L), 5th Mar 1991*.

*(Granted ante date seniority wef 01 Jan 91 without
effect on pay and allowances).

Hav Jaman Singh (No. 4167497H now JC-211248N),
1st Mar 1991.

Hav Mahavir (No. 4163871H now JC-211249W), 10th
Mar 1991.

Hav Har Singh (No. 4159794F now JC-211250L), 10th
Mar 1991.

The Assam Regiment

To be Nb Sub

Hav Jai Kumar Sinha (No. 4345820W now JC-211251N),
01st Jul 1990.

Hav Nandeswar Ray (No. 4347209N now JC-211252W),
04th Nov 1990*.

*(Granted ante-date of seniority in the rank of Nb Sub
without effect on pay and allowances wef 9th Oct 90).

Hav Dinesh Ch. Rabha (No. 4349360X now JC-211253-
Y), 01st Nov 1990.

Hav Chatua (No. 4349141W now JC-211254F), 19th Nov
1990.

Hav Borgan N (No. 2575144Y now JC-211255K), 01st
Dec 1990.

Hav Shashi Kumar Rajbongshi (No. 4348508Y now JC-
211256M), 01st Feb 1991.

Hav Mahada Basumatary (No. 4346633K now JC-211257-
P), 01st Mar 1991.

Hav Digendra Ch Rajbangshi (No. 4347766M now JC-
211258X), 01st Mar 1991.

Hav Rajen Basumatary (No. 4347884A now JC-211259A),
19th Apr 1991*.

*(Granted ante-date of seniority in the rank of Nb
Sub without effect on pay and allowances wef 01 Mar
1991.)

Hav Thambow Sinha (No. 4348051H now JC-211260P),
01st Mar 1991.

Hav Angom Ibobi Singh (No. 4348155K now JC-211261-
X), 01st Mar 1991.

Hav Tanu Ram Das (No. 4348723K now JC-211262A),
01st Apr 1991.

Hav Shri Prahlad Gogoi (No. 4349986P now JC-211263-H), 01st May 1991.

Hav Thungeperne Latha (No. 4346706L now JC-211264L) 14th Jul 90.

Hav Pachon Kipgen (No. 4350321L now JC-211265N) 01st Aug 90.

Hav Arjun Kumar Gurung (No. 4348940A now JC-211266 W) 01st Aug 90.

Hav Dhanl Ram Dass (No. 4350095Y now JC-211267Y) 01st Aug 90.

Hav Harendra Sinha (No. 4344535L now JC-211268F) 01st Sep 90.

Hav Wangman Wangchu (No. 4348369A now JC-211269 K) 01st Oct 90.

Hav Lhun Khomang Kuki (No. 4351392Y now JC-211270 Y) 22nd Oct 90.

Hav Rupendra Ch Hajong (No. 4348241P now JC-211271 F) 01st Dec 90.

Hav Mahendra Barua (No. 4346193F now JC-211272K) 01st Dec 90.

Hav Pulin Chandra Gogoi (No. 4346519M now JC-211273 M) 01st Jan 91.

Hav Nojen Chandra Ray (No. 4347088X now JC-211274 P) 01st Jan 91.

Hav Zosangmawia (No. 4347722P now JC-211275X) 09th Jan 91.*

Hav Ghana Shyam Saikia (No. 4345780A now JC-211276 A) 07th Mar 91. @

Hav Md Ashrebuddin Seikh (No. 4349842M now JC-211277H) 08th Mar 91. %

Hav TK Thanga Hmar (No. 4347268A now JC-211278L) 01st Apr 91.

*(Granted ante-date seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 91).

@(Granted ante-date seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 19 Feb 91).

%(Granted ante-date seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Mar 91).

The Bihar Regt

To be Naib Subedar

Hav Alphonée Ekka (No. 4253346N now JC-211279N) 06th May 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 91 without effect on pay and allowances).

Hav Jagat Tudu (No. 4249358L now JC-211280H) 13th May 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 91 without effect on pay and allowances).

Hav Jumar Kumar Swain (No. 4254367W now JC-211281L) 01st June 1991.

CHM Pankhracius Tigga (No. 4253184N now JC-211282 N) 01st June 1991.

Hav (Clk) Bhagwat Rai (No. 4251061H now JC-211283 W) 01st March 1991.

CHM Kalyan Kujur (No. 4251500H now JC-211284Y) 12th March 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Aug 90 without effect on pay and allowances).

Hav Shivajee Ram (No. 4253699N now JC-211285F) 27th February 1991.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Sep 90 without effect on pay and allowances).

Hav Ajit Kumar Aind (No. 4252664L now JC-211286K) 01st February 1991.

Hav Arjun Rawat (No. 4250418F now JC-211287M) 01st March 1991.

The Mahar Regiment

To be Nb Sub

Hav Dhyani Singh (No. 4543708P now JC-211288P) 17 Apr 91.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Feb 91 without effect on pay and allowances).

Hav Harmit Singh (No. 4547701H now JC-211289X) 27 May 91.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Feb 91 without effect on pay and allowances).

Hav Tharoga Singh Kushuwal (No. 9215012K now JC-211290M) 23 Feb 91.

Hav Brijendra Singh Chauhan (No. 4543998X now JC-211291P) 03 May 91.

Hav Pradip Kumar (No. 4547194A now JC-211292X), 12 May 91.

CHM Ram Narain (No. 9213246P now JC-211293A) 01 Jun 91.

Hav Bansode Pandurang Masa (No. 4546715W now JC-211294H) 10 Jun 91.

CHM Salunkhe Vijay Baban (No. 4546567W now JC-211295L) 14 Jun 91.

Hav Ranjit Singh (No. 9213483Y now JC-211296N) 01 Jul 91.

Hav Munshi Ram (No. 9213265A now JC-211297W) 01 Jul 91.

Hav Madan Singh (No. 9213538X now JC-211298Y) 01 Jul 91.

Hav Hankare Vitthal Maruti (No. 4547052H now JC-211299F) 01 Jul 91.

Hav Madhuker (No. 4543802Y now JC-211300L) 02 Apr 91.

Hav Balbir Singh (No. 4545215M now JC-211301N) 01 May 91.

Hav Gopinath Misra (No. 4546239H now JC-211302W), 01 May 91.

Hav Aswale Brahmanand Sangappa (No. 454942K now JC-211303Y) 01 May 91.

Hav Lakra Israel (No. 4544087N now JC-211304F) 01 May 91.

Hav Praduman Singh (No. 4545881X now JC-211305K) 01 May 91.

Hav Rattan Singh (No. 9212634A now JC-211306M) 19 Jun 91.

CHM Jaspal Singh (No. 3366675F now JC-211307P) 22 Jun 91.

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Clk (GD) Balwant Singh (No. 9212641W now JC-211308X) 01 Jun 97.

To be Nb Sub

Hav Bhim Singh Gurjar (No. 2976343M now JC-211309 A) 08 May 91.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Oct 90 without effect on pay and allowances).

CHM Sankpal Deepak Bhau (No. 4545778M now JC-211310P) 16 May 91.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Nov 90 without effect on pay and allowances).

CHM Hira Singh (No. 9215089M now JC-211311X) 01 Apr 91.

Hav Sansar Chand (No. 9215199F now JC-211312A) 01 Apr 91.